स्पष्ट आवाज़

लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, ललितपुर से प्रकाशित

लखनऊ
मंगलवार, 12 मार्च, 2024 वर्ष : 20, अंक: 256 पृष्ठ: 12

www.spashtawaz.com मूल्य: ₹ 3

लखनऊ के विकास का श्रेय योगी आदित्यनाथ को -पेज-12

Stallion Honda
MG Autosales Pvt. Ltd.
Ayodhya Road, Lucknow

Holi Special Offer

1,00,000 tak ki Maha Bachat
on 2023 Make Models
Limited Stock Available

Starts from ₹11 57 900*
Starts from ₹7 15 900*
Starts from ₹11 70 900*

HONDA
The Power of Dreams
/stallionhonda

Showroom (1S) : CP 5, Vikrant Khand, Gomtinagar, Ayodhya Road, Lucknow - 226010
Service (3S) : Anaura, After Indira Canal, Ayodhya Road, NH-28, Lucknow
Sales: +91 7897222000 ,+918009809995 I Service: +91 8009090093

पहला रोजा
सुन्नी | शिया
सहरी 4.55 | 4.51
इफ्तार 6.15 | 6.25

आर.सी.जे. ज्वैलर्स
(आर.सी. ज्वैलर्स)
सर्राफा बाजार, कुर्सी रोड, अलीगंज
लखनऊ निकट आर्य समाज मंदिर
गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ
बान वाली गली, चौक, लखनऊ
मो. - 8299567219
9455555965, 9415133977

समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना, ये मोदी की गारंटी

●द्वारका एक्सप्रेसवे से बदलेगा लोगों का जीवन, दिल्ली-एनसीआर की राह होगी आसान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम से सोमवार को द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 16 राज्यों के प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने रोड शो निकाला और द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा सीएम मनोहर लाल समेत अन्य नेता मौजूद रहे। मंच पर बैठे सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए पीएम ने कहा कि मैं अभी मेरे सामने की स्क्रीन पर देख रहा था कि आधुनिक तकनीक के द्वारा लाखों लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। वक्त बदल चुका है, गुरुग्राम में कार्यक्रम हो रहा है देश देख रहा है। देश में आज आधुनिक कनेक्टिविटी की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया है। मुझे खुशी है कि द्वारका एक्सप्रेस वे को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। इस एक्सप्रेस वे पर नौ हजार करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए हैं। आज से दिल्ली से हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव बदल जाएगा। ये आधुनिक एक्सप्रेस वे केवल गाड़ियों में ही नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों में जिंदगी में भी चियरशिप करने का काम करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2024 में ही इतने कम समय में अब तक दस लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास किया है या तो लोकार्पण किया है। मैं पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सभी राज्यों के करोड़ों नागरिकों को इतनी सारी विकास योजनाओं के लिए बधाई देता हूं। समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना ये मोदी की गारंटी है।इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के इस विकास में अगर सबसे ज्यादा किसी को दिक्कत है तो वह कांग्रेस और उसके इंडिया।

गठबंधन को। उनकी नींद खराब हो गई है। देश कहां से कहा पहुंच गया, लेकिन कांग्रेस और उनके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला। उनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है ऑल नेगेटिव। उन्होंने कहा कि ये तो वो लोग हैं जो केवल चुनावी सरकार चलाते थे। इन्होंने 2006 में 1000 करोड़ किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की थी, लेकिन वह घोंसले में घुस गए, लेकिन इसको हमने 2018 में पूरा किया। पीएम ने कहा कि मेरा सपना है कि 2047 तक देश विकसित होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी मुझे अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। मैं छोटा नहीं सोच सकता, न ही मैं छोटे सपने देखता हूं, न ही मैं छोटे संकल्प लेता हूं। मैं जो भी चाहता हूं, वह बड़ा चाहता हूं। मुझे जो चाहिए विराट चाहिए, विशाल चाहिए और तेज गति से चाहिए, क्योंकि 2047 में मुझे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए जी-जान से जुटे रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में जिस गति से विकास हो रहा है उससे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन डरे हुए हैं। जब मैं विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन करता हूं, तो वे इसे चुनावी रणनीति कहते हैं। नकारात्मकता और केवल नकारात्मकता ही कांग्रेस की असली विशेषता है।

संक्षिप्त आवाज़

मुनाफावसूली से गिरा बाजार

मुंबई। अमेरिका में महंगाई आंकड़े जारी होने से पहले विश्व बाजार के मिलेजुले रुख के बीच स्थानीय स्तर पर ऊंचे भाव पर हुई मुनाफावसूली से आज शेयर बाजार में भारी गिरावट रही। बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 616.75 अंक का गीता लगाकर 74 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे 73,502.64 अंक रह गया। साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 160.90 अंक का गोता लगाकर 22,332.65 अंक पर बंद हुआ।

बदले गए वाराणसी के सीपी

लखनऊ। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी सरकार ने 3 बड़े आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए हैं। वाराणसी पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन को हटा दिया गया है। उनकी जगह पर एटीएस चीफ मोहित अग्रवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुथा जैन को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड में अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। वहीं, मोहित अग्रवाल की जगह पर आईपीएस नीलाब्जा चौधरी को एटीएस चीफ बनाया गया है।

देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू

अधिसूचना

●नोटिफिकेशन जारी; गैर मुस्लिम पाक, बांग्ला और अफगान शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत शरणार्थियों को देश की नागरिकता मिल सकेगी। जानकारी के मुताबिक, सीएए के नियम जारी होने के बाद अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। देश में लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियम लागू करने को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो इस मामले में केंद्र पर सीधे-सीधे हमलावर हो गई हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों के तहत

भारत के तीन मुस्लिम पड़ोसी देश, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं, से आए गैर मुस्लिम प्रवासी लोगों के लिए भारत की नागरिकता लेने के नियम आसान हो जाएंगे। इन छह समुदायों में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। एक दिन बाद ही इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी। सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी। ऐसे अल्पसंख्यक, 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हों। इससे पहले भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 11 साल तक भारत में रहना जरूरी था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत इस नियम को आसान बनाया गया है। नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 से 6 साल किया गया है। सीएए को लेकर देश में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं। कई राजनीतिक दलों ने भी इसका विरोध किया था। उस वक्त केंद्र सरकार इसे लागू करने का मन बना चुकी थी, लेकिन कोरोना के चलते सीएए अधर में लटक गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 200 से अधिक जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। इन सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यह कहते रहे कि सीएए हर सूरत में लागू किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण इस अधिनियम को लागू करने में देरी हुई है। जो लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा, वे गलत साबित होंगे। सीएए, किसी व्यक्ति को खुद नागरिकता नहीं देता है। इसके जरिए पात्र व्यक्ति, आवेदन करने के योग्य बनता है। यह कानून उन लोगों पर लागू होगा, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे। इसमें प्रवासियों को वह अवधि साबित करनी होगी कि वे इतने समय में भारत में रह चुके हैं। उन्हें यह भी साबित करना होगा कि वे अपने देशों से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए हैं। वे लोग उन भाषाओं को बोलते हैं, जो संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हैं। उन्हें नागरिक कानून 1955 की तीसरी सूची की अनिवार्यताओं को भी पूरा करना होगा। इसके बाद ही प्रवासी आवेदन के पात्र होंगे।

सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करें पर्यवेक्षक : सीईसी

नई दिल्ली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनावों से पहले सभी पर्यवेक्षकों को देश भर में स्वतंत्र, निष्पक्ष, भय और प्रलोभन मुक्त चुनाव के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में तैनात किए जाने वाले पर्यवेक्षकों के लिए सोमवार को एक ब्रीफिंग का आयोजन किया।मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी पर्यवेक्षकों को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाते हुए उन्हें स्वतंत्र, निष्पक्ष, भय और प्रलोभन मुक्त चुनाव के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आयोग के प्रतिनिधियों के रूप में पर्यवेक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पेशेवर ढंग से कार्य करें और उम्मीदवारों सहित सभी हितधारकों के लिए सुलभ रहें। पर्यवेक्षकों को आचरण में सख्त लेकिन विनम्र रहने का निर्देश दिया गया। उन्होंने उनसे मतदान केंद्रों का दौरा करने और इलाकों की जानकारी लेने तथा संवेदनशील क्षेत्रों का जायजा लेने को कहा।विज्ञान भवन में हाइब्रिड मोड में आयोजित ब्रीफिंग में अनेक नौकरशाहों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ भारतीय राजस्व सेवा और कुछ अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों के 2150 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया।

5000 किमी रेंज वाली अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण

●चीन और आधा यूरोप जद में एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगा सकती है

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्नि-5 मिसाइल के टेस्ट परीक्षण को लेकर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, मिशन दिव्यास्त्र के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों पर हमें गर्व है, जिन्होंने स्वदेशी अग्नि-5 मिसाइल के पहले फ्लाइट टेस्ट किया। यह मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री-एंट्री व्हिकल (एमआईआरवी) तकनीक से लैस है। यह भारत के दुश्मनों के लिए एक चेतावनी की तरह है। इस मिसाइल के सफल परीक्षण से भारत की जद में सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आधी दुनिया आ गई है। भारत के पास अग्नि सीरीज की 1 से 5 तक मिसाइलें हैं, इनकी अलग-अलग रेंज हैं, अग्नि-5 इनमें से सबसे खास है, यह मिसाइल 5 हजार से भी ज्यादा दूर का लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इसके परीक्षण में लिए भारत पिछले काफी समय से तैयारी कर रहा था। हालांकि ये परीक्षण कब होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। माना जा रहा था कि 16 मार्च तक कभी भी भारत इसका परीक्षण कर देगा। इसके लिए ओडिशा तट के पास एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 3500 किमी तक का क्षेत्र नो फ्लाई जोन घोषित किया गया था। अग्नि-5 मिसाइल की रेंज और इसकी रफ्तार ही इसकी खासियत है, यह चीन और पाकिस्तान को पल भर में तबाह कर सकती है। दिल्ली से बीजिंग की दूरी 3791 किमी है, यह दूरी तय करने में इस मिसाइल को 12.63 मिनट लगेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचने में यह सिर्फ डेढ़ मिनट लेगी। इतने कम समय में यह नई दिल्ली से इस्लामाबाद की 679 किमी की दूरी तय कर लेगी। मारक क्षमता को देखें तो पाकिस्तान के आगे अफगानिस्तान और ईरान तक इसकी जद में होंगे। अग्नि-5 एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो अपने साथ परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है। इसमें थर्मोबेरिक हथियार भी लगाए जा सकते हैं। थर्मोबेरिक बम को आसान भाषा में वैक्यूम बम भी कहते हैं जो दुश्मन की सांसें रोक लेता है।

संविधान बदलने की साजिश कर रही है भाजपा

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर हमला करते हुए कहा है कि दोनों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म कर देश का संविधान बदलने की साजिश कर रहे हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव में दो तिहाई बहुमत हासिल कर सरकार बनाना चाहते हैं। श्री खड़गे ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा का सांसद खुलेआम कहता है कि पार्टी को संविधान बदलने के लिए लोकसभा में 400 का आंकड़ा चाहिए। उनका कहना था कि भाजपा इस बयान को गलत मानती है, तो उसे ऐसा कहने वाले सांसद को पार्टी से निकाल देना चाहिए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा ने संविधान को सम्पूर्ण तरीके से स्वीकार नहीं किया है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं- संविधान नहीं बदला जाएगा, दूसरी तरफ वो अपने सांसद से कहलवाते हैं कि संविधान बदलने के लिए हमें दो तिहाई बहुमत चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को आजादी दिलाने और संविधान बनाने में आरएसएस-भाजपा का कोई योगदान नहीं हैं। ये तिरंगे झंडे का भी विरोध करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा डॉ.अम्बेडकर की बात करते हैं, लेकिन उनके उसूलों को नहीं मानते हैं। अगर मानते तो संविधान बदलने की बात करने वाले लोगों को पार्टी से निकाल देते। भाजपा सामाजिक न्याय के खिलाफ है। जिस संविधान ने सभी को हक और आजादी दी उसे ही बदलने की बात आज भाजपा कर रही है। भाजपा हमेशा कांग्रेस पार्टी की आलोचना करती रहती है, क्योंकि हमने संविधान में लिखने बोलने की आजादी दी है।डॉ.अम्बेडकर ने देश को जो संविधान दिया उसे भाजपा के लोगों द्वारा नकारा गया। देश के गरीबों का हक छीनने के लिए भाजपा ऐसी कोशिशें कर रही है। देश की संस्थाओं को भी भाजपा एक-एक करके खत्म कर रही है। कैग भी इनमें से एक है। कैग रिपोर्ट से पता चलता है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों ने 8,50,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, लेकिन भाजपा मानने को तैयार नहीं है।

एचटी लाइन के संपर्क में आने से बस में लगी आग, पांच जिंदा जले

गाजीपुर। गाजीपुर जिले में बड़ा हादसा हुआ है। यहां बस में लगी आग के बाद अभी तक पांच शव बाहर निकाले गए हैं। कई लोग झुलस गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर चीख-पुकार मची है। हादसे का शिकार हुई बस बरातियों से भरी बताई जा रही है। कुल 38 बराती बस में सवार थे। सूचना पाकर मौके पर मोबाइल फोरेंसिक टीम भी पड़ताल के लिए पहुंच गई है। इस हादसे में 5 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। वहीं, दर्जनभर लोग झुलसे हुए हैं। दो लोगों की हालत गंभीर है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि यहां एक निजी बस में आग आग लग गई है। एचटी लाइन के संपर्क में आने से बस हादसे का शिकार हो गई। आग की चपेट में आने से कई लोग झुलस गए हैं। बस मऊ से एक वैवाहिक कार्यक्रम में जा रही थी। मरदह थाना के 400 मीटर के पास एचटी तार के संपर्क में आने से बस में आ आग लग गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह भी मौके पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर हादसे का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख व झुलसे लोगों को 50-50 हजार की सहायता देने का ऐलान किया।

विधानपरिषद : एनडीए और सपा उम्मीदवारों का नामांकन

लखनऊ। विधानपरिषद की रिक्त तेरह सीटों के लिए सोमवार को भाजपा और उसके सहयोगी दलों के दस उम्मीदवारों ने नामांकन किया जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से तीन उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी की मौजूदगी में विधान भवन में विधान परिषद चुनाव के लिए एनडीए के 10 विधान परिषद के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। एनडीए की ओर से नामांकन दाखिल करने वालों में भाजपा के सात और उसके सहयोगी दलों अपना दल (एस) रालोद एवं सुभासपा के एक-एक प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशियों में पूर्व मंत्री डा. महेन्द्र सिंह,

अशोक कटारिया, विजय बहादुर पाठक के अलावा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल, संतोष सिंह राम तीरथ सिंघल तथा धर्मेन्द्र सिंह ने नामांकन किया। वहीं अपना दल (एस) के कार्यकारी अध्यक्ष व प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, रालोद के प्रत्याशी योगेश चौधरी और सुभासपा से अच्छेलाल राजभर ने नामांकन किया। इसके अलावा सपा की ओर से बलराम यादव,किरण पाल कश्यप तथा शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने अपना नामांकन दाखिल किया। जमाली हाल ही में बसपा से सपा में शामिल हुए है। जबकि बलराम यादव सपा की सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे है।

इलेक्टोरल बॉन्ड : अब खुलेगी चंदे के धंधे की पोल

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड केस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए वार किया है। जिसमें उन्होंने सोमवार को दावा किया है कि पीएम मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। इस केस में एनडीए सरकार अपने ही बैंक का ब्यौरा छिपाने के लिए शीर्ष कोर्ट में सिर के बल खड़ी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म-एक्स पर पोस्ट के जरिए कही हैं। जिसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के 'चंदे के धंधे' की पोल खुलने वाली है! 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन लाने का वायदा कर सत्ता में आई बीजेपी की सरकार अपने ही बैंक का ब्यौरा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी हो गई है। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर आगे लिखा है कि- इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है। जिसके जरिए भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के नेक्सस की पोल खोल कर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने आएगा। एक्स प्लेटफॉर्म पर आगे लिखा गया है कि क्रोनोलॉजी स्पष्ट है, चंदा दो-धंधा लो, चंदा दो-प्रोटेक्शन लो! चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार और आम जनता पर टैक्स की मार, यही है भाजपा की मोदी सरकार।

एसबीआई कल तक दे इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा : एससी

●चुनाव आयोग 15 मार्च तक वेबसाइट पर डाले, एसबीआई ने मांगा था 30 जून तक का समय

नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई कल तक ही जानकारी दे और 15 मार्च तक चुनाव आयोग उस जानकारी को सार्वजनिक करे। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए। साल्वे ने कोर्ट को बताया कि सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद एसबीआई ने नए इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करने पर रोक लगा दी है, लेकिन समस्या ये है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए हैं उस पूरी प्रक्रिया को पलटना होगा और इसमें समय लगेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की दलील मानने से इनकार कर दिया और कल तक ही जानकारी देने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि %आप (एसबीआई) कह रहे हैं कि दानदाताओं और राजनीतिक पार्टियों की जानकारी सील कवर के साथ एसबीआई की मुंबई स्थित मुख्य शाखा में है। मैचिंग प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन हमने आपको मैचिंग करने के लिए कहा ही नहीं था और हमने सिर्फ स्पष्ट डिस्कलोजर मांगा था। मामले पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ के सदस्य जस्टिस खन्ना ने एसबीआई के वकील हरीश साल्वे से कहा कि आपने बताया कि

इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी एक सील कवर लिफाफे में रखी गई है तो ऐसे में आपको सिर्फ सील कवर खोलकर जानकारी देनी है। सीजेआई ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि हमने 15 फरवरी को आदेश दिया था और आज 11 मार्च है। ऐसे में बीते 26 दिनों में आपने क्या किया? यह बताया जाना चाहिए कि यह काम हुआ है और अब हमें और समय चाहिए...हम एसबीआई से स्पष्टवादिता की उम्मीद करते हैं। इस पर एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अगर आप मैचिंग नहीं चाहते हैं तो हम तीन हफ्ते में पूरी जानकारी दे सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने एसबीआई की दलील मानने से इनकार कर दिया और एसबीआई को कल यानी कि 12 मार्च तक जानकारी देने का आदेश दिया। साथ ही चुनाव आयोग से 15 मार्च तक इस जानकारी को सार्वजनिक करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका खारिज कर दी। साथ ही कहा कि आदेश के पालन के लिए एसबीआई चेयरमैन और एमडी हलफनामा दायर करें। हम इस बार एसबीआई के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एसबीआई के नोटिस में ये बात लाना चाहते हैं कि कोर्ट के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने और तय समय में निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए बैंक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें एसबीआई बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट आज ही एनजीओ एडीआर की याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई थी। एडीआर की याचिका में आरोप लगाया गया कि एसबीआई ने जानबूझकर सर्वोच्च अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एसबीआई 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग 13 मार्च तक उस जानकारी को सार्वजनिक करे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की। पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, , जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं।

बीती 15 फरवरी को पांच जजों की संविधान पीठ ने केंद्र की इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के एकमात्र फाइनेंशियल संस्थान एसबीआई बैंक को 12 अप्रैल 2019 से अब तक हुई इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद की पूरी जानकारी 6 मार्च तक देने का आदेश दिया था।

अर्थ आवाज़

महिला उद्यमी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए डिजिटलीकरण का लाभ

नयी दिल्ली। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप सर्वे गोडैडी-24 ने भारत में महिला उद्यमियों के लिए डिजिटलीकरण के महत्व पर रोशनी डाली। अध्ययन के अनुसार 90 फीसदी उत्तरदाताओं का मानना है कि डिजिटलीकरण उनके कारोबार की सफलता के लिए ज़रूरी है। 97 फीसदी का कहना है कि डिजिटलीकरण के चलते उनके कारोबार की कार्यक्रम प्रक्रियाओं में काफी सुधार हुआ है। भारत में सर्वे में शामिल 51 फीसदी महिलाएं युवा हैं, जो कारोबार में गतिशील एवं अनुकूल प्रवृति को दर्शाता है। सर्वे महिला उद्यमियों के आशावादी दृष्टिकोण पर रोशनी डालता है, जिसके अनुसार 82 फीसदी उत्तरदाताओं को उम्मीद है कि अगर 3-5 सालों में उनके कारोबार का विकास होगा। कारोबार के सामरिक लक्ष्यों की बात करें तो 57 फीसदी महिलाएं मार्केट में पहुंच बढ़ाने पर 47 फीसदी कस्टमर एंगेजमेन्ट में सुधार पर फोकस करती हैं, 38 फीसदी महिलाएं साइबरसुरक्षा एवं डेटा सुरक्षा बढ़ाने पर ज़ोर देती हैं। नई तकनीकों की बात करें तो 88 फीसदी उत्तरदाता अपने कारोबार विकास के लिए एआई यानि आर्टीफिशियल इंटेलीजेन्स में भरोसा करते हैं। सर्वे में शामिल 60 फीसदी महिलाएं मार्केटिंग, 60 फीसदी बिज़नेस प्लानिंग एवं स्ट्रैटेजी तथा 49 फीसदी कस्टमर सर्विस को महत्व देती हैं, उन्हें लगता है कि उनके कारोबार को एआई से लाभ मिलेगा। सेलिना बीबर वाईस प्रेज़ीडेन्ट इंटरनेशनल मार्केट्स गोडैडी ने कहा डिजिटल बदलाव छोटे कारोबारों को नया आयाम देना जारी रखे हुए है, हम महिलाओं के आत्मविश्वास तथा उनके छोटे कारोबारों को लेकर उनके सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रेरित हैं।

पेप्सी का 'दिल मांगे मोर' कैम्पेन जारी

नयी दिल्ली। पेप्सी ने भारत में अपने 125वें जन्मदिन का जश्न मनाते हुए भविष्य को नए सिरे से परिभाषित करने की तैयारी पूरी कर ली है। अपने भव्य अतीत को भी नहीं भुलाया है। इस आइकॉनिक बेवरेज ब्रैंड ने पॉप कल्चर के दिल पर राज़ करने की अपनी एक सदी का जश्न मनाते हुए, भारत में नई ग्लोबल ब्रांडिंग पेश की है जो इसकी दमदार धरोहर को आधुनिक सोच से जोड़ती है। इसके साथ ही पेप्सी ने अपने नए ब्रैंड कैम्पेन यह दिल मांगे मोर भी लॉन्च किया है जो पूरे देशभर में तूफान बरपा कर देगा। इस नए कैम्पेन में ब्रैंड एंबैसडर रणवीर सिंह दिखायी दे रहे हैं। यानि ब्रैंड पेप्सी के लिए यह दोहरा जश्न है जिसमें इसके सफर के अहम् मुकाम के साथ-साथ पेप्सी के आगे के सफर को पर भी जोर दिया गया है। पेप्सी ने अपनी पारी शुरू करने के साथ ही एक ऐसे आइकॉनिक ग्लोबल कंज्यूमर ब्रैंड के तौर पर खुद को पहचान दिलायी थी जिसके मूल में पॉप कल्चर और मौज-मस्ती समायी है। 'यह दिल मांगे मोर' उस जज़्बात की कहानी बयान करता है जो आज के दौर में पहले से भी ज्यादा मायने रखता है जबकि मौजूदा पीढ़ी बंधे-बंधाए ढर्रों को चुनौती दे रही है और सदियों पुरानी लकीरों को तोड़कर अपनी कामयाबी और खुशियों की नई परिभाषा गढ़ रही है।

बैड मंकी की उत्तर प्रदेश में लॉन्चिंग

लखनऊ। सिंक बेवरेज प्राइवेट लि का उत्पाद बैड मंकी उत्तर प्रदेश में अपने आधिकारिक लॉन्च की घोषणा से रोमांचित है। आकर्षक कीमत रु. 500 मिलीलीटर कैन के लिए 130 रु, बैड मंकी बीयर एक जंगली और मजबूत स्वाद प्रदान करता है, जिसमें अल्कोहल की मात्रा (एबीवी) 8 प्रतिशत तक होती है। दिल्ली की जीवंत सड़कों से लेकर पंजाब, चंडीगढ़, झारखंड, दमन दीव और सिलवासा के सांस्कृतिक रूप से समृद्ध परिदृश्यों तक पूरे भारत में उपभोक्ताओं द्वारा पहले से ही प्रिय, बैड मंकी बीयर ने प्रीमियम स्वाद, गुणवत्ता और आनंद के प्रतीक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा मजबूत कर ली है। दिल्ली से पंजाब, चंडीगढ़, झारखंड, दमन दीव और सिलवासा के सांस्कृतिक रूप से समृद्ध परिदृश्यों तक पूरे भारत में उपभोक्ताओं द्वारा पहले से ही प्रिय बैड मंकी बीयर ने प्रीमियम स्वाद, गुणवत्ता और आनंद के प्रतीक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा मजबूत कर ली है। इसकी लोकप्रियता उत्कृष्टता के प्रति ब्रांड की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सिंक बेवरेज प्राइवेट लि के संस्थापक रोहन खरे ने कहा यूपी हमारे लिए महत्वपूर्ण बाजार है। दिल्ली, झारखंड और अन्य राज्यों में हमारी सफलता के साथ, हमें विश्वास है कि बैड मंकी बीयर बीयर के शौकीन लोगों को पसंद आएगी।

क्रॉम्पटन लाइट्स की ट्रायो रेंज सीलिंग लाइट्स, बैटन्स लॉन्च

मुंबई। लाइटिंग की दुनिया में गुणवत्ता व इनोवेशन में आगे रहने का वादा करने के लिए मशहूर क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लि ने अपनी नई प्रीमियम रेंज, ट्रायो रेंज ऑफ लाइट्स लॉन्च की। यह आपके लिविंग स्पेस को आलीशान और अद्भुत स्टाइल की लाइटिंग के साथ एक नया रूप देने को तैयार हैं। इंडस्ट्री में अपने तरह की यह अनूठी ट्रायो रेंज एक ही प्रोडक्ट में तीन अलग तरह की लाइटिंग का अनुभव लाई है। सीलिंग लाइट्स से लेकर बैटन और लैम्प तक हरेक को जरूरत और खूबसूरती दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। घर, होटल, रेस्टोरेंट, कैफे और छोटे ऑफिस जैसी जगहों के लिए उपयुक्त, एलईडी लाइट्स की यह ट्रायो रेंज, उपयोगिता और कमाल के स्टाइल के फ्यूज़न के साथ लिविंग रूम को रोशन करेगी। इंटीरियर डिजाइन की बदलती दुनिया में, जहां कंटेम्परी पसंद नए-नए आकार लेती रहती है, ऐसे में क्रॉम्पटन लाइट्स ने उन बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर बदलाव किए हैं। ट्रायो रेंज की पेशकश पारंपरिक लाइटिंग से काफी हटकर है; आधुनिक रहन-सहन की बदलती ज़रूरतों के हिसाब एक बेहद शानदार अनुभव पेश किया जा रहा है। आज की लाइफ स्टाइल के दौर में हमारे लिविंग स्पेस की ढेर सारी भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए क्रॉम्पटन ने समझा कि यह सिर्फ आशियाना नहीं बल्कि यह उन अनगिनत यादों का पड़ाव है।

डा. भारती गाँधी से रक्षामंत्री ने आवास पर संवेदना व्यक्त की

लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवानर को डा. भारती गाँधी से उनके आवास पर मुलाकात कर डा. जगदीश गाँधी के निधन पर अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की। इस अवसर पर सीएमएस प्रेसीडेन्ट व प्रबन्धक, प्रो. गीता गाँधी किंगडन भी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर डा. जगदीश गाँधी से जुडे अपने लगाव को याद करते हुए रक्षामंत्री ने कहा कि डा. जगदीश गाँधी ने भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके न रहने से शिक्षा जगत में अपूर्णीय क्षति हुई है। रक्षामंत्री ने एक घंटे तक डा. भारती गाँधी से मुलाकात की और शिक्षा जगत व सामाजिक उत्थान में डा. जगदीश गाँधी के अतुलनीय योगदान पर चर्चा की। सीएमएस संस्थापिका-निदेशिका डा. भारती गाँधी ने कहा कि राजनाथ सिंह ने यहाँ आकर सीएमएस परिवार का हौसला बढ़ाया, उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। सीएमएस प्रेसीडेन्ट एवं प्रबन्धक प्रो. गीता गाँधी किंगडन ने राजनाथ सिंह से कहा कि सीएमएस का प्रत्येक कार्यकर्ता व शिक्षक डा. जगदीश गाँधी की विरासत व उनके विचारों को आगे बढ़ाने हेतु संकल्पित है।

निदेशक बलरामपुर का नर्सेस संघ ने किया स्वागत

लखनऊ। बलरामपुर चिकित्सालय के नव नियुक्ति निदेशक डा पवन कुमार अरुण एवं डा एनबी सिंह मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को राजकीय नर्सेज संघ उत्तर प्रदेश शाखा-बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ के पदाधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात एवं पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर पर मिथिलेश मिश्रा डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बलरामपुर ने सभी का परिचय कराया, राजकीय नर्सेज संघ उत्तर प्रदेश के महासचिव अशोक कुमार, मंडल अध्यक्ष आईनिस चार्ल्स, अध्यक्ष बलरामपुर अमिता रौस, कोषाध्यक्ष सिमता मौर्य, मनीषा गुप्ता, महेन्द्र श्रीवास्तव, निदेशक महोदय ने नर्सेज से चिकित्सालय में बेहतर से बेहतर कार्य के लिए कहा एवं यह भी बताया कि जिस भी कमी को कोई भी दिक्कत हो तुरन्त हमें अवगत कराये जिससे समाधान किया जा सके।

अखिलेश ने दी रमजान की बधाई

लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देशवासियों को रमजान पर्व की बधाई देते हुए कहा है कि रमजानुल मुबारक माह में हमदर्दी और सब्र की सीख मिलती है। इस माह में अल्लाह अपनी रहमतों और बरकतों की बारिश करता है। अखिलेश ने कहा है कि रमजान का मकसद बुराइयों से बचना और नेकियों पर चलना भी है। इसलिए रमजान को नेकियों का मौसम-ए-बहार भी कहा जाता है। पैगम्बर मो साहब की शिक्षा और उनके सन्देश को याद करने का यह अवसर है। उनके जीवन से समानता व भाईचारे की शिक्षा लेना और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए।

बी.आर्क एवं बी. प्लानिंग की उच्चशिक्षा हेतु मोहक चयनित

लखनऊ। सिटी मोन्टेसरी स्कूल, गोमती नगर प्रथम कैम्पस के मेधावी छात्र मोहक सहाय बिसारिया ने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एवं बैचलर ऑफ प्लानिंग की उच्चशिक्षा हेतु जे.ई.ई. मेन्स पेपर-2 (बी.आर्क एवं बी. प्लानिंग) परीक्षा में चयनित होकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। छात्र ने बी.आर्क में 99.59 परसेन्टाइल जबकि बी. प्लानिंग में 99.96 परसेन्टाइल अर्जित कर अपने मेधा का परचम लहराया है। यह जानकारी सीएमएस के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी हरि ओम शर्मा ने देते हुए बताया कि बी.आर्क एवं बी. प्लानिंग की उच्चशिक्षा हेतु नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी (एनटीए) की ओर से अलग से परीक्षा आयोजित की जाती है तथापि इस परीक्षा में सफलता के उपरान्त मोहक दिल्ली, भोपाल, विजयवाड़ा, चंडीगढ़ आदि में स्थित देश के विभिन्न प्रतिष्ठित प्लानिंग व आर्किटेक्चर संस्थानों में एडमीशन लेकर अपने सपनों को साकार कर पायेगा। सीएमएस प्रेसीडेन्ट-प्रबन्धक प्रो. गीता गाँधी किंगडन ने मोहक के उज्जवल भविष्य की कामना की।

माहे रमजान का चाँद दिखते ही खिल उठे रोजेदारों के चेहरे

बाराबंकी। (स्पष्ट आवाज) माहे रमजान का पर्व आगाज होते ही रोजेदारों को बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतिजार रहता है की कब माहे रमजान का चाँद दिखे और रोज़ा रहने का सूअवसर प्राप्त हो कुछ ऐसा ही नजारा सोमवार को कस्बा अहमदपुर में देखने को मिला जब शाम होते ही जैसे ही आसमान में माहे रमजान का चाँद दिखाई दिया की रोजेदारों के चेहरे एकाएक खुशी से खिल उठे और देखते ही देखते ही बाज़ारो में चटपटे व्यंजनों , फल , मेवा एवं खजूर आदि की खरीददारी करने वालो की भीड़ बढ़ती दिखाई देने लगी तथा माहे रमज़ान की मुबारक़ बाद एक दूसरे को देने का सिलसिला भी तेजी के साथ बढ़ने लगा जो देर रात तक चलता रहा, वही माह-ए-रमज़ान का चाँद दिखने के साथ ही सभी मस्जिदों में तरावीह की नमाज़ शुरू हो गई।

रमज़ान के महीने में तरावीह की नमाज़ का विशेष महत्व होता है। तरावीह में दो दो रकात करके बीस रकात नमाज़ अदा की जाती है। जिसमे हाफ़िज़-ए-कुरआन द्वारा कुरआन-ए-पाक की तिलावत की जाती है और बाकी नमाज़ी सुनते हैं। सभी मस्जिदों में तरावीह की नमाज़ विशेष रूप से अदा की जाती है।

पीएम ग्राम सड़क योजना: नव निर्मित सड़क का अयोध्या सांसद ने किया लोकार्पण

दरियाबाद बाराबंकी(स्पष्ट आवाज)।दरियाबाद अद्रा व लोनियन पुरवा टिकैतनगर संपर्क मार्ग का सोमवार को अयोध्या सांसद लल्लू सिंह व क्षेत्रीय विधायक व राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने लोकार्पण किया । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नव निर्मित सड़क का लोकार्पण कर राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा की आज यह जो विकास हो रहा है । इसके जनक मंच पर बैठे लोग नही है । बल्कि यह विकास उनकी बदौलत हो रहा है जिन्होंने भाजपा के फूल का बटन दबाकर भाजपा को विकास करने के लायक बनाया । तरह तरह की जन उपयोगी योजनाएं चलाई जा रही है। आज पांच सौ वर्ष पुराना सपना साकार हुआ है । भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ है । आमजन मानस का पांच सौ वर्ष पुराना सपना साकार भाजपा सरकार में हुआ है । रेलवे के दोहरीकरण , एयरपोर्ट का निर्माण , सहित सड़को का निर्माण आदि विकास भाजपा।सरकार ने किया है । राज्यमंत्री ने कहा सरकार कही की बने विकास को लेकर दरियाबाद विधान सभा के संपर्क में रहेंगी । सरकार की योजनाएं जाति मजहब से हटकर सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम कर रही । राज्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर नारायण पुर से इटौरा मार्ग का नव निर्माण कराए जाने की घोषणा की है । सांसद लल्लू सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा की आज दुनिया को सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 140 करोड़ परिवारों को सभी सुविधा मिल रही है । मोदी जी भारत माता को वैभवशाली बनाने का काम कर रहे है । दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है । सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी । इस मौके पर पवन सिंह रिंकू, प्रमेंद्र विक्रम सिंह , महेश गुप्ता , नवीन तिवारी , लक्की सिंह राम आशीष , मुरली वफा मोहम्मद गिरजेश वर्मा आदि मौजूद रहे ।

ऑफिसर्स क्लब में लगाई गई जनपद स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी

■ जिला पंचायत अध्यक्षा एवं जिलाधिकारी ने फीता काट कर किया शुभारंभ

■ प्रतिवर्ष आयोजित हो प्रदर्शनी : राजरानी

बाराबंकी(स्पष्ट आवाज) । जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजरानी रावत एवं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने सोमवार को ऑफिसर्स क्लब में जनपद स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया। तत्पश्चात सभी ने सामूहिक रूप से पुष्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही इस अवसर पर मतदाता जागरूकता से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई । तथा बच्चों ने अपने हथेलियां पर मेहंदी लगवा कर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। अध्यक्षा ने ऑफिसर्स क्लब में जनपद स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी के आयोजन के लिए जिलाधिकारी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा की गई यह बहुत ही सराहनीय पहल है। उन्होंने जिलाधिकारी से एक समिति बनाकर भविष्य में प्रतिवर्ष इस प्रदर्शनी को आयोजित करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से उद्यानिक फसलों में रुचि रखने वाले तथा इसके माध्यम से जनपद के विकास में योगदान देने वाले किसान अपने उत्पादों को जनपद स्तर पर प्रदर्शित करते हैं , जिससे उनका मनोबल बढ़ता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पुष्प प्रदर्शनी के आयोजनों से बच्चों में फूलों के प्रति बहुत लगाव बढ़ता है और वह अपने घरों में विभिन्न प्रकार के फूल लगाते हैं और अपने घरों को फूलों से सजाते हैं। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत परिसर में भी रंग-बिरंगे फूलों को लगवाया जाएगा, जिससे आने वाले समय में इस तरीके की जब भी कोई प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, तो उसमें जिला पंचायत भी प्रतिभाग कर सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में लगभग 20 साल बाद यह पुष्प प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हम सभी को इस तरीके के कल्चर को अपनाना चाहिए और सभी को अपने-अपने घरों में रंग-बिरंगे फूलों को क्यारी और गमले में लगाकर अपने घर को और सुंदर बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनपद में पेंट माई सिटी के अंतर्गत शहर की दीवारों को पेंट किया जा रहा है, जिन पर विभिन्न प्रकार के संदेशों को उल्लिखित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में पुष्प प्रदर्शनी लगाई जाने की प्रेरणा मंडलायुक्त, अयोध्या गौरव दयाल से मिली, जिनके मार्गदर्शन में आज यहां पर जनपद स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी के आयोजन से औद्यानिक किसानों के साथ ही अन्य किसान साथियों को प्रेरणा मिलती है, जिससे वह विभिन्न प्रकार की फूलों की खेती करके काफी मुनाफा कमा सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी अ सुदन ने बताया कि ऑफिसर्स क्लब में एक दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी में 91 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें मुख्यतः 5 वर्गों की प्रदर्शनी लगाई गई। स्कूली बच्चों की रंगोली हेतु विभिन्न विद्यालयों के कुल 40 बच्चों के समूहों ने प्रतिभाग किया, जिसमें कुल प्रथम पुरस्कार हेतु दो, द्वितीय पुरस्कार हेतु चार एवं तृतीय पुरस्कार हेतु चार विजेताओं का चयन किया गया। इस प्रकार कुल 10 रंगोली विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। वर्ग 3 हेतु फ्लावर गुलाब, डहेलिया, लिलियम जरबेरा, कार्नेशन इत्यादि हेतु लगभग 30 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें मैनुद्दीन ने गुलाब, जरबेरा, कार्नेशन, लिलियम में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। वर्ग 4 हेतु गमलों के मौसमी फूल के लिए 15 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें उत्पल मिश्रा प्रथम पुरस्कार तथा आनंदी मैजिक वर्ल्ड ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। इसी प्रकार कलात्मक पुष्प सज्जा में लगभग 7 प्रतिभागियों ने फूलों के गुलदस्ते बनाए, जिसमे तीन प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार दिए गए। प्रदर्शनी में निर्णायक मंडल में सेवानिवृत्त निदेशक, उद्यान डॉ0 आर पी सिंह, सेवानिवृत अपर निदेशक, उद्यान तथा के वी के के वैज्ञानिक अश्विनी सिंह शामिल रहें । कार्यक्रम का संचालन प्रवक्ता आशीष पाठक ने किया। इस अवसर पर जिला उद्यान अधिकारी महेश कुमार श्रीवास्तव , जिला विद्यालय निरीक्षक ओपी त्रिपाठी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष देव पांडेय, डिप्टी कलेक्टर सुशी श्वेता, वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक गणेश कुमार मिश्रा उद्यान निरीक्षक, श्री अनिल कुमार शुक्ला उद्यान सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

इंसानियत कायम रखने का संदेश दे गया नाटक मीठी ईद

लखनऊ। सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था जीवन ज्योति सेवा फाउण्डेशन के तत्वावधान में चल रहे दो दिवसीय जीवन ज्योति नाट्य समारोह की अंतिम संध्या में बीएल गौड़ की मूल कहानी का प्रेरणा अग्रवाल के रूपान्तरण एवं ज्योति सिंह के निर्देशन में नाटक मीठी ईद का मंचन किया। नाट्य प्रदर्शन का उद्घाटन मुख्य अतिथि बी.एन.ओझा ने दीप प्रज्जवलित कर किया। संस्था की ज्योति सिंह, जितेंद्र सिंह, रिधिमा लाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्तिय उपस्थित थे। नाटक मीठी ईद ने मेहनत और ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा देते हुए बताया कि मेहनत और ईमानदारी यह दोनो ऐसी चीजें हैं, जिससे व्यक्ति जीवन में सदैव सफल होता है, दूसरी ओर जाति-धर्म से ऊपर उठकर मानवता और उदारता रखने का संदेश दिया। मीठी ईद के कथानुसार विजय रेलवे में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है, अपनी पत्नी शारदा के साथ सुखी है। वह देश व्यापी रेल हड़ताल के दौरान ईमानदारी से मजदूरों का साथ देता है जिसके कारण उसका स्थानांतरण जम्मू हो जाता है। जम्मू में राजेश नाम का एक व्यक्ति विजय का घनिष्ठ मित्र बन जाता है, जहां विजय की मुलाकत अब्दुल नाम के मुस्लिम मजदूर से होती है। दोनो अलग वर्गों से होते हैं, उनके मध्य संवेदनशील रिश्ता बन जाता है। जब अब्दुल बीमार पड़ता है तो राजेश के माध्यम से विजय को पता चलता है कि अब्दुल बीमार है, वह अब्दुल के घर जाकर उसकी मदद करता है। ईद मनाने के लिये अब्दुल की पत्नी फातिमा अपने हाथ के कड़े महाजन के पास गिरवी रख देती है, और अब्दुल फातिमा के साथ विजय के लिये ईद की सिवईया लेकर जाता है तो विजय को अब्दुल से पता चलता है कि फातिमा ने यह सब अपनी गरीबी के चलते किया।

नाटक मीठी ईद में मनाली सिंह, मुस्कान सिंह, मनीष यादव, सतीश शर्मा, अमन शर्मा, धर्मेंद्र सिंह, शुभेन्द्र सिंह और नरेश कुमार ने दमदार अभिनय किया। नाट्य नेपथ्य में सेट डिजाइनिंग-जितेन्द्र सिंह, सेट निर्माण-रंजीत पटेल, संगीत-राकेश सिंह, प्रकाश - कौशल किशोर और रूप सज्जा-विश्वास वैश्य का योगदान नाटक को सफल बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ।

संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, घर में फर्श पर पड़ा मिला शव

दरियबाद बाराबंकी । थाना टिकैत नगर इलाके में सोमवार को एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई उसका घर में फर्श पर पड़ा मिला है । सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है प्राप्त विवरण के अनुसार थाना क्षेत्र टिकैतनगर अंतर्गत ग्राम खेतासराय में सोमवार को पवन कुमार के घर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो बच्चों की मां सितारा देवी का शव घर में फर्श पर पड़ा देखा गया तो सनसनी फैल गई ।

सितारा देवी अपने दो बच्चों के साथ घर में रहती थी जबकि पति पवन कुमार दुबई में रहकर मेहनत मजदूरी का काम कर रहा है । बच्चों की रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो देखा कि सितारा देवी फर्श पर पड़ी है और उसकी सांस रुक गई हैं जिस पर किसी ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी तब पुलिस ने पहुंचकर उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है । पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी ।

राष्ट्रीय सेवा योजना के सात दिवसीय शिविर का समापन

गोला गोकर्णनाथ खीरी।चंद्रशेखर आजाद कृषि एवम प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के कैंपस कृषि महाविद्यालय जमुनाबाद गोला में स्नातक कृषि छात्रों का चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के सात दिवसीय विशेष शिविर का समापन किया गया । यह कैंप वजीरनगर ग्रामसभा के विलियमगंज में आयोजित किया गया था । कैंप के समापन वाले दिन सभी छात्रों ने और ग्राम प्रधान के द्वारा प्राथमिक विद्यालय वजीरगंज में वृक्षारोपण किया गया । जिसमें जामुन , आम, आंवला,लीची एवम नींबू के पेड़ लगाए गए तथा गांव में ऐड्स जागरूकता अभियान भी चलाया गया तथा कैंपस के ही डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने टीवी और ऐड्स के बारे में जानकारी दी । उसके बाद कैंप में आए मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान श्री अशोक वर्मा ने कहा कि ÷ आज खेती घाटे का सौदा है ,बच्चों इस खेती को कैसे उच्च तकनीक से पूरा किया जाए जिसमें किसान को लाभ मिले । इस कैंप में सात दिनों तक उपस्थित रहे , महाविद्यालय के कार्यक्रम टीचिंग एसोसिएट डॉक्टर सत्येंद्र कुमार (एनएसएस प्रभारी), डॉक्टर हिमांशु मिश्रा और डॉक्टर संदीप कुमार। इस कैंप में लगभग पचास छात्रों ने प्रतिभाग किया था ।

इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे हैदरगढ़ के संघर्ष शील कार्यकर्ता :अरविंद

बाराबंकी(स्पष्ट आवाज)। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को बढ़त दिलाने के साथ-साथ प्रत्याशी की जीत का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे हैदरगढ़ के संघर्षील जुझारू कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता इन्हीं कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से कई बार विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक परिणाम लाने का काम किया है। उक्त विचार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार सिंह को ने विधानसभा हैदरगढ़ मे नई सड़क चौराहे पर समाजवाद की पाठशाला पूर्व सांसद रामसागर रावत जी की अध्यक्षता में आयोजित इंडिया गठबंधन की संयुक्त बैठक मे उपस्थित दोनों पार्टियों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किये,पूर्व मंत्री ने आगे कहा कि विधानसभा हैदरगढ़ के कार्यकर्ता खुद को प्रत्याशी मानकर दिन रात मेहनत करते हुए प्रत्याशी और पार्टी को मजबूत करने का काम हमेशा करते आए हैं इन्हीं कार्यकर्ताओं ने मुझे विधायक और मंत्री बनाने का काम किया था इसलिए इन कार्यकर्ताओं पर मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करते हुए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हैदरगढ़ विधानसभा से सबसे ज्यादा वोंटो से बढ़त दिलाकर संसद में भेजने का काम हम सबको करना है।संयुक्त बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव इंडिया गठबंधन के संभावित प्रत्याशी तनुज पुनिया पूर्व विधायक रामगोपाल रावत, पूर्व विधायक राम मगन रावत, पूर्व मंत्री नकुल दुबे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन, रितेश सिंह, पूर्व अध्यक्ष जय प्रकाश मिश्रा सहित कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने बैठक को संबोधित करते हुए गठबंधन को मजबूती प्रदान करते हुए गठबंधन के प्रत्याशी को जीत दिलाने की अपील की ।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कराया राष्ट्र सेवा राष्ट्ररक्षा के दिव्य साधना संकल्प का बोध

गोला गोकर्णनाथ खीरी।राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोला नगर की सभी शाखाओं के स्वयंसेवकों का शाखा संगम नगर के राजेन्द्र गिरि स्टेडियम में आयोजित किया गया । जिसमें जिला संघ चालक अमित भसीन ने स्वयंसेवकों को संघ शताब्दी वर्ष 2025 के अवसर पर राष्ट सेवा राष्ट रक्षा के दिव्य साधना संकल्प का बोध कराते हुऐ पंच प्रण का स्मरण करवाया । जिसके विषय में परम पूज्य सर संघ चालक ने स्वयंसेवकों को कार्य करने के लिए लक्षित किया है । स्वयं परिवार व समाज को केन्द्र में रखते हुए प्रत्येक स्वयंसेवक को इन पंच सूत्रों के निहित आदर्शों के समाज में व्यवहारिक बनाने के लिए प्रेरित करते हुए बताया कि सामाजिक समरसता , कुटुंब भाव , सामान्य जीवन , पर्यावरण के प्रति संवेदन शीलता , स्वदेशी का आग्रह एवम नागरिक कर्तव्य बोध के माध्यम से हम भारत को वैभव सम्पन्न बनाने हेतु कटिबद्ध रहे ।इस कार्यक्रम में नगर संघ चालक विजय वर्मा सह नगर संघ चालक कौशल किशोर मिश्र , नगर कार्यवाह महेन्द्र पाठक नगर प्रचारक सर्वेंद्र सह नगर कार्यवाह शशि कान्त दीक्षित के साथ नगर के स्वयंसेवक व कार्यकर्ता बन्धुओं की उपस्थिति रही ।

गाजे-बाजे के साथ निकाली गई भव्य कलश यात्रा

राम सनेही घाट बाराबंकी नगर पंचायत राम सनेही घाट के लक्ष्मी नारायण मंदिर सुमेरगंज में 11 मार्च से 17 मार्च तक आयोजित होने वाली श्रीमद्भागवत कथा के मद्देनजर सोमवार को गाजे-बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए मंदिर पर आकर समाप्त हो गई।कलश यात्रा दिन में 11:00 बजे निकाली गई। इसमें कन्याएं ओर महिलाओं द्वारा अपने सर पर 108 कलश सर पर रख कर मंदिर प्रांगण से निकलकर क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों से होता हुए चल रही थीं।

अदालती सूचना

(आर्डर 5 कायद 1 व 5)
न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (जू0डि0) मीरजापुर
मु0नं0 564 सन् 2022
ता0 पेशी - 19.04.2024

कैलाश उर्फ कैलाशनाथ उम्र लगभग 63 वर्ष पुत्र स्व0 विश्वनाथ निवासी भोड़सर, तप्पा-84, परगना-कंतित, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर।

बनाम

1. उमाशंकर बउम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र स्व0 छांगुर निवासी भोड़सर, तप्पा-84, परगना-कंतित, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर।
2. कन्हैयालाल बउम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र मेवालाल निवासी ग्राम-भोड़सर, तप्पा-84, परगना-कंतित, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर।

मैं आपके नाम नालिश बतारीख 19 माह 03 सन् 2024 जवाबदेही /सुनवाई बवक्त 10 बजे दिन के असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालात से वाकई वाकिफ किया गया हो और उमूरानबरून मुताल्लिका मुकदमा का जवाब दे सकें या जिसके साथ और कोई सख्त हो जो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हो और जवाब देही दावा करें और आपको लालिम है कि उसी रोज जुमलादस्तावेज पेश करें। जिन पर आप बताइए अपना जवाबदेही के इस्तेमाल करना चाहते हो।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिर आपके समसूअ और होगा सख्स मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख .... को जारी किया गया।

दस्तखत हाकिम व मुहर अदालत

समाज सेवा संगठन ने गरीब कन्या की शादी में किया सहयोग दिया दान

रामसनेहीघाट बाराबंकी(स्पष्ट आवाज)। तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत गढ़ी बठौली में एक गरीब परिवार रामू वनमानुष के पुत्री की शादी में समाज सेवा संगठन द्वारा 2100 रूपये का दान किया गया। समाज सेवा संगठन के अध्यक्ष ने यह कहा कि इसी तरह हम सभी संगठन के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मिलजुल कर गरीब असहाय लोगों की मदद करने का बीणा उठा लिया है। जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर समाज सेवा संगठन खड़ा रहेगा। इस अवसर पर मौजूद समाजसेवा संगठन के अध्यक्ष बृजराज सिंह ,उपाध्यक्ष राम प्रकाश,कोषाध्यक्ष सैय्यद नायाब अहमद,सचिव वासुदेव वर्मा प्रधान बठौली, राम सुरेश गुप्ता प्रधान रसूलपुर ,राजेंद्र साहू, रामकरन यादव प्रधान हाजीपुर, क्षेत्र पंचायत सदस्य डॉक्टर रामबरन यादव, राकेश कुमार पांडे ,विजय बहादुर प्रधान, रिंकू सिंह प्रधान प्रतिनिधि, जगजीवन प्रसाद दुबे, ओमप्रकाश दुबे, बबलू दुबे, रामसूरत गुप्ता,तेजराम यादव प्रधान प्रतिनिधि, राम प्रसाद यादव पूर्व प्रधान, सदाब ,अंजुम खां ,वा संगठन के सभी सदस्य उपस्थित रहे।

एक बार फिर जलालाबाद ने लिखा कीर्तिमान, दो बच्चे हुए विद्याज्ञान में चयनित

शाहजहांपुर।कार्य करने की जिजीविषा हो तो बंजर भूमि से भी नई कोंपले खिल उठती है। व्यवस्था पर ठीकरा फोड़ देने के बहुत बहाने हो सकते हैं परंतु उन व्यवस्था पर विजय कैसे प्राप्त करनी है यह सोचने वाले लोग विरले ही है। खंड शिक्षा अधिकारी जलालाबाद सुनील कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आज जलालाबाद विकास खंड ने प्रदेश स्तर पर एक बार फिर परचम लहरा दिया। विद्याज्ञान परीक्षा में जनपद शाहजहांपुर से दो बच्चों का चयन हुआ है यह गौरव की बात है कि दोनों बच्चे जलालाबाद विकास खंड के छात्र है। परिस्थितियों के अभाव में इन बच्चों ने किस तरह प्रदेश के 200 बच्चों में जगह बनाई है यह बेहद उत्साहित करने वाला समाचार है। सक्षम शुक्ला जिन्होंने विद्याज्ञान परीक्षा में सफलता पाई है इनके पिता उच्च प्राथमिक विद्यालय कटका बहादुरपुर जलालाबाद में अनुदेशक के पद पर कार्यरत है। साथ ही दिव्यांशु ने भी विद्याज्ञान में सफलता पाई है इनके पिता संविलियन विद्यालय सिकंदरपुर अफगान में शिक्षामित्र पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन बच्चों की सफलता पर संबंधित विद्यालयों के शिक्षकों में भारी उल्लास है। जलालाबाद विकास खंड पूरे जनपद का ऐसा विकासखंड हैं जहां विद्याज्ञान परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था भी संपादित की गई थी, जिसकी बागडोर राहुल सिंह एवं प्रमोद को सौंपी गई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह के कुशल समन्वय में आज परिणाम हम सभी के सामने हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ना और जीतना यह बेहद काबिले तारीफ़ है। विकास खंड जलालाबाद में जब से सुनील कुमार सिंह ने कार्यभार संभाला है तब से जलालाबाद विकास खंड ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिसके लिए उनके गत वर्ष राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जलालाबाद विकास खंड गत दो वर्षो से राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा में प्रदेश में शीर्ष 50 विकास खंड में जगह बनाए हुए हैं साथ ही खेलकूद में जलालाबाद विकास खंड गत दो वर्षो से ओवरऑल चैंपियन का तमगा भी हासिल करता रहा है। क्षेत्र के विधायक हरिप्रकाश वर्मा का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रुचि लेना भी विकास खंड को शिखरता की ओर ले जा रहा है।विकासखंड की इस उपलब्धि पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ शाहजहांपुर के संगठन मंत्री अंकुर त्रिपाठी विमुक्त, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने हर्ष व्यक्त करते हुए मेहनती शिक्षकों छात्रों और उनके परिवारजनों को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

किसानों को उपज का अधिकतम मूल्य दिलाना शासन की प्राथमिकता : सीएस

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आलू उत्पादन, भण्डारण व बाजार मूल्य के संबंध में सोमवार को सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों को आलू के भण्डारण एवं विक्रय में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिये। आलू के सीजन से पहले सभी मंडियों को क्रियाशील करा दिया जाये। उन्होंने कहा कि आलू के रेट तथा कोल्ड स्टोरेज की क्षमता और उपलब्धता को सम्बन्धित पोर्टल पर प्रतिदिन अपडेट कराया जाये। मुख्यालय स्तर पर भी जनपद स्तर से इसकी प्रतिदिन रिपोर्ट ली जाये। उन्होंने कहा कि पुराने कोल्ड स्टोरेज को पूरी तरह से मार्डनाइजेशन कराया जाये।

बैठक में बताया गया कि देश में कुल आलू उत्पादन का लगभग 35 प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। प्रदेश में छह लाख से अधिक किसानों द्वारा आलू की खेती की जाती है। प्रदेश में गत वर्ष 6.94 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में 243 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ था। वर्तमान में औसत बाजार मूल्य 1039 रुपये प्रति कुन्तल (दिनांक 07 मार्च, 2024), जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 63 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान वर्ष में गत वर्ष की अपेक्षा शीतगृहों की संख्या एवं भण्डारण क्षमता में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रदेश में कुल 17092355.37 मीट्रिक टन के 2048 शीतगृह उपलब्ध है, जिसमें 11964648.76 भण्डार हेतु स्थान रिक्त है। जनपदों में आलू भण्डारण व्यवस्था सुचारु करने के लिए प्रतिदिन अनुश्रवण एवं मुख्यालय स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव उद्यान बी.एल.मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

बस टर्मिनल के पीपीपी मोड को लेकर बैठक

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में प्रदेश में बस टर्मिनल के विकास के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में 6 बस टर्मिनल के विकास के लिए फाइनेन्सियल बिड को अनुमोदन प्रदान किया गया। अनुमोदन के उपरान्त चारबाग (लखनऊ), सोहराबगेट (मेरठ), जीरो रोड (प्रयागराज), अमौसी (लखनऊ), अयोध्याधाम व रायबरेली में बस टर्मिनल का विकास पीपीपी मोड पर किया जायेगा।

बोरिया बिस्तर समेट चुके राव बने एक्सीडेंटल पीएम

दसवीं लोकसभा सन् - 1991

- नौ हजार उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे प्रत्याशी
- चुनाव प्रक्रिया के दौरान हुई थी पीएम राजीव की हत्या
- पीएम के तौर बेहतर माना जाता है राव का कार्यकाल

विशेष संवाददाता

लखनऊ। मंडल आयोग की सिफारिश पर आरक्षण देने और मंदिर आंदोलन की वजह से उपजे सामाजिक साम्प्रदायिक तनाव, लिट्टे के मानवबम के हाथों प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के साए में 1991 में मध्यावधि चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हाराव ने झारखण्ड मुक्ति मोर्चा जैसे दलों के समर्थन से अल्पमत की सरकार बनाई। पाच साल सरकार चलाकर भी दिखाई। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद भी सरकार बची रही। राव सरकार के कार्यकाल में दो बार अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। जिसका उन्होंने मजबूती से सामना किया जिसके चलते विपक्ष कमजोर होता गया। दसवीं लोकसभा संसदीय लोकतंत्र राजनीति के अपराधीकरण जातिवाद साम्प्रदायिकता के लिए याद की जाती है। बड़े पैमाने पर इसी कार्यकाल में दंगे हुए इस मुद्दे पर विपक्ष भी शोरशराबा करके शांत हो गया। 10वीं लोकसभा के लिए 1991 के अप्रैल-मई महीने में चुनाव कराए जाने का फैसला हुआ।

सुरक्षा कारणों से पंजाब में चुनाव 1992 में कराए गए जबकि जम्मू.कश्मीर में 10वीं लोकसभा के चुनाव कराए ही नहीं गए। चुनाव मैदान में थीं कांग्रेस बीजेपी, नेशनल फ्रंट गठबंधन और दो कम्युनिस्ट पार्टियां। इन चुनावों में पहली बार कांग्रेस की नीति समाजवाद से हटकर उदारीकरण की तरफ परिवर्तित हुई। लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में अल्ट्रा राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी हिंदू राजनीतिक और धार्मिक परंपरा से प्रेरित थी। जबकि नेशनल फ्रंट अब भी वी पी सिंह के पिछड़े वर्ग के विकास यानि मंडल की लाठी के सहारे था। कुल मिलाकर 9000 उम्मीदवारों ने 4 हफ्तों तक चुनाव प्रचार किया। ये चुनाव कई हिंसक घटनाओं का भी गवाह बना। मई में पहले चरण में 211 सीटों के लिए मतदान हुआ। दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जारी था। इसी दौरान एक आतंकी घटना ने चुनाव के सारे परिदृश्य को बदलकर रख दिया। 21 मई 1991। मतदान का दूसरा चरण। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी मद्रास के करीब श्रीपेरंबुदूर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। राजीव गांधी लोगों से मिल रहे थे ठीक इसी वक्त लिट्टे की एक महिला आतंकी ने आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी। इस आत्मघाती हमले में 14 अन्य लोग भी मारे गए। राजीव गांधी की मौत के बाद चुनाव जून में कराए गए। कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिलीं। राजीव गांधी की मौत से नेहरू वंश की उस परंपरा का अंत हो गया जो आजादी के बाद से लगातार सत्ता पर प्रत्यक्ष तौर पर काबिज था। 21 जून 1991 को राजनीति से रिटायरमेंट ले चुके पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। नरसिम्हा राव ने तो 1991 के चुनाव में हिस्सा भी नहीं लिया था। उन्होंने दिल्ली से अपना बोरिया-बिस्तर समेट लिया था। लेकिन किस्मत ने एक बार फि र से पलटी मारी और नरसिम्हा राव को दिल्ली की सत्ता के गलियारों में वापस बुला लिया गया। प्रधानमंत्री के तौर पर नरसिम्हा राव ने अच्छा प्रदर्शन किया। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने भी उनकी तारीफ की लेकिन जैन हवाला मामले में उनका नाम आने से कांग्रेस और विपक्ष में उनके कई दुश्मन पैदा हो गए। यही नहीं अपने कार्यकाल में बाबरी मस्जिद को न बचाने का दाग भी उनके दामन में हमेशा के लिए लग चुका था। भारत के उस वक्त तक के चुनावी इतिहास में 1991 का आम चुनाव सबसे ज्यादा हिंसक साबित हुआ। चुनाव के दौरान दंगों में 200 से भी ज्यादा लोग मारे गए। चुनाव आयोग को और धारदार और सशक्त बनाने के लिए, एक की बजाय दो चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के लिए कानून बनाया गया। 1991 में टी एन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने और इसके बाद तो चुनाव आयोग का खौफ हर उम्मीदवार के मन में घर कर गया। टी एन शेषन ने कई कठोर और मजबूत कदम उठाए जिसकी वजह से चुनाव आयोग को अपनी ताकत का एहसास हुआ।

किसको कितनी सीट

कुल सीटें	543
इंडियन नेशनल कांग्रेस	232
भारतीय जनता पार्टी	120
जनता दल	59
सीपीएम	35
सीपीआई	13
टीडीपी	13

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत क्विज प्रतियोगिता का किया गया आयोजन

मलिहाबाद (लखनऊ) (स्पष्ट आवाज)। खंड शिक्षा अधिकारी मलिहाबाद पदमशेखर मौर्य के दिशा निर्देशन में सोमवार को बीआरसी मलिहाबाद पर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत ब्लाक स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खण्ड शिक्षा अधिकारी मलिहाबाद पदम् शेखर मौर्या द्वारा उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के मंत्री फ हीम बेग एवं एआरपी सत्य प्रकाश पांडे की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को प्रारंभ किया क्विज प्रतियोगिता में ब्लाक के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के के छात्रों ने प्रतिभाग किया। मलिहाबाद के कसमंडी कला के दीपांशु प्रथम वर्षा मलिहाबाद द्वितीय हिमांशु प्रजापति माधोपुर तृतीय सहित प्रथम दस स्थान पाने वाले बच्चों को मैडल पांच सौ रूपए ट्रॉफ ी देकर पुरस्कृत किया गया। तथा बीस अन्य को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। प्रतिभाग करने वाले समस्त बच्चों को प्रतिभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन अवधेश कुमार स्वप्निल सुमन मौर्य द्वारा किया गया इस अवसर पर एआरपी सत्य प्रकाश पांडे विमला चंद्रा आलोक सिंग दिनेश चौधरी आनंद वर्मा फ हीम बेग प्रमिला सिंह दिनेश पाण्डेय स्वतंत्र कुमार रवि सक्सेना मनोज कुमार नीतू मेहरोत्रा अर्चना तिवारी सहित बहुत से शिक्षक उपस्थित रहे।

बीओबी ने लॉँन्च किया जॉब अर्थ ग्रीन डिपाजिट्स

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंकों में एक बैंक आफ बड़ौदा ने सोमवार को टर्म डिपाजिट योजना के शुभारंभ की घोषणा की और इस योजना के तहत प्राप्त होने वाली जमा राशि का उपयोग उपयुक्त पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं तथा क्षेत्रों की फाइनेंसिंग के लिए किया जायेगा। बॉब अर्थ ग्रीन डिपाजिट के तहत ग्राहकों को अलग-अलग समय सीमा में निवेश पर आर्कषक ब्याज दरों का लाभ उठाने के साथ-साथ भारत के हरित एवं दीर्घकालीन अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने का अवसर मिलता है। बैंक सालाना 7.15 प्रतिशत तक की ब्याज दरो की पेशकश कर रहा है। आम नागरिक निवासी भारतीय एनआरआई एवं उच्च मालियत वाले व्यक्ति एचएनआई निवेशक बाब का अर्थ ग्रीन टर्म डिपाजिट योजना में निवेश कर सकते है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ देबदत्त चांद ने कहा बैंक ने अपने परिचालन कार्यों में संवहनीयता को अपनाने की दिशा में काफ ी अधिक प्रगति की है जिसमें जोखिम प्रबंधन गवर्नेंस व्यवस्था सामाजिक दायित्व और पर्यावरणीय प्रभाव के प्रति हमारे दृष्टिकोण शामिल हैं। बॉब अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉज़िट योजना के शुभारंभ से निवेश करने वाले ग्राहकों को स्थायी और सुरक्षित रिटर्न पाने के साथ-साथ धरती को हरा भरा बनाने में योगदान देने का दोहरा लाभ मिलता है। भारत के अग्रणी बैंकों में से एक होने के नाते बैंक ऑफ़ बड़ौदा अपने ईएसजी मैंडेट को आगे बढ़ाने और ग्रीन फ इनेंसिंग के अपने पोर्टफ ोलियो के दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने अपने बॉब अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉज़िट योजना में नयापन लाते हुए विशेष समयावधि की पेशकश की है। जो धरती की जलवायु और संवहनीयता के लक्ष्यों की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि 1.5 वर्ष की समयावधि वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य को दर्शाती है। जबकि 1717 दिनों की समयावधि संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों पर दोगुना बल देती है। बॉब अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉज़िट के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का आबंटन उपयुक्त हरित परियोजनाओं क्षेत्रों को किया जाएगा। जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा स्वच्छ परिवहन सतत जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन ऊर्जा कुशलता जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण ग्रीन बिल्डिंग जैव विविधता संरक्षण आदि शामिल हैं। बैंक ऑफ़ बड़ौदा के मौजूदा और नए ग्राहक देश भर में बैंक की किसी भी शाखा में ग्रीन डिपॉज़िट में निवेश कर सकते हैं। पिछले वर्ष बैंक ऑफ़ बड़ौदा के 116वां स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक ने हमारी भावी पीढ़ियों हेतु प्रकृति प्रदत्त उपहारों की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और दायित्व को सुनिश्चित करने हेतु बॉब अर्थ को लॉन्च किया था। बॉब अर्थ ग्रीन डिपॉज़िट का शुभारंभ भी इसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है।

सीएए के कार्यान्वयन के मद्देनजर यूपी पुलिस सतर्क : पुलिस महानिदेशक

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रशांत कुमार ने सोमवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) 2019 के कार्यान्वयन के मद्देनजर राज्य पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और वह पूरी तरह सतर्क है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम पहले से ही सतर्क हैं। हमारी टीम गश्त कर रही हैं। यह (नागरिकता अधिनियम) अपेक्षित था और उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस ने इसके लिए जमीनी स्तर पर काम पहले ही कर लिया है। बता दें कि सोमवार को सीएए की अधिसूचना जारी होने से पहले डीजीपी मुख्यालय के निर्देश पर सभी कमिश्नरेट और जिलों में पुलिसकर्मियों के अवकाश निरस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया गया। आदेश में उन पुलिसकर्मियों को भी अवकाश से तत्काल वापस बुलाने को कहा गया, जो विभिन्न वजहों से छुट्टी पर हैं। तमाम संवेदनशील जिलों में तो एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ अवकाश पर गए पुलिसकर्मियों को सोमवार शाम छह बजे तक अपनी तैनाती के स्थान पर आमद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। उन्हें केवल विषम परिस्थिति में उच्चाधिकारी की अनुमति से अवकाश मिल सकेगा। वहीं पुलिस अधिकारियों की मानें तो प्रदेश में करीब 3-4 हजार शरणार्थी रहते हैं। हालांकि यह संख्या अनुमानित है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी कमिश्नरेट और जिलों को अलर्ट पर रहने और अभिसूचना तंत्र को विशेष रूप से सतर्कता बरतने का आदेश दिया है। वर्ष 2019 में हुए सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान चिन्हित अराजक तत्वों पर भी पैनी निगाह रखी जा रही है। अफवाह फैलाने वालों पर तत्काल सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।

बीएससी नर्सिंग के रिजल्ट को लेकर राज्यपाल को लिखा पत्र

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अंतिम वर्ष के छात्रों का जल्द से जल्दी रिजल्ट निकालने के ऑल इण्डिया रजिस्टर्ड नर्सेज फेडरेशन ने राज्यपाल और कुलपति को पत्र भेजा। अटल बिहारी बाजपेई मेडिकल यूनिवर्सिटी के पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अंतिम वर्ष के छात्रों की मुख्य परीक्षा 8 दिसंबर को समाप्त हुई थी। लेकिन अभी तक इनका परिणाम घोषित नही किया गया है जबकि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष और बीएससी नर्सिंग (समकक्ष डिग्री) का परिणाम घोषित कर दिया गया है। ऑल इण्डिया रजिस्टर्ड नर्सेज फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग वर्मा ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के कई भर्तियां निकाली है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग (बैच-2021-22)अंतिम वर्ष का परिणाम अभी तक घोषित न होने से हजारों अभ्यर्थी उक्त भर्तियों में फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे। प्रदेश महासचिव शिवम यादव ने बताया कि जल्द पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग (बैच-2021-22) अंतिम वर्ष के छात्रों का जल्द से जल्द रिजल्ट निकालने के लिए फेडरेशन में राज्यपाल और कुलपति को पत्र भेजा है।

संक्षिप्त आवाज़

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और एसबीआई को मंगलवार तक सभी दस्तावेज जमा करने के कड़े निर्देश दिए। यह बहुत अच्छा फैसला है, लोकदल ने इसका स्वागत किया है। चुनाव में कालेधन के उपयोग और सत्ता में पूँजीपतियों की गैर कानूनी हिस्सेदारी के खिलाफ है। एक राजनीतिक दल और एक सरकारी बैंक मिलकर देश की उच्चतम अदालत के फैसले को ठेंगा दिखा रहे थे। ऐसी पार्टियों के लिए सुप्रीम कोर्ट कानून के साथ मनमानी नहीं करने देगा। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भी अब बीजेपी सरकार की आर्थिक अनियमितता और कालेधन के स्रोत को छिपाने का जरिया बन रहा है।

केन्द्रीय प्रेक्षकों के साथ की वर्चुअल ब्रीफिंग

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को विज्ञान भवन नई दिल्ली से आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में कार्यरत आईएएस आईपीएस आईआरएएस आईटी आईआरएएस सी एण्ड आईटी आईआरएएस केन्द्रीय प्रेक्षकों की वर्चुअल ब्रीफिंग बैठक की। वर्चुअल बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा व आयोग द्वारा नामित सामान्य प्रेक्षक पुलिस प्रेक्षक तथा व्यय प्रेक्षक सहित कुल 65 केन्द्रीय प्रेक्षकों ने सोमवार को डायल यूपी 112 भवन के सभागार से वर्चुअल प्रतिभाग किया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी निर्वाचन को निष्पक्षए पारदर्शी, निर्भीक प्रलोभनमुक्त सकुशल सम्पन्न कराने के लिए दिशा निर्देश दिये गये।

परियोजनाओं का शिलान्यास आज

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। नगर विकास विभाग की 11 हजार करोड़ रूपये से अधिक लागत की 3419 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण कल 12 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के कर.कमलों द्वारा किया जा रहा। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के नगरीय जीवन को बेहतर बनाने के लिए यहां की नगरीय व्यवस्थापन को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही। प्रदेश की योगी सरकार ने इसके लिए कई विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारा है। नगरों को स्वच्छ बनाने के लिए साफ.सफआई का विशेष ध्यान दिया जा रहा।

ग्राम सभाओं को वितरित किए जायेंगे वाद्ययंत्र

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने 18 मण्डलों के 18 ग्राम प्रधानों प्रतिनिधियों को ढोलक हारमोनियम मजीरा घुंघरू तथा झींका वाद्ययंत्रों की किट वितरित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अंचलों की लोक संगीत एवं विरासत को संवर्धित करने के लिए एक अनूठी पहल की गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रदेश के समस्त ग्राम सभाओं को चरणबद्ध रूप से वाद्ययंत्रों का सेट प्रदान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मोबाइल के बढ़ते प्रभाव के कारण ग्रामीण संस्कृति और लोक संगीत की शैली प्रभावित हुई है। इसको जीवंत बनाये रखने के लिए राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को वाद्ययंत्र उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। श्री सिंह संगीत नाटक अकादमी गोमतीनगर के परिसर में संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में लोक कलाकार वाद्ययंत्र योजना के तहत ग्राम पंचायतों को वाद्ययंत्र वितरित करने के अवसर पर सम्बोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में 18 मण्डलों के 475 ग्राम प्रधानध्उनके प्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने ग्राम प्रधानों का आवाह्न किया कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मा0 योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा एवं कुशल मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम संभव हो पाया है।

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजा जायेगा सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। समाज सेविका सपना गोयल की अगुवाई में रविवार को पांच हजार महिलाओं द्वारा सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इतनी बड़ी संख्या में किए गए पाठ को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भेजा जाएगा। मस्तक पर लाल.पीला टीका और पीली साड़ी पहने पांच हजार सनातनी महिलाओं ने जब एक साथ सुंदरकांड पाठ की गीतमय प्रस्तुति दी तो झूलेलाल वाटिका का परिसर हनुमानमय हो गया। ईश्वरीय स्वप्नाशीष सेवा समिति सत्य सनातन नारी शक्ति और सपना गोयल की अगुवाई में यह आयोजन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए किया गया। आयोजन में यूपी के विभिन्न

जिलों व राज्यों की महिलाओं ने शिरकत की। इस अवसर पर गायक पंकज मिश्रा के भजन राम आएंगे से आयोजन की शुरुआत हुई। विद्योतमा शक्तिपीठ की रजनी शुक्ला के निर्देशन में गणेश वसंत जय मंगलमूर्ति की प्रस्तुति ने सभी को आनंदित कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार अशोक मिश्र, जीपी त्रिपाठी,जेपी शुक्ल को श्रीराम का चित्र व अंगवस्त्रम एवं प्रसादी देकर सम्मानित किया गया।

ओडीओपी उत्पादों के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करे : राकेश सचान

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम खादी एवं ग्रामोद्योग तथा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर ले जाने हेतु विभागीय स्तर पर की जा रही कार्यवाही एवं कार्यों के संबंध में सोमवार को निर्यात भवन में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए विभागीय उत्पादों के निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाय। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विभाग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में विशेष भूमिका अदा करता है तथा पूंजी निवेश उत्पादन एवं रोजगार में सार्थक योगदान देता है। श्री सचान ने बैठक में निर्देश दिया कि ओडीओपी उत्पादों के विपणन एवं ब्रांड प्रमोशन एवं ई.मार्केटिंग को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से ओडीओपी मार्ट ई.कामर्स पोर्टल को अधिक वाईब्रेंट एवं डाइनेमिक बनाने हेतु विभिन्न ई.कॉमर्स कम्पनियों द्वारा आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग करने हेतु जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियों द्वारा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाय।

प्राथमिकता के आधार पर हो निराश्रित गोवंश का संरक्षण

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की धीमी गति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए नस्ल सुधार योजनाओं में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में देशी नस्ल सुधार दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने और किसानों एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के लक्ष्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता न बरती जाए और कृत्रिम गर्भाधान के लक्ष्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। पशुधन मंत्री ने निराश्रित गोवंश नस्ल सुधार ईयर टैगिंग एवं आगामी वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं निर्माण कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक करते हुए आवश्यक दिशा.निर्देश दिये। श्री सिंह ने कहा कि निराश्रित गोवंश संरक्षण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर निरन्तर किया जाए और गो आश्रय स्थलों पर चारा भूसा पेयजल एवं औषधियों आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 1506482 गोवंश का संरक्षण किया गया है। वर्तमान में 6492 अस्थाई गोआश्रय स्थल 297 वृहद गोसंरक्षण केन्द्रए 273 कान्हा गोआश्रय स्थल तथा 307 काजी हाउस हैं। श्री सिंह ने निर्देश दिये कि ईयर टैगिंग के कार्य को भी सुनियोजित रूप से संचालित किया जाए और संक्रामक रोगों एवं पशुओं के उपचार के दृष्टिगत दवाईयों एवं वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आगामी लक्ष्यों को 03 माहए 06 माह एवं 09 माह की समयावधि के तहत कार्ययोजना बनाकर पूरा किया जाए। निर्माणाधीन गोआश्रय स्थलोंए पशु चिकित्सालयों एवं अन्य निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित अवधि के अंदर पूर्ण कराया जाए और समयबद्ध रूप से फाइलों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

जन समस्याओं का त्वरित गति से किया जाए निदान : डिप्टी सीएम

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कैम्प कार्यालय पर विभिन्न जनपदों से आये लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण का आश्वासन दिया। उन्होने जनसुनवाई के दौरान एक-एक व्यक्ति की समस्या को पूरी गम्भीरता से सुना तथा समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि समस्याओं का निराकरण इस प्रकार किया जाय कि समस्याग्रस्त व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट रहें और उन्हें दुबारा कहीं भटकना न पड़े और बार.बार चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने महिलाओं दिव्यांगों बुजुर्गों की समस्याओं व शिकायतों को सुना और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित गति से निदान करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनता दर्शन में भूमि विवाद दुर्घटनाओं से संबंधित अवैध कब्जे शिक्षा स्वास्थ्य आवास आवंटन स्कूल निर्माण भूमि पट्टा कब्जा दिलाने अतिक्रमण हटाने सडक़ बनवाने विजली अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराने आदि से संबंधित विभिन्न समस्याएं प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों ने रखी। उप मुख्यमंत्री फरियादियों के पास खुद चलकर गये और एक एक व्यक्ति की समस्या को उनसे सीधे रू.ब.रू होकर सुनाए।

गोदाम से लाखों के पेंट के डिब्बे चोरी, मुकदमा दर्ज

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। आशियाना क्षेत्र के सेक्टर जे स्थित पेंट गोदाम से कर्मचारी ने मकानमालिक के बेटे के साथ मिलकर लाखो रूपये के पेंट के डिब्बे चोरी कर मार्केट में बेच दिया। स्टॉक मिलान करने पर चोरी का पता चला। पीड़ित ने स्थानीय थाने पर लिखित शिकायत की है, पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाई में जुटी है। आशियाना थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया कि देवेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र शिव शंकर तिवारी का सेक्टर एल में एशियन पेंट की दुकान है और दूकान से कुछ दूरी पर ही अम्बिका बिहार में किराये का गोदाम ले रखे है जहाँ पेंट का माल स्टॉक करते है। दुकान मालिक के मुताबिक उनके दुकान पर काम करने वाला शिवम तिवारी मकानमालिक के बेटे मयंक वर्मा मिली भगत कर लम्बे समय से रात्रि समय पेंट का डिब्बा चोरी कर ठेकेदारों और दुकानदारों में बिक्री कर देते थे अबतक लाखो रूपये का माल चोरी कर मार्केट में बेच चुके है जिस कृत्य में उनके साथी अक्षय, अमन व रोहन भी शामिल है। इस बात की जानकारी उन्हें तब हुई जब वह अपनी गोदाम से अपने माल का स्टॉक मिलान करने पहुंचे। गोदाम से माल कम पाए जाने पर जब गोदाम में लगे सीसी टीवी कैमरे की फुटेज देखा तो गोदाम से चोरी की जानकारी हुई। जिस पर दुकानमालिक ने आशियाना थाने पर पहुंचकर नामजद लिखित शिकायत की।

डमिनोज पिज्जा मैनेजर अनियंत्रित कार से घायल

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। आलमबाग कोतवाली इलाके स्थित ईको गार्डन रोड पर अनियंत्रित कार चालक ने स्कूटी सवार डमिनोज पिज्जा मैनेजर को टक्कर मार चोटिल कर फरार हो गया। आलमबाग कोतवाली क्षेत्र स्थित पवनपुरी गली नंबर 2 निवासिनी प्रगति गुप्ता पत्नी राजीव गुप्ता के अनुसार वह डमिनोज पिज्जा में सीनियर असिस्टेन्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। वह बीते 29 फरवरी की सुबह करीब 9 बजे अपनी स्कूटी से ईको गार्डन रोड मेन हाइवे वीआईपी रोड पर जा रही थी। आरोप है कि उस दौरान तेज रफ्तार कार संख्या यूपी 32 एफ एफ 9626 के चालक ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार चोटिल कर फरार हो गया।

देश में 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर निर्भर : अखिलेश

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। भाजपा ने लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा किया है। देश में 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर निर्भर है। 90 फीसदी पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है। यह तंज करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि किसान की आय दोगुनी करने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। बढ़ती बेरोजगारी के कारण परेशान युवा आत्महत्या करने पर विवश है। भाजपा की दस साल की सरकार में कर्ज और गरीबी के कारण एक लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है। सपा प्रदेश मुख्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस समन्वय समिति की

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय, अत्याचार चरम पर है। किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार रही तो बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान खत्म कर देगी। लोगों का हक और सम्मान छीन लिया जाएगा। इलेक्टोरल बॉण्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए अखिलेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इलेक्टोरल बॉण्ड की सूची सामने आ जाएगी। जिससे पता चल जाएगा कि इलेक्टोरल बॉण्ड किसने दिये हैं और किसे दिये हैं। भाजपा सरकार ने उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रू का कर्ज माफ कर दिया। उसके बाद उन्हीं उद्योगपतियों को फिर से कर्ज दे दिया लेकिन सरकार ने किसानों को उनकी फसलों पर एमएसपी का कानूनी अधिकार नहीं दिया। भाजपा सरकार किसान विरोधी है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों का हक छीन रही है। भाजपा केवल वोट लेती है, लेकिन पीडीए को उनका अधिकार नहीं देती है। यूपी में विश्वविद्यालयों में जो चांसलर नियुक्त किए गये है, उसमें से कितने पीडीए हैं।

वाइस चांसलरों ने जो भर्तियां की है, उसमें कितने पीडीए है। जिलों के अधिकारियों की पोस्टिंग में कितने पीडीए है। भाजपा ने लाखों प्रतियोगी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। दिखावा करने के लिए भर्ती निकाली थी। भाजपा की नीयत युवाओं को नौकरी रोजगार देने की नहीं थी। सरकार ने जान-बूझकर पेपर लीक कराया, जिससे नौकरी न देनी पड़े। अखिलेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव में यही नौजवान भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। भाजपा सरकार ने विकास का कोई काम नहीं किया है।

भाजपा के लोग जिन योजनाओं का उद्घाटन कर रहे है वह सब समाजवादी सरकार के काम है। भाजपा का सबका साथ-सबका विकास का नारा झूठा है। यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। इंडिया गठबंधन एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से हटाएगा। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेगा। किसानों, नौजवानों, गरीबों की उम्मीद पूरी करेगा।

आवश्यकता है
जिला/तहसील संवाददाताओं की बरेली, पीलीभीत तथा हरदोई में स्पष्ट आवाज लखनऊ संस्करण हेतु।
सम्पर्क करें। आनन्द सिंह
मो. : 9580770859, 9415003504

'होली' पर भरी झोली, पार्षद कोटा 'डबल'

नए वित्तीय वर्ष से हर वार्ड में होंगे 50-50 लाख रुपए के विकास कार्य

● हॉट मिक्स प्लांट टेंडर्स पर टकराए पार्षद, गैरहाजिर अफसर लपेटे में

कानपुर (स्पष्ट आवाज)। फागुन के महीने में शहर के 110 पार्षदों को होली का तोहफा मिल गया। सोमवार को हुई नगर निगम सदन की बैठक में नए वित्तीय वर्ष से हर पार्षद कोटा 25 लाख रुपए से बढ़ा कर 50 लाख रुपए करने का प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में संशोधन के बाद नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद डबल पार्षद कोटा का रास्ता साफ हो जाएगा। हाउस टैक्स के बिलों में गड़बड़ी की शिकायतें हों या स्ट्रीट लाइट का मुद्दा। पार्षदों की अनदेखी नहीं होगी। इस तरह पार्षदों के हित में सदन ने तमाम अहम फैसले लिए। हालांकि, सदन की बैठक में हंगामा भी हुआ। महिला पार्षद शालू कनौजिया झाड़ू लेकर सदन के भीतर पहुंच गईं। उन्हें महापौर के गुस्से का शिकार होना पड़ा। अगले छह महीने के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया। नगर निगम सदन में आंकड़ों की कलाबाजियों में बजट पास होते रहे गया, इस सबके बीच नए वित्तीय वर्ष में पहली बार पार्षदों को 50-50 लाख रूपए की निधि भी आवंटित होगी, जिसका पूरा प्रोफार्मा तैयार कर फिर से बजट को कार्यकारिणी और सदन में रखा जाएगा। पहली बार 50 लाख रूपए की निधि मिलने को लेकर पार्षदों में भी उत्साहित नजर आए। दरअसल बजट पर चर्चा के दौरान पार्षद निधि का मुद्दा सदन में जोरदारी के साथ रखा गया, जिसके बाद नगर आयुक्त शिवशरणप्पा जीएन ने पार्षद निधि का प्रावधान करते हुए फिर से बजट को लाने की बात कही। इन सबके बीच हॉट मिक्स प्लांट के टेंडरों को लेकर सदन के अंदर बीजेपी पार्षद आपस में ही भिड़ गए।

दरअसल, बीजेपी पार्षद सौरभ देव ने हॉट मिक्स प्लांट की जांच चलने की बात करते हुए बताया कि अभी तक इसकी रिपोर्ट नहीं आयी है और फिर से टेंडर जारी हो गए। इस पर महाना गुट के पार्षद कैलाश पांडेय बिफर गए और आचार संहिता लगने की बात करते हुए प्लांट के काम कराने को कहा। उनका कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष कई सड़कों का शिलान्यास भी कर चुके हैं, इसको लेकर आपस में नारेबाजी भी हुई। इसके बाद तय हुआ कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक प्लांट का कोई काम नहीं होगा, जांच में अगर कोई ठेकेदार दोषी मिलता है तो उसे जो टेंडर जारी हुआ है उसे कैंसिल कर रीटेंडर कराया जाएगा। इन सबके बीच सदन में अनुपस्थित रहने पर महापौर प्रमिला पांडेय ने चीफ इंजीनियर मनीष सिंह, अपर नगर आयुक्त संतोष यादव और अधिशाषी अभियंता आरके तिवारी से जवाब तलब कर एक्शन लेने के निर्देश नगर आयुक्त को दिये। सदन में पार्षदों ने आरोप लगाया कि बिना महापौर को जानकारी देते हुए लाईटिंग के कामों के टेंडर मांग लिए गए, इस पर महापौर ने नाराजगी जताते हुए टेंडर निरस्त करने के निर्देश दिए। सदन में 15वें वित्त आयोग के कामों पर सवाल उठाते हुए भाजपा पार्षद विकास जायसवाल समेत अन्य पार्षदों ने कहा कि उनके वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है, ऐसे में 15वें वित्त आयोग के तहत हुए कार्यों की सूची जारी की जाए, वहीं हाउस टैक्स की गड़बड़ियों को लेकर जोन में कैंप लगाने की भी बात कही गई। सदन में इस बार सपा से निष्कासित किए गए पार्षद अभिषेक गुप्ता मोनू को लेकर भी हलचल देखी गई, सदन में पहुंचते ही पार्षद अभिषेक गुप्ता ने महापौर से अलग कुर्सी की मांग की लेकिन महापौर ने विवाद को उनकी पार्टी का बताते हुए पल्ला झाड़ लिया, इसके बाद पार्षद अभिषेक गुप्ता कुर्सी मंगवाकर भाजपा की लाइन में बैठ गए। वहीं, सदन में चीफ इंजीनियर के न आने को लेकर भी महापौर ने नाराजगी जताई। स्ट्रीट लाइट को लेकर महापौर ने नगर आयुक्त से भी सवाल जवाब किया। वहीं विधायकों और सांसद के लोगों द्वारा नगर निगम आकर विकास कार्यों की फाइल बनवाने को लेकर भी महापौर ने नाराजगी जाहिर की।

नगर निगम सदन की कार्यवाही के दौरान उस समय हंगामा मच गया, जब कांग्रेस की महिला पार्षद शालू कनौजिया झाड़ू लेकर सदन में पहुंच गईं। सदन शुरू होने से पहले झाड़ू लेकर पहुंची पार्षद को लेकर यहां पर गेट पर तैनात कर्मचारी भी असहज स्थिति में दिखाई दिये। कांग्रेस पार्षद शालू कनौजिया का कहना था कि उनके वार्ड में न तो विकास कार्य हो रहे हैं और न ही सफाई का काम सही से हो रहा है। इसको लेकर कुछ पार्षदों ने उन्हें समझाया लेकिन शालू कनौजिया झाड़ू लेकर सदन में बैठी रहीं, थोड़ी देर बाद जब महापौर प्रमिला पांडेय सदन के अंदर पहुंची तो झाड़ू देखकर वह नाराज हो गईं। वहीं, भाजपा पार्षदों ने भी उनकी इस हरकत का विरोध किया। इसके बाद दो महिला पुलिसकर्मी सदन में पहुंचीं और शालू कनौजिया से आग्रह किया कि वह झाड़ू लेकर सदन से बाहर जाएं। इसके बाद भी जब महिला पार्षद नहीं मानी तो महापौर प्रमिला पांडेय एकशन में आयीं और शालू कनौजिया की झाड़ू पुलिस बुलवाकर छिनवा ली और उन्हें छह महीने के लिए सदन से निष्कासित कर दिया। इससे पहले सदन में बाहरी लोगों को बैठा हुआ देखकर महापौर का पारा हाई हो गया। इस दौरान दो बाहरी लोगों को पकड़वाकर सदन से बाहर कराया गया। महापौर ने कहा कि अगली बार कोई बाहरी व्यक्ति सदन में दिखाई दिया तो मुकदमा दर्ज कराएंगी।

नहीं चली 'हेकड़ी', गरजा बुलडोजर, प्लॉटिंग नेस्तनाबूद

मकसूदाबाद, बैरी अकबरपुर कछार में केडीए की ध्वस्तीकरण कार्रवाई

कानपुर (स्पष्ट आवाज)। कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह के निर्देश के क्रम में कानपुर विकास प्राधिकरण जोन-02 के अन्तर्गत मकसूदाबाद में (नसनियाँ मोड के पास) विशेष कार्याधिकारी सत् शुक्ला के नेतृत्व में दो बड़ी अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। पहली अवैध प्लाटिंग बीएपीएल/वीएसईएल, के नाम से आ0सं0-784, 785, 783, 782, 775, 776, 777, 774, 804, 805, 806, 803, 788, 801, 898, 899, 814, 816, 833 एवं 834 मकसूदाबाद, (खेल कूद मैदान के पीछे) कानपुर में क्षेत्रफल लगभग 8.00 हेक्टेयर में एवं दूसरी अवैध प्लाटिंग बीएपीएल/वीएसईएल, के नाम से आ0सं0-845, 843, 844, 839, 838 एवं 837 (होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर के बगल में) मकसूदाबाद, कानपुर में क्षेत्रफल लगभग 2.00 हेक्टयेर में ध्वस्त करायी गयी।

उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित ध्वस्तीकरण आदेश के क्रम में ग्राम-बैरी अकबरपुर कछार की आराजियों के विरुद्ध अवैध निर्माण/अतिक्रमण के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। उक्त कार्यवाही के दौरान विशेष कार्याधिकारी प्रवर्तन (जोन-1)/उप जिलाधिकारी डा0 रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में शैलेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता, सीबी पाण्डेय अवर अभियन्ता, प्रवर्तन स्टाफ एवं क्षेत्रीय पुलिस बल उपस्थित रहा।

कार्यवाही के दौरान विशेष कार्याधिकारी सत् शुक्ला, क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता। जेएन पाण्डेय, अवर अभियन्ता पीके वर्मा तथा अरविन्द उपाध्याय, केडीए प्रवर्तन दल, थाना बिठूर तथा अन्य थानों का पुलिस बल उपस्थित रहा। कार्यवाही में चार जेसीबी मशीनें रही।

पेंशन की गारंटी संकल्प पत्र में शामिल कराएं मोदीः पं रवीन्द्र शर्मा

कानपुर (स्पष्ट आवाज)। अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति के नेतृत्व में अधिवक्तागण पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। संयोजक पंडित रवीन्द्र शर्मा पूर्व अध्यक्ष लायर्स एसोसिएशन ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष से अधिक होने के बाद भी अभी तक राष्ट्रीय स्तर अधिवक्ताओं की कोई सामाजिक सुरक्षा योजना नही है। पीएम लोकसभा चुनाव से पूर्व अधिवक्ता हितार्थ अपने संकल्प पत्र में गारंटी दें। अधिवक्ता पेंशन योजना जिसके अंतर्गत कम से कम रुपया 15000 प्रतिमाह देय हो लागू की जाय। अधिवक्ता कल्याण निधि योजना जिसके अंतर्गत 30 वर्ष की सदस्यता पर परिपक्वता राशि रुपया 1000000 देय हो लागू की जाय। अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा कवर योजना रुपया 500000 लागू की जाए। या अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाये।

4= युवा अधिवक्ता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवागंतुक युवा अधिवक्ताओं को प्रथम 5 वर्ष तक रुपया 10000 प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि दी जाय। अधिवक्ताओं को निवास हेतु नो प्रॉफिट नो लॉस पर आवासीय प्लाट दिए जाय। अधिवक्ताओं की सुरक्षा और जीवन रक्षा हेतु अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम शीघ्र लागू किया जाय। हम अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा / जीवन रक्षा हेतु हमारे सुझावों को अपनी पार्टी के संकल्प पत्र में शामिल कर गारंटी देते हुए हम अधिवक्ताओं को अनुग्रहित करें। सुझावपत्र प्राप्त कर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने कहा कि पत्र आवश्यक कार्यवाही के लिये आगे भेज देंगे। प्रमुख रूप से भानू प्रताप द्विवेदी, हर्ष वर्मा, उपाध्यक्ष लायर्स एसोसिएशन, संजीव कपूर, नूर आलम, अतुल सिंह, विनोद गुप्ता पंकज दीक्षित अनिल बाबू चौधरी जितेंद्र शुक्ला शुजा अब्बास राम नवल कुशवाहा रहे।

आशियाना चाहिए तो बोली लगाइए!

● 752 केडीए भूखंडों की ई-नीलामी शुरू

कानपुर (स्पष्ट आवाज)। केडीए होली से पहले शहरवासियों को 752 प्लॉट का गिफ्ट देने जा रहा है। 163 आवासीय व 599 व्यावसायिक प्लॉट शामिल हैं। सोमवार से इन प्लाट्स का ई-ऑक्शन शुरू होगा, जो कि 9 अप्रैल तक चलेगा। ई-ऑक्शन में भाग लेने के लिए पहले प्लॉट की कीमत की 10 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी। जवाहरपुरम, शताब्दी नगर, सुजातगंज, स्वर्ण जयंती विहार, सकरापुर और हाईवे सिटी विस्तार में आवासीय और ग्रुप हासिंग के प्लॉट निकाले है। वहीं स्वर्ण जयंती विहार, जरौली, कैटल कालोनी, किदवईनगर, महावीर नगर विस्तार, शताब्दी नगर योजना, मंदाकिनी इन्क्लेब, कालिंद्री नगर, जवाहरपुरम, न्यू ट्रांसपोर्ट नगर, महावीर नगर व भागीरथी जाह्ववीं में 599 व्यावसायिक प्लॉट निकाले हैं। जो कि नर्सिंग होम, स्कूल, पेट्रोल पंप, हेल्थ सेंटर, शॉप्स के लिए है। कीमत 12,600 से लेकर 84,200 रु. प्रति स्क्वॉयर मीटर तक है।

कानपुर। अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2023-24 पुलिस कमिश्नरेट नागपुर शहर, महाराष्ट्र में आयोजित हुई जिसमें कमिश्नरेट कानपुर नगर में तैनात अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) मनीष चन्द्र सोनकर को टेबल टेनिस प्रतियोगिता की 03 कैटेगरी टीम्स, डबल्स, 40 प्लस डबल्स में सिल्वर व 01 कैटेगरी सिंगल्स में ब्रांज मेडल प्राप्त हुआ।

फांसी पर लटका युवक

कानपुर। कर्नलगंज थानाक्षेत्र के साईकिल मार्केट में एक दुकान के बाहर टीन शेड के एंगल में फांसी के फंदे पर युवक का लटकता हुआ शव मिला। राहगीरों की सूचना पर कर्नलगंज पुलिस भी मौके पर पहुंची और फांसी लगाने वाले शख्स के बारे में जानकारी जुटाई। इस मामले में कर्नलगंज पुलिस का कहना है कि मृतक की शिनाख्त नहीं हो पायी।

कांग्रेस में शामिल हुए मनोज गुप्ता

कानपुर (स्पष्ट आवाज)। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यादव के नेतृत्व में भाजपा नेता मनोज गुप्ता ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और कहा कि राहुल गांधी की नीतियों से प्रभावित होकर वह कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। विकास यादव ने उन्हें उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस नीति और अनुसंधान विभाग के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी।

लोकसभा चुनाव सांसद नहीं बल्कि जनता लड़ेगी : कौशल किशोर

● पार्टी पदाधिकारी व प्रधान सहित क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ मंत्री ने की बैठक

कमलापुर-सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। सिधौली के पदमा लान में मोहनलालगंज सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक अयोजित की। बैठक के दौरान सभी को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार में बिना भेदभाव के हर समाज के लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा डबल इंजन सरकार की ओर से चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाएं जमीन पर उतरी है। जिससे हर वर्ग के लोग खुश है। लोकसभा चुनाव सांसद नहीं बल्कि जनता खुद लड़ेगी। सांसद एवं मंत्री कौशल किशोर ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी से सभी लोग मेहनत करने का काम करें। उन्होंने लोगों के प्रति आभार जताते हुए सभी से आगामी 17 मार्च को मोदी सरकार की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने की अपील की है। विधानसभा संयोजक ललित मिश्रा के नेतृत्व में सुमित यादव, सफीक आलम, सुभाष शुक्ला, मनोज कुमार, राजन पाल, अवध राम यादव, विकास यादव, ज्ञानेंद्र यादव, अंशु रावत, जयवीर, विक्रम यादव, राम लोटन कनौजिया, रामचंद्र, पप्पू पाल, कन्हैयालाल गौतम, कमलेश गौतम, बबलू गौतम व अंकित ने भाजपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। सभी को कौशल किशोर ने मोदी के परिवार में शामिल होने की बधाई दी। मंडल अध्यक्ष राकेश पांडेय तथा लक्ष्मी शंकर गिरी, सूर्यबक्श सिंह, कौशलेंद्र भारती, प्रभात किशोर जैकी ने जानकारी देते हुए बताया कि हाइवे स्थित मानपुर समीप टोल टैक्स से सुबह सात बजे के करीब जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। यह यात्रा अटरिया नीलगांव मोड़ होते हुए कुअरगड्डी से बेहमा चौकी दुघरा चौराहा होते हुये रामपुर कला पहुंचेगी। फिर सरवा जलालपुर, न्योराजपुर, जगदीशपुर, कभरिया पुल, मास्टरबाग, कसमंडा से निकलते वक्त स्वागत किया जाएगा। कमलापुर, हमीरपुर, नयागांव मोड़ से बंभेरा, मोहनपुर, चितरेहटा, जयरामपुर, बबुरी मोड़, बंभौरा, सुजौलिया, छेदनी कुआं चौराहा, कुचलाई, गोपालपुर भट्ठा, धरौली, असुआमऊ मोड़, तौकलपुर पारा, इस्माइल गंज कुर्सी, मनवा चौकी के बाद सिधौली पहुंचकर पदमालान में जनसभा के बाद यात्रा का समापन किया जाएगा।

प्रधानों की अनुपस्थिति बनी चर्चा का विषय

कमलापुर-सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर सिधौली में रविवार को आयोजित की गई बैठक में इलाके के भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य तो शामिल हुये। लेकिन बड़े पैमाने पर ग्राम प्रधानों की यहां अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रधानों की ओर से बैठक को लेकर बनाई गई इस दूरी के पीछे अहम कारण हो सकते है। इस पर जानकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे है। कुछ इसे कसमंडा ब्लॉक की महत्वपूर्ण कुर्सी से जोड़कर देख रहे है। तो कोई कह रहा है सिधौली विधानसभा में लोकसभा चुनाव मतदान के दरमियान इसका असर खुद ब खुद दिखाई देगा। हंलाकि इन चर्चाओं की स्पष्ट आवाज पुष्टि नहीं कर रहा है।

कसमंडा में हुई ब्लॉक स्तरीय विज्ञान क्विज प्रतियोगिता

● अव्वल विद्यार्थियों का एबीएसए ने बढ़ाया हौसला

कमलापुर-सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। विकास क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय दाउदपुर में सोमवार को ब्लॉक स्तरीय विज्ञान क्विज प्रतियोगिता हुई। जिसकी अध्यक्षता बीईओ सुरेंद्रनाथ प्रजापति ने की। तीन चरणों में संपन्न हुई इस प्रतियोगिता में विद्यालय स्तर पर दर्जनों छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में अंतिम रूप से चयनित सुभी शर्मा, प्रकाशनी मौर्या, साहिल, शिवानी गौतम, शिवांकी, लवकुश यादव, अर्पित कुमार, करन, माही, विश्वजीत सिंह का खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र नाथ प्रजापति ने स्मृति चिन्ह, मेडल, स्टेशनरी किट तथा निर्धारित नगद धनराशि देकर हौसला बढ़ाया और विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। बीईओ ने छात्रों को एक्सपोजर विजिट के संबंध में अवगत कराते हुये विचार विमर्श कर स्थान व तिथि की घोषणा करने को कहा। मौके पर एआरपी मनोज कनौजिया, नीलम वर्मा, हिमांशु शुक्ला, डॉक्टर दिनेश सिंह, प्रभात कुमार दीक्षित, मदनेस मिश्रा, गिरिजेश कुमार अवस्थी, हबीबुर्रहमान, अजीत सिंह, ज्ञानेश बाजपेयी, विनय मेहरोत्रा, रोहित शुक्ला, संदीप मिश्रा, मनोज सिंह, यासमीन वेगम, राघवेंद्र सिंह, प्रमोद कुमार, रविन्द्र मिश्रा, संकल्प त्रिपाठी, कंचन त्रिपाठी, कविता, जयंत, सीमा मिश्रा आदि उपस्थित रहे।

अधिकारों के प्रति जागरूक रहे महिलाएं : जूही सिंह

सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। बेसिक शिक्षा विभाग और सामाजिक संस्था एहसास के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को कंपोजिट विद्यालय अंबेडकर नगर में महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर जूही सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में अंजना सिंह जिला महिला कल्याण अधिकारी, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह, खंड शिक्षाधिकारी सुरेंद्र प्रताप सिंह, रमाकांत मौर्या, शैलेश सिंह, रविंद्र कुमार दीक्षित, नवीन श्रीवास्तव, रामचंद्र मिश्र, मनीष पांडेय, डॉ. सहगल आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर एहसास पत्रिका का विमोचन भी हुआ। सुनीता यादव ने विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य कर रही शिक्षिकाओं से सभी का परिचय कराया। मुख्य अतिथि जूही सिंह ने कहा कि सभी महिलाओं को अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक होना चाहिए। महिलाओं को भ्रूण हत्या जैसे कृत्यों का जमकर विरोध करना चाहिए। इस अवसर पर सुमन सिंह, पूजा सक्सेना, संगीता यादव, नीलम कुमारी, रूबीना बानो, अर्चना मौर्य, रचना रस्तोगी, मंजू लोचन, अमिता गौतम, नीता सिंह, अस्मिता यादव, निर्मला भार्गव, लक्ष्मी वर्मा, रत्नेश कुमार मिश्र, सीवेन्द्र कुमार, लक्ष्मी चौरसिया आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ राजकिशोर सिंह ने की।

योग अपना कर घर परिवार को बनाये स्वस्थ : डॉ. अंशु गुप्ता

सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। महिला पतंजलि योग समिति ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। अध्यक्षता जिला प्रभारी डॉक्टर अंशु गुप्ता ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेविका पूनम मिश्रा, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कंचन प्रभा पांडेय, स्काउट गाइड कैप्टन शालिनी शुक्ला, जया सिंह, विभा मिश्रा सहित अतिथियों ने नारी शक्ति जागरण पर विशेष रूप से व्याख्यान दियां। डॉ अंशु गुप्ता ने जीवन में योग के विशेष महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि जब परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा। कार्यक्रम में महिला पतंजलि योग की समिति की सभी बहनों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। जिसमें सोशल मीडिया प्रभारी लक्ष्मी शुक्ला, संरक्षिका आरती मिश्रा, संगठन मंत्री पंकज, योग शिक्षिका प्रिया गुप्ता, अर्चना, नीलम सिंह, पुष्पा सिंह, ममता शुक्ला, नीलमणि गुप्ता, अर्चना आदि मौजूद रही।

नोडल शिक्षकों का हुआ तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण

लहरपुर-सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत ड्राप आउट तथा आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने और उनको पढ़ाने के लिए नोडल शिक्षकों का तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केंद्र में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए खण्डशिक्षा अधिकारी रमाकांत मौर्य ने कहा कि प्रशिक्षण कोई भी हो हमेशा महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है। सभी प्रतिभागियों को इसमें पूरी निष्ठा और लगन से भाग लेना चाहिए इससे शिक्षकों के कौशल में वृद्धि होगी और बच्चों को सीखने में भी आसानी होगी। इस अवसर पर संकुल शिक्षक अनवर अली ने अभियान गीत एवं शैक्षिक गतिविधियों का अभ्यास कराया। संदर्भदाता ऋषिकेश बाजपेयी, संदीप कुमार वर्मा, तरून कुमार, कृष्ण पाल सिंह तथा देवेंद्र कुमार राठौर ने ड्राप आउट बच्चों का चिन्हीकरण, नामांकन और शिक्षण विधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में संदीप कुमार, रामचन्द्र वर्मा, अनीशा उमराव, रेखा देवी, आदित्य कुमार राठौर, बुनियाद हुसैन अंसारी, मोहम्मद शकील खां आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

टंकी निर्माण में हो रहा पीला ईंट का प्रयोग

सकरन-सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाई जा रही पानी की टंकी में पीला ईंट व मानक विहीन सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। विकास खण्ड सकरन के अंतर्गत ग्राम पंचायत नकैला में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने हेतु पानी की टंकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। भ्रष्टाचारियों की मिलीभगत के चलते पीला ईंट व मानक विहीन सामग्री के प्रयोग से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने तत्काल निर्माण कार्य रुकवाए जाने व अनियमितता बरतने वालों पर कार्रवाई किये जाने की मांग की है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन

सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। रेडिको खेतान लिमिटेड ने 53वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया। इस अवसर पर विभिन्न सुरक्षा सम्बंधित कार्यकर्मों का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर इकाई प्रमुख हरिशंकर शुक्ला ने सुरक्षा के महत्व को समझाया। उन्होंने कंपनी में सुरक्षा के प्रति दायित्व, संरक्षण एवं सकारात्मक प्रयासों को अपनाने का सुझाव दिया। इस अवसर पर हेड मानव संशोधन अश्वनी कुमार सिंह एवं मैनेजर सेफ्टी विवेक कुमार वर्मा ने कंपनी में सुरक्षा के नियमों का पालन करने की सलाह दी।

शिविर लगाकर नेत्र रोगियों का किया परीक्षण

सिधौली-सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। तहसील क्षेत्र के पुत्ती लाल मार्केट गोपालपुर भठ्ठा चौराहा पर सुखदेव सिद्धार्थ ने सीतापुर आँख अस्पताल के नेत्र विशेषज्ञों के सहयोग से एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया। जिसमें नेत्र रोगियों का परीक्षण किया गया। शिविर में 105 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया।

नमस्ते योजना के तहत लाभांवित होंगे वंचित वर्गों के लोग

सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 13 मार्च को प्रस्तावित कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर बैठक हुयी। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि आवश्यक तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जायें। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 13 मार्च को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में समाज के वंचित वर्गों को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा नमस्ते योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पीएम सूरज पोर्टल भी लांच किया जायेगा। प्रधानमंत्री द्वारा लाभार्थियों से संवाद करने के उपरान्त संबोधित किया जायेगा, जिसका सजीव प्रसारण भी किया जायेगा। जनपद स्तर पर उक्त कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में प्रस्तावित है। बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरपाल सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रवि शंकर गिरि, जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार, लीड बैंक मैनेजर अनल कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

नीलामी सामग्री कम देख भड़के कबाड़ी, नीलामी स्थगित

भरुआ सुमेरपुर (स्पष्ट आवाज)। सोमवार को नगर पंचायत के निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी का सामान कम होने के कारण कबाड़ियों ने विरोध जताया और मौके पर मौजूद सामग्री की बोली लगाने की मांग करते रहे। लेकिन अधिशासी अधिकारी ने सामान कम होने पर नीलामी को स्थगित कर दिया। जिससे कबाड़ी निराश होकर बैरंग लौट गए। विज्ञप्ति सूचना के तीन दिन बाद सामग्री कैसे कम हो गई यह जांच का विषय है। सोमवार को नगर पंचायत कार्यालय में 30 प्रकार की निष्प्रयोज्य सामान की नीलामी होनी थी। बोली लगाने के लिए 29 लोगों ने दस-दस हजार की जमानत धनराशि जमा की। बोली शुरू होने के पूर्व कबाड़ियों ने विज्ञप्ति के अनुसार मौके पर सामग्री का मिलान किया तो हाथ कूड़ा गाड़ी 81 सापेक्ष सिर्फ छह मौजूद मिली। इसी तरह अन्य सामग्री भी टेंडर सूचना से कम थी। इस पर कबाड़ियों ने विरोध जताते हुए कहा कि मौके पर मौजूद सामग्री की ही नीलामी कराई जाए। लेकिन करीब दो बजे आए अधिशाषी अधिकारी कुलकमल सिंह को पंचायत कर्मियों ने बताया कि मौके पर सामग्री काफी कम है। जबकि टेंडर सूचना में ज्यादा दर्शायी गई है। इस पर उन्होंने नीलामी स्थगित कर दी। जिससे नीलामी में प्रतिभाग करने आए कबाड़ियों को निराशा हाथ लगी।

महसी इंडियंस ने ट्राफी पर किया कब्जा

लहरपुर-सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत ढखेरा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। टूर्नामेंट में 18 टीमों ने प्रतिभाग किया। सोमवार को इस क्रिकेट महासंग्राम में फाइनल मुकाबला ढखेरा टाइटंस और महसी इंडियंस के बीच खेला गया। जिसमें महसी इंडियंस ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित छह ओवर में 64 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए ढखेरा टाइटंस ने 6 ओवर में मात्र 58 रन ही बना सकी। महसी इंडियंस ने 6 रनों से जीत हासिल की। विनर और रनर टीम को क्रीड़ा संस्था के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर इक्विटास के डायरेक्टर सलिल वर्मा, मृदुल, डॉ. शशि प्रभा वर्मा, सलिल कुमार वर्मा, बृजेन्द्र सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। क्रिकेट टूर्नामेंट को क्रीडा संस्था के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें एकोटारस सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इन्फो ट्रस्ट, मैक स्पोर्ट का विशेष योगदान रहा।

कार्यालय ग्राम पंचायत गेरुहा माफी विकास खण्ड बिसवाँ, सीतापुर

पत्रांक : मेमो/15वॉ/पंचम/मनरेगा/राज्य वित्त/नि.सू./2023-24 दिनाँक : 11.03.2024

निविदा आमंत्रण सूचना (अल्पकालीन)

कार्यालय ग्राम पंचायत गेरूहा माफी वि.ख. बिसवाँ के पंजीकृत ठेकेदारों एवं फर्मों व भट्टा मालिको को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों की अल्पकालिक मोहरबन्द निविदाएं समस्त पंजीकृत ठेकेदारों, फर्मों व भट्ठों से दिनाँक 18.03.2024 को अपरान्हन 02:30 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त निविदाएं उसी दिन अपरान्ह 04:30 बजे पंजीकृत ठेकेदारों व फर्मों के समक्ष सक्षम अधिकारी द्वारा खोली जायेंगी। किसी भी टेण्डर को निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में दिनाँक 12.03.2024 से दिनाँक 17.03.2024 तक **कार्यालय ग्राम पंचायत गेरूहा माफी** से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा के साथ दो प्रतिशत की जमानत धनराशि एन.एस.सी./एफ.डी.आर. के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो **कार्यालय ग्राम पंचायत गेरूहा माफी** के नाम बंधक होगा। अन्य शर्तों आदि की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। ठेकेदारों व फर्मों द्वारा निविदा प्रपत्र पर अंकित की गयी धनराशि अंकों एवं शब्दों में लिखना अनिवार्य होगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित लागत	प्राक्कलन के अनुसार सामग्री जिसकी आपूर्ति होनी है	सामग्री लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1.	कंपोजिट विद्यालय में किचन सेट निर्माण कार्य।	9,98,672.00	ईट प्रथम श्रेणी, मौरंग, बालू, सीमेंट, रोड़ा, गिट्टी, लोहे के एंगल, टीन चादर आदि।	6,33,498.13	200.00

जिस निविदादाता का टेण्डर सबसे कम दर का हो, उसे टेण्डर स्वीकृत दर के आधार पर सामग्री की आपूर्ति का आदेश दिया जायेगा।

प्रधान सचिव

कार्यालय ग्राम पंचायत हरिहरपुर जमरखा, विकास खण्ड बिसवाँ, सीतापुर

पत्रांकः मेमो/15वॉ/पंचम/मनरेगा/राज्य वित्त/नि.सू./2023-24 दिनाँक : 11.03.2024

निविदा आमंत्रण सूचना (अल्पकालीन)

कार्यालय ग्राम पंचायत हरिहरपुर जमरखा वि.ख. बिसवाँ के पंजीकृत ठेकेदारों एवं फर्मों व भट्ठा मालिको को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों की अल्पकालिक मोहरबन्द निविदाएं समस्त पंजीकृत ठेकेदारों, फर्मों व भट्ठों से दिनाँक 16.03.2024 को अपरान्हन 02:30 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त निविदाएं उसी दिन अपरान्ह 04:30 बजे पंजीकृत ठेकेदारों व फर्मों के समक्ष सक्षम अधिकारी द्वारा खोली जायेंगी। किसी भी टेण्डर को निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में दिनाँक 12.03.2024 से दिनाँक 16.03.2024 तक **कार्यालय ग्राम पंचायत हरिहरपुर जमरखा** से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा के साथ दो प्रतिशत की जमानत धनराशि एन.एस.सी./एफ.डी.आर. के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो **कार्यालय ग्राम पंचायत हरिहरपुर जमरखा** के नाम बंधक होगा। अन्य शर्तों आदि की जानकारी किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है। ठेकेदारों व फर्मों द्वारा निविदा प्रपत्र पर अंकित की गयी धनराशि अंकों एवं शब्दों में लिखना अनिवार्य होगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित लागत	प्राक्कलन के अनुसार सामग्री जिसकी आपूर्ति होनी है	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1.	जमरखा में आरसीसी से दिलीप के मकान तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	8,50,768.00	40 एम.एम. ईट रोड़ा 39.78 घनमी., सीमेन्ट 174 बोरी, फाइन सेण्ड 20.73 घनमी., 20 एम.एम. पत्थर गिट्टी 2.21 घनमी., 10 एम.एम. पत्थर गिट्टी 0.79 घनमी., 12.50 एम.एम. पत्थर गिट्टी 4.62 घनमी., कोर सेण्ड 9.19 घनमी., सरिया 0.83 कु., ईटा प्रथम श्रेणी 12694 नग, इंटरलॉकिंग ईट 80 एम.एम. 13632 नग, सेण्ड जोन 27.69 घनमी.।	200.00

जिस निविदादाता का टेण्डर सबसे कम दर का हो, उसे टेण्डर स्वीकृत दर के आधार पर आगणित सामग्री की कुल लागत का दो प्रतिशत जमानत धरोहर की धनराशि एन.एस.सी./एफ.डी.आर. जो **ग्राम पंचायत हरिहरपुर जमरखा** के पक्ष में बंधक होगी। जमा करने पर ही सामग्री की आपूर्ति का आदेश दिया जायेगा।

प्रधान सचिव

आरेडिका में मनाया गया विश्व महिला दिवस

रायबरेली। (स्पष्टआवाज) आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली में विश्व महिला दिवस 2024 के उपलक्ष्य में 11 मार्च 2024 को महिलाओं के सशक्तिकरण पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र में किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ आरेडिका महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा भारती मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया।

इस कार्यक्रम में आरेडिका में कार्यरत महिला रेल कर्मचारियों द्वारा सरस्वती वन्दना, महिलाओं के सशक्तिकरण पर वाक्, काव्यपाठ, नृत्य, गायन आदि प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया। आरेडिका के महाप्रबंधक प्रशान्त कुमार मिश्रा ने विश्व महिला दिवस के आयोजन पर सभी रेलवे महिला कर्मचारियों को शुभकामनाएँ दीं एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। यह कार्यक्रम कर्मचारी कल्याण संगठन तथा अन्य विभागों के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर आरेडिका महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा भारती मिश्रा ने सभी विजेता महिला कर्मचारियों को उपहार प्रदान किए। इस अवसर पर आरेडिका महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा तथा महिला कल्याण संगठन की सदस्याएँ विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव, बीना तिवारी, अनुपमा कपूर, सुधा सिंह एवं अन्य महिला अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

राज्य मंत्री जिला वासियों को कराएंगे रामलला के दर्शन

रायबरेली। (स्पष्टआवाज) रायबरेली वासियों के लिए भगवान राम की जन्म भूमि अयोध्या में बने राम मंदिर दर्शन के लिए प्रत्येक रविवार को निःशुल्क बस रवाना हो रही है। उक्त जानकारी देते हुए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने पत्रकारों को बताया कि जिले के सभी 22 मंडलों से एक-एक बस प्रत्येक रविवार को जाएगी, जिसमे प्रभु श्री राम के निःशुल्क दर्शन कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक रायबरेली वासी को अयोध्या दर्शन कराने का संकल्प उन्होंने लिया है और जब तक एक-एक व्यक्ति को अयोध्या दर्शन नहीं करा देंगे, तब तक यह निःशुल्क बस सेवा जारी रहेगी। इस यात्रा के संयोजक विजय कुमार सिंह ने बताया कि सभी लोग अपने मंडल के अध्यक्ष को अपना नाम नोट करवा दें, जिससे कि आवश्यकता अनुसार बस की व्यवस्था की जा सके। सभी की अध्यक्षता कर रहे भाजपा जिला अध्यक्ष बुद्धीलाल पासी एवं अन्य पदाधिकारियों ने इस पुनीत कार्य के लिए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का माल्यार्पण कर सम्मान किया।सुरेंद्र बहादुर सिंह दाढ़ी ने कहा कि 500 वर्षों की प्रतिक्षा के बाद अब प्रभु श्री राम मंदिर दर्शन के लिए किसी को भी कोई असुविधा नहीं होगी। इस अवसर पर पूर्व भाजपा अध्यक्ष आरबी सिंह, अजय त्रिपाठी,वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी विनोद बाजपेई,मुकेश गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह, दिनेश त्रिपाठी, मुकेश श्रीवास्तव, अनुभव कक्कड़, अरविंद श्रीवास्तव, जिला महामंत्री शरद सिंह, पूर्व जिला महामंत्री विशाल पांडे, जितेंद्र सिंह, संजय सिंह, अखिलेश तिवारी, अभिषेक वर्मा, जनमेजय सिंह, मोहित अग्रवाल,परमजीत सिंह गांधी आदि लोग उपस्थित रहे।

85 वर्ष के ऊपर के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा

बलरामपुर। भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को मतदान करने के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा प्राप्त कराई गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बलरामपुर ने जनपद बलरामपुर के समस्त 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को सूचित करते हुए बताया कि स्वेच्छा से पोस्टल बैलेट के माध्यम से निवास स्थान पर मतदान करने हेतु निर्धारित फार्म-12डी में आवेदन कर अपने निवास स्थान पर मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फार्म-12डी अधिसूचना जारी होने के 5 दिवसों के अन्दर सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा।

संक्षिप्त आवाज

ब्रह्मकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मनाया गया महाशिवरात्रि महोत्सव

बहराइच (स्पष्ट आवाज)। शहर के तिकोनीबाग चौराहे पर स्थिति प्रजापिता ब्रम्हाकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, उप जिलाधिकारी ज्योति चौरसिया,व अपर पुलिस अधीक्षक रामानन्द कुशवाहा उपस्थित रहे। संस्था की प्रभारी ब्रह्मकुमारी साधना व ब्रह्मकुमारी जया एवं ब्रह्मकुमारी भावना द्वारा अतिथिगणों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। मुख्य अतिथियों के द्वारा शिव ध्वाजारोहण, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम के दौरान आश्रम के भाई-बहनों ने अलग-अलग गीतों पर नृत्य कर अपनी खुशियों को व्यक्त किया। संस्था की ब्रह्मकुमारी साधना दीदी, ब्रह्मकुमारी जया दीदी एवम् ब्रह्मकुमारी भावना दीदी के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक को राजयोग के विषय में जानकारी प्रदान कर राजयोग का अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम के समापन पर सभी अतिथिगणों को शिव जयंती का प्रसाद व परमात्मा का चित्र भेंट किया गया। कार्यक्रम के अंत में संस्था से जुड़े सैकड़ों भाईयों एवम् बहनों समेत सभी को प्रसाद वितरित किया गया।

विधायक महसी ने देवपुरी धाम के पर्यटन विकास कार्य का किया भूमिपूजन

बहराइच (स्पष्ट आवाज)। विधायक महसी सुरेश्वर सिंह ने जनपद बहराइच के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र महसी के देवपुरी धाम का 91.74 लाख रूपये की लागत से पर्यटन विकास कार्य का पूजा, अर्चना व विधि-विधान के साथ भूमि पूजन किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी, गणमान्य एवं संभ्रान्तजन तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं मौजूद रहे। विधायक श्री सिंह ने कहा कि देवपुरी धाम का पर्यटन विकास होने से क्षेत्र का महत्व बढ़ेगा जिससे धाम को एक नई पहचान मिलेगी और रोजगार के अवसर भी प्राप्त होगें। उल्लेखनीय है कि देवपुरी धाम के पर्यटन विकास कार्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा विगत 4 मार्च 2024 को शिलान्यास किया गया है।

मतदाता जागरूकता रैली को एडीएम ने दिखाई हरी झंडी

रायबरेली (स्पष्ट आवाज)। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत ब्लॉक खीरों कस्बा में मानव श्रंखला बनाकर मतदाता जागरूकता रैली निकाली गयी। मतदाता जागरूकता रैली को एडीएम प्रशासन प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मतदाता जागरूकता रैली की शुरुवात एडीएम द्वारा उपस्थित विद्यालय के बच्चों, शिक्षकों व ग्रामीणों को मतदान शपथ दिलाकर किया गया। जिसके बाद शिक्षिकाओं द्वारा बनायी गयी रंगोली का अवलोकन करके रैली को हरी झंडी दिखायी गयी। रैली खीरों चौराहा से प्रारम्भ होकर अस्पताल तिराहे पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान परिषदीय व मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लगभग दो हजार बच्चों ने कार्यक्रम स्थल से सीएचसी खीरों तक लगभग दो किमी लंबी मानव श्रृंखला बनाकर निर्भय हो मतदान करेंगे, देश का हम सम्मान करेंगे, मतदान हमारा अधिकार है, लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर उंगली पर नीली लकीर, सबको बताओ यह अधिकार, मतदान ही है हमारा हथियार, मेरा वोट मेरा अधिकार आदि नारे लगाते हुए शत प्रतिशत मतदान करने की अपील किया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी लालगंज मनोज कुमार सिंह, तहसीलदार मंजुला मिश्रा, खंड विकास अधिकारी डॉ0 अंजू रानी वर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी खीरों, शिक्षक, ग्रामीण व विद्यालय के बच्चे मौजूद रहे।

मंत्री ने किया गन्ना विकास कार्यालय के शिलापट का अनावरण

बलरामपुर। मंत्री चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग उप्र शासन श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी सरकारी गन्ना विकास समिति लि बलरामपुर के कार्यालय भवन में शिलापट का अनावरण एवं विधि विधान से भूमि पूजन किया। मंत्री ने दीपप्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में संचालन अखिलेश पांडे द्वारा किया गया। मंत्री ने अपने संबोधन में सभी गन्ना विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की अच्छे कार्यों की सराहना करते हुए किसानों के हितार्थ सभी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों का गन्ना फसलों की तौल व भुगतान समय से किया जा रहा है। जनपद बलरामपुर आकांक्षी जिले के बावजूद इस सरकार में जनपद बलरामपुर अग्रणी जिलों में शामिल है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में कैम्प लगाकर अच्छे प्रजाति के गन्ना बीज व गन्ना से सम्बन्धित सभी जानकारी किसान भाइयों को दिया जाए, जिससे अच्छी उपज के साथ-साथ उनकी आय भी दोगुनी हो। मंत्री गोण्डा परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त/जिला गन्ना अधिकारियों एवं देवीपाटन मण्डल की चीनी मिलों के अधिकारियों एवं महाप्रबन्धकों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक भी की। इस अवसर पर उप गन्ना आयुक्त डॉ आरवी राम, जिला गन्ना अधिकारी, बलरामपुर आरएस कुशवाहा, गन्ना विकास निरीक्षक सुनील कुमार सिंह, गन्ना विकास समिति विशेष सचिव अविनाश सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि डीपी सिंह, समिति के सदस्यगण, जिला गन्ना अधिकारी गोंडा, बहराइच सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण व किसान उपस्थित रहे।

अपने पाल्य की शिक्षा के प्रति रहें सजग एवं सचेत : इन्द्रेश विक्रम सिंह

रायबरेली। (स्पष्ट आवाज) न्यू स्टैण्डर्ड बालिका विद्या मन्दिर रायबरेली में 'प्राइमरी से सीनियर विंग' तक के बच्चों के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किये गये।

इस अवसर पर विद्यालय अध्यक्ष इन्द्रेश विक्रम सिंह, प्रधानाचार्य तारकेश्वर सिंह एवं हेड-मिस्ट्रेस संध्या अग्रवाल सहित आये हुए सम्मानित अभिभावकों द्वारा सर्व प्रथम माँ सरस्वती का पूजन-अर्चन सम्पन्न किया गया। तद्पश्चात कार्यक्रम में पधारे अभिभावकों के सम्मान में स्कूल के बच्चों द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर अपनी-अपनी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले एवं 100 प्रतिशत उपस्थित रहने वाले स्टूडेन्ट्स को स्टेज पर अध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य द्वारा स्मृति चिन्ह एवं फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। स्टूडेन्ट्स अपना रिजल्ट कार्ड पाकर बहुत खुश दिखाई दिये। कार्यक्रम को आकर्षक रूप देने में एक्टीविटी इंचार्ज प्रमान्शु श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन के साथ मायाकान्त दीक्षित, सार्थक शुक्ला, आदित्य मिश्रा, भावना श्रीवास्तव, पूनम श्रीवास्तव, सुप्रिया अवस्थी, कविता शर्मा, मन्जू शर्मा और उनके साथियों का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम का सफल संचालन अन्जू त्रिपाठी एवं प्रमान्शु श्रीवास्तव द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में विद्यालय अध्यक्ष ने आये हुए अभिभावकों एवं बच्चों के प्रति अपने सम्बोधन में कहा कि बच्चों के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। लेकिन हम अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पाल्य की शिक्षा के प्रति कितने सजग एवं सचेत हैं। स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे अपने आप में यूनिक होते हैं। जरूरत होती है उनकी ऊर्जा एवं क्षमता से उनको परिचित कराना। इसलिए थोड़ा समय अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अवश्य निकालना चाहिए।

अपनी-अपनी कक्षाओं में उत्तम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों की सराहना करते हुए हम सभी स्टूडेन्ट्स के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। अंत में प्रधानाचार्य ने कार्यक्रम में आये हुए अध्यक्ष और अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ ही प्रोग्राम में परोक्ष-अपरोक्ष रूप से अपना योगदान देने वाले सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर समस्त विद्यालय परिवार

गांधी परिवार को रायबरेली देगा करारा जवाब : अजय अग्रवाल

रायबरेली (स्पष्टआवाज)। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अजय अग्रवाल, क्षेत्रीय मंत्री दिलीप यादव के संग मोदी का परिवार यात्रा के साथ लालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के संस्थापक और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। यात्रा में शामिल सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल तथा अन्य वाहनों में बैठे कार्यकर्ताओं ने हम हैं मोदी का परिवार के उद्घोष के साथ लालगंज की राजनीति में हलचल मचा दी।

अटल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद पत्रकारों से मुखातिब रायबरेली से लोकसभा का टिकट मांग रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय अग्रवाल ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेई के बताए रास्ते पर चलकर पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। वहीं भाजपा को भी एक विशाल संगठन बनाने का काम किया है। आज कई प्रदेशों में भाजपा की सरकारें हैं। भाजपा नेता ने कहा कि2024 लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में भी गांधी परिवार को हराकर प्रदेश से कांग्रेस का सफाया करने का काम करेगी। रायबरेली का जनमानस कांग्रेस की वोट लो राज करो की नीति को समझ गया है। स्वतंत्रता के बाद से दो बार को छोड़कर गांधी परिवार का ही रायबरेली की संसदीय सीट में कब्जा रहा है, इसके बावजूद रायबरेली का विकास नहीं हुआ है। जबकि स्मृति ईरानी के अमेठी से जीतने के बाद वहां पर विकास की गंगा बह रही है। रायबरेली आज भी विकास से अधूरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से जनपद में सड़कों का जाल बिछ गया है।एम्स पूर्णतया बनकर तैयार हो गया है। लोगों को दिल्ली में होने वाला इलाज रायबरेली में मिलने लगा है। रेल कोच व रेल पहिया कारखाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही शानदार ढंग से उत्पादन कर रहा है। हजारों स्थानीय लोगों को भी काम मिला है।

केंद्र सरकार की लोकप्रिय योजनाओं का लाभ प्रत्येक घर तक पहुंचा है। योगी सरकार ने किसानों के नलकूपों का बिजली बिल माफ करके बहुत ही सराहनीय काम किया है। किसानों का दर्द सबसे पहले भाजपा की सरकार ने ही समझा है ।किसान सम्मान निधि के बाद अब किसानों को अपने निजी नलकूपों के लिए बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। यह सरकार के द्वारा किसानों को दी गई बहुत बड़ी सौगात है।

कलेक्ट्रेट में स्थापित हुआ सिंगल विन्डो नगर मजिस्ट्रेट होगी नोडल अधिकारी

बहराइच (स्पष्ट आवाज)। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सिंगल विन्डो सिस्टम स्थापित कर ऑनलाइन प्लेटफार्म ''सुविधा'' द्वारा चुनाव प्रचार से सम्बन्धित जनसभा, रैली, जूलूस, लाउडस्पीकर, वाहन इत्यादि विभिन्न प्रकार की अनुमति प्रदान की जायेगी। यह जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में चुनाव प्रचार से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु कलेक्ट्रेट बहराइच में सिंगल विन्डो सिस्टम स्थापित करते हुए विभिन्न प्रकार की अनुमति जारी करने हेतु नगर मजिस्ट्रेट, बहराइच शालिनी प्रभाकर को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जिनके द्वारा आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सिंगल विन्डो सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफार्म ''सुविधा'' पर चुनाव प्रचार से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की अनुमति प्रदान की जाएगी।

उत्तर रेलवे — आज़ादी का अमृत महोत्सव

शुद्धिपत्र

विषयः निविदा सूचना संख्या 2-Tender/CPM/C/BSB dated 09.03.2024 का पहला शुद्धिपत्र

संदर्भ : दिनाँक 10.03.2024 को प्रकाशित आर ओ नं. 759 / 24

दिनांक 10.03.2024 को प्रकाशित निविदा सूचना 2-Tender/CPM/C/BSB dated 09.03.2024 जो कि दिनांक 06.04.2024 को खुलनी है, में निविदा सूचना संख्या निम्नानुसार पढ़ी जाये –

पूर्व संशोधित	संशोधित
संख्या 2–टेण्डर / सीपीएम / नि. / लखनऊ	संख्या 2–टेण्डर / सीपीएम / नि. / वाराणसी

अन्य सभी नियम और शर्तें समान रहेंगी।

संख्या 2–टेण्डर / सीपीएम / नि. / वाराणसी दिनांक 11.03.2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 773/24

सरकारी भूमि में हो रहे अवैध खनन पर टीम का शिकंजा

जरवलरोड बहराइच(स्पष्ट आवाज)। रेलवे की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से हो रहे खनन पर राजस्व व पुलिस टीम ने कड़ा शिकंजा कसा है। अवैध खनन कर रही एक पोकलैंड मशीन व दो डंपर को टीम ने सीज करते हुए कड़ी कार्यवाही की है। जानकारी के अनुसार जरवल रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झुकिया के मुड़ियाडीह मजरा के निकट रेलवे की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा था। अवैध खनन की जानकारी होने पर नायब तहसीलदार प्रबीन्द्र प्रताप गिरि के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा छापा मारते हुए बीती रविवार की रात में गाटा सं 23 व 24 नांन जेड ए भूमि(सरकारी भूमि) से बिना किसी सक्षम स्तर से खनन अनुज्ञा पत्र प्राप्त किए खनन करने के संबंध में दो अदद डम्फर व एक अदद पोक्लैंड मिट्टी खोदने वाली मशीन को सीज किया गया है। नायाब तहसीलदार पीपी गिरी ने बताया कि अवैध खनन की जानकारी मिली थी मौके पर लेखपाल पंकज कुमार, घाघरा घाट चौकी प्रभारी उ नि आदित्य कुमार, उ0नि0 श्रवण कुमार हेड कांस्टेबल धीरेंद्र यादव, रंजय साहनी व कांस्टेबल राहुल यादव, अरुण यादव के साथ पहुंचकर जांच की गई और बिना सक्षम अधिकारी के परमिशन से खनन होना पाया गया जिस पर कार्रवाई की गई है और रिपोर्ट उपजिला मजिस्ट्रेट कैसरगंज व ए0आर0टी0ओ0 बहराइच को भेजी गई है।

पूर्वोत्तर रेलवे

ई–टेन्डरिंग निविदा सूचना सं0 15 / 2024

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये मंडल रेल प्रबंधक (इंजी0) पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर निम्नलिखित कार्य हेतु आनलाईन (ई–टेन्डरिंग) के माध्यम से "खुली" निविदा आमंत्रित करते है। **क्र. सं. : 1. कार्य का विवरण :** रामनगर स्टेशन पर 600 मीटर लम्बे कैमटेक डिजाइन वाशिंग पिट का प्रावधान और सर्विस बिल्डिंग का विस्तार। **अनुमानित लागत रुपये :** रु. 6,73,32,415.00 **बयाना राशि रुपयों :** रु. 4,86,700/– **निविदा प्रपत्र का मूल्य :** शून्य स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से कार्य पूर्ण करने की अवधि 12 माह **क्र. सं. : 2. कार्य का विवरण :** रामपुर–लालकुऑ अनुभाग में समपार सं. 35 एवं 46 के स्थान पर एल.एच.एस का शेष निर्माण कार्य (स्वीकृत कार्य के अंतर्गत इज्जतनगर डिवीजन में वमई/।/इज्जतनगर के अधिकार क्षेत्र में क्रमशः समपार सं. 17 एवं 15 के स्थान पर एल.एच.एस का निर्माण कार्य।) **अनुमानित लागत रुपये :** रु. 5,55,44,645.67 **बयाना राशि रुपयों :** रु. 4,27,700– **निविदा प्रपत्र का मूल्य :** शून्य स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से कार्य पूर्ण करने की अवधि 08 माह 1. ई–निविदा दिनांक 01.04.2024 को 15.00 बजे तक ऑन लाईन जमा कर सकेंगे। 2. ई–निविदा की प्रस्तुतति हेतु पूर्ण विवरण भारतीय रेलवे की IREPS वेबसाईट **www.ireps.gov.in** पर देखें।

मण्डल रेल प्रबन्धक / (इन्जी0) इज्जतनगर

मुजाधि / डबलू–578

ट्रेनों में बीड़ी / सिगरेट न पियें

उत्तर रेलवे — आज़ादी का अमृत महोत्सव

ई–निविदा सूचना

उप–मुख्य अभियन्ता / नि.–चतुर्थ / लखनऊ द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए निर्धारित प्रोफॉर्मा पर मोहर बन्द ई–निविदाएँ सिंगल स्टेज दो पैकेट (ओपेन) में आमंत्रित की जाती हैं।

1	कार्य का नाम व स्थान	परियोजना प्रबंधन प्रदान करने के लिए प्राधिकरण अभियंता की नियुक्ति "मिट्टी का काम, ब्लैंकेटिंग, प्लेटफार्म, एफओबी आदि" के कार्यों के लिए सेवा। गिट्टी आपूर्ति और पी.वे कार्य (लाइन स्लीपर, रेल को छोड़कर), एस एंड टी कार्य, दोहरीकरण के लिए ओएचई कार्य, जनरल इलेक्ट्रिक कार्य और अन्य संबद्ध कार्य प्रतापगढ़ (एक्ससीएल) से जंघई (एक्ससीएल) खंड के संबंध में कार्य जंघई –प्रतापगढ़–अमेठी (87 किमी) लखनऊ मंडल का दोहरीकरण उत्तर रेलवे" और "बाराबंकी के बीच तीसरी और चौथी लाइन का प्रावधान।"(छोड़कर)– मल्हौर (छोड़कर) स्टेशन (2 / 13.50 किमी) शामिल उत्तरी लखनऊ मंडल पर विद्युतीकरण एवं सिग्नलिंग कार्य रेलवे" ईपीसी मोड पर
2	कार्य पूरा करने की अवधि	उनतालीस महीने (निर्माण अवधि के 21 महीने +18 ईपीसी अनुबंध की दोष देयता अवधि के महीने)
3	कार्य की अनुमानित लागत	रु. 1219.96 लाख
4	धरोहर राशि	रु. 7,60,000.00
5	ई–निविदा जमा करने की तारीख / समय एवं निविदा खुलने की तारीख	निविदाएँ दिनाक 10.05.2024 को 11:30 बजे तक आई.आर.ई.पी.एस. के वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर अपलोड की जा सकती है तथा दिनाँक 10.05.2024 को समय 15:30 बजे खोली जाएगी।
6	विस्तृत निविदा सूचना व प्रपत्र	विस्तृत निविदा सूचना व निविदा प्रपत्र दिनाक 13.03.2024 से आई.आर.ई.पी.एस. के वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध रहेंगे व दिनांक 26.04.2024 से 10.05.2024 तक ई–निविदा अपलोड की जा सकती है।
7	प्री–बीड कॉन्फ्रेंस डिटेल्स	दिनांक 10.04.2024, समय 11:30 बजे स्थानः परियोजना प्रबन्धक कार्यालय, लखनऊ
8	प्रश्न (queries) प्राप्त करने का अंतिम दिन	05.04.2024

संख्या 67–टेण्डर / उप–मुख्य अभियन्ता / नि.–चतुर्थ / लखनऊ दिनांक 11.03.2024 763/24

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित हुई मासिक बैठक

रायबरेली (स्पष्टआवाज)। जिला कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन में अयोजित की गई।

बैठक को सम्बोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि लोकसभा चुनावों में अब समय नहीं रह गया है, ऐसे में कांग्रेस का कार्यकर्ता जन संवाद के माध्यम से भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों एवं सरकार द्वारा लोकतंत्र पर बार-बार किये जा रहे प्रहार को जनता के समक्ष उजागर करें, जनता को बतायें कि किस तरह से मोदी सरकार ने रायबरेली जनपद के साथ सौतेला व्यवहार किया है, जिलाध्यक्ष ने कहा कि रायबरेली कांग्रेस की थी, है, और हमेशा रहेगी। कांग्रेस प्रवक्ता महताब आलम ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि मासिक बैठक में मुख्यरुप से जनपद में ÷किसान चौपाल÷ कार्यक्रम आयोजित किये जाने पर चर्चा की गई, साथ ही भाजपा द्वारा फैलाई जा रही चुनावी अफवाहों पर ध्यान न देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाने की बात की गई। इस अवसर पर प्रत्याशी विधानसभा हरचन्दपुर सुरेन्द्र विक्रम सिंह, प्रत्याशी विधानसभा ऊंचाहार अतुल सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष वी. के. शुक्ला, अशोक कुमार सिंह, विजयशंकर अग्निहोत्री, निर्मल शुक्ला, सईदुल हसन, वीरेन्द्र यादव, संजीव पाण्डेय, शिवानंद मौर्या, राहुल बाजपेयी, पद्मधर सिंह, शैलजा सिंह, अजीत सिंह, सतगुरूदेव लोधी, अनवार खान, मो. जफरूल, कृपाशंकर शुक्ला, संजय श्रीवास्तव, आलोक विक्रम यादव, चन्द्र प्रकाश बाजपेयी, सुमित्रा रावत, संतोष पासवान, जितेन्द्र पासी, यशपाल भारती, घनश्याम शुक्ला, शशिकांत पाण्डेय, मनोज तिवारी, मेराजुल हसन फारूकी, गिरिजेश श्रीवास्त, दिनेश यादव, अनुरूद्ध दीक्षित, अभय सिंह, राजकुमार द्विवेदी, अमित चौधरी, विजय दीक्षित, सौरभ शुक्ला, कामता प्रसाद गौड़, विनोद प्रताप सिंह, अवधेश चौधरी, गौरव मिश्रा, कामता नाथ सिंह, मो. अशरफ खान, ओम प्रकाश त्रिपाठी, दल बहादुर सिंह, शम्भूशरण पाल, ज्योति प्रसाद पासी, अरुण कुमार यादव, प्रियंका रावत, प्रमोद कुमार बाजपेयी, आशीष त्रिवेदी, जितेन्द्र शुक्ला, कल्याणचन्द श्रीवास्तव, ओम प्रकाश पाल, अम्बरीश बाजपेयी, हाफिज रियाज, विजय पटेल, अनिल कुमार मिश्रा, रमाकांत सिंह सहित अन्य पदाधिकारी गण उपस्थित रहे।

डीएम की अध्यक्षता जिला गंगा समिति की बैठक में सौंदरीकरण पर चर्चा

बलरामपुर। बाढ़ आपदा प्रबंधन एवं 120 किलोमीटर लंबी सुआंव नदी के पुनरुद्धार एवं सौंदरीकरण के लिए बेहतर कार्ययोजना तैयार किए जाने के लिए डीएम अरविंद सिंह की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की बैठक हुई। बैठक में सुआव नदी का एक्शन प्लान तैयार किए जाने पर विस्तृत चर्चा की गई। सुआंव नदी के पुनरुद्धार से जनपद के कई क्षेत्रों को बाढ़ जैसी आपदा से निजात मिलेगी। सुआव नदी को बड़े तालाबों के साथ जोड़ा जाएगा जिससे कि भूमिगत जल स्तर ऊपर उठेगा एवं वृहद पैमाने पर सिंचाई में भी उपयोग किया जा सकेगा। बैठक में डीएम ने कहा कि गंदे नालों का पानी सुआव नदी में न मिले, इसके लिए नगर पालिका द्वारा अतिशीघ्र फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु भूमि चिन्हित कर ली जाए। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, एसडीएम एवं तहसीलदार को प्राथमिकता के साथ एफएसटीपी हेतु भूमि का चिन्हांकन किए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि नगर पालिका द्वारा सर्वे करते हुए सुआव नदी के तट पर पार्क व रमणीय स्थल विकसित किए जाने, फसाड लाइटिंग आदि लगाए जाने की कार्ययोजना बनाई जाए। वन विभाग द्वारा सुबह नदी के तट पर वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किए जाने की कार्ययोजना तैयार कर ली जाए। डीएम ने कहा कि सुआव नदी की मेनस्ट्रीम धारा में डिसिल्टिंग के लिए सिंचाई विभाग एक सप्ताह के भीतर कार्ययोजना बनाएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। सुआव नदी में पूरे वर्ष जलधारा बहती रहे इसके लिए डीएम द्वारा नवीन पहल की गई।

पूर्वोत्तर रेलवे — **अधिसूचना सं.: 28/2024**

रेल यात्री बन्धुओं के लिये आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा के लिये **पटना–गोमतीनगर–पटना के मध्य नई वन्दे भारत एक्सप्रेस के संचलन का शुभारम्भ** दिनांक **12-03-2024** को पटना स्टेशन से विशेष गाड़ी चलाकर किया जायेगा। उद्घाटन विशेष गाड़ी एवं नियमित गाड़ी का समय निम्नानुसार होगाः–

उद्घाटन विशेष गाड़ी संख्या 02345 का समय एवं ठहराव पटना से गोमतीनगर दिनांक 12-03-2024 (मंगलवार) को

स्टेशन	आगमन	प्रस्थान
पटना	--	09:00
आरा	09:45	09:47
बक्सर	10:38	10:40
पं. दीन दयाल उपाध्याय	12:00	12:05
वाराणसी	12:55	13:00
अयोध्या धाम	15:50	15:55
गोमतीनगर	18:15	--

नियमित गाड़ी का समय एवं ठहराव निम्नवत है :–
गाड़ी सं. 22345 पटना से दिनांक 18-03-2024 से सप्ताह मे 06 दिन शुक्रवार को छोड़कर
गाड़ी सं. 22346 गोमतीनगर से दिनांक 18-03-2024 से सप्ताह मे 06 दिन शुक्रवार को छोड़कर

22345 पटना–गोमतीनगर		स्टेशन	22346 गोमतीनगर–पटना	
आगमन	प्रस्थान		आगमन	प्रस्थान
--	06:05	पटना	23:45	--
06:40	06:42	आरा	22:35	22:37
07:21	07:23	बक्सर	21:54	21:56
08:40	08:45	पं. दीन दयाल उपाध्याय	20:50	20:55
09:20	09:25	वाराणसी	20:00	20:05
12:15	12:20	अयोध्या धाम	17:15	17:20
14:30	--	गोमतीनगर	--	15:20

इस गाड़ी में 08 कोचों का वन्दे भारत रेक लगाया जायेगा।

मुजाधि / टी–79 — मुख्य यात्री परिवहन प्रबन्धक, गोरखपुर

गाड़ियों की छतों व पावदान पर कदापि यात्रा न करें।

उत्तर रेलवे — आज़ादी का अमृत महोत्सव

सार्वजनिक सूचना
चेतावनी

उत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल में सदर वाशिंग लाइन साइडिंग, लखनऊ स्टेशन में शिरोपरी कर्पण तारों में बिजली प्रवाहित करने के सम्बन्ध में आम सूचना

रेलवे लाइनों और परिसरों के सभी उपभोक्ताओं को एतदद्वारा सूचना दी जाती है की उत्तर रेलवे के निम्नलिखित स्टेशन पर 25000 वोल्ट, 50 हर्टज, ए० सी० शिरोपरी कर्षण तारे को खंड के सामने विनिदिष्ट तारीख को या बाद मे हर्टत किया जाएगा। उस तारीख पर और उस तारीख से शिरोपरी कर्षण लाइन को हर समय विद्युतमव माना जाएगा और कोई अताधिकृत व्यक्ति उस शिरोपरी लाइन के समीप्यता मे दाखिला होने या काम करने नही जाएगा।

स्टेशन / साइडिंग	उर्जा प्रवाह तिथि
सदर वाशिंग लाइन साइडिंग लोकेशन संख्या 1072/11A (CH. 1072/268-50) से लोकेशन संख्या LKO/1002 (CH. 1071/488-00), लखनऊ स्टेशन (टी० के० एम० 0.780), लखनऊ मंडल, उत्तर रेलवे	12.03.2024

25000 वोल्ट ए० सी० कर्षण को चालू करने के सम्वन्ध में ''सड़क उपभोक्ताओं को चेतावनी''
चेतावनी

जन साधारण को सूचित किया जाता है की उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के लखनऊ स्टेशन में वाशिंग लाइन साइडिंग में शिरोपरी कर्षण तारों को 25000 वोल्ट ए० सी० द्वारा आवेशित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस खंड के सभी फाटकों पर ऊंचाई मापक, रेल सतह से अधिकतम 4.78 मीटर की ऊंचाई पर लगायी गयी है। ताकि बहुत अधिक ऊंचाई वाले भर वाहक वाहन को आवेशित तार की खतरनाक सन्निकटता या संपर्क में आने से रोका जा सके । जन साधारण को यह भी सूचित किया जाता है की वाहनों की लदान के प्रायोजन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट ऊंचाई का पालन करें और यह देखें की सड़क वाहन में ढोए जा रहे लोड से किसी भी स्थिति में ऊंचाइ मापक का अतिलंघन ना करे।

स्टेशन / साइडिंग	उर्जा प्रवाह तिथि
सदर वाशिंग लाइन साइडिंग लोकेशन संख्या 1072/11A (CH. 1072/268.50) से लोकेशन संख्या LKO/1002 (CH. 1071/488.00), लखनऊ स्टेशन (टी० के० एम० 0.780), लखनऊ मंडल, उत्तर रेलवे	12.03.2024

अत्यधिक ऊंचाई के लाट के खतरे निम्नानुसार हैं। : (1) ऊचाई मापकों के लिए खतरा ओर उसके फलस्वरूप सड़क और रेलवे लाइन पर बाधा। (2) वाहन पर ले जा रही सामग्रियौ या उपस्कर को खतरा। (3) चालकों की खतरनाक समाप्यता या संपर्क के कारण आग का खतरा और जीवन हानि का खतरा

संख्याः 230.वि0क0वि0लख0 / 54

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 760/24

पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

अनुभवी ठेकेदारों/फर्मो/संस्थाओं से निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा ऑनलाइन दो भागों में आमंत्रित की जाती है। जिसके प्रथम भाग खुलने की तिथि 28.03.2024 को 14:00 बजे निर्धारित है। ऑनलाइन निविदा वेबसाइट (http://etender.up.nic.in) पर तिथि 28.03.2024 को 11:00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है। निविदा मूल्य (जी.एस.टी. सहित) एवं धरोहर धनराशि आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम, प्रयागराज के बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित किया जाएगा तथा उसका साक्ष्य ई-टेण्डर के डाक्यूमेन्ट के साथ अपलोड किया जायेगा, कार्यदायी संस्था को साझा फर्म व एकल मालिक के सम्बन्ध में अभिलेख, तकनीकी, वाणिज्यिक एवं अन्य नियम व शर्तें प्रथम भाग में तथा दरें द्वितीय भाग में ई-निविदा के माध्यम से अपलोड करना होगा। निविदाओं के प्रथम भाग की शर्तो को पूर्ण होने के उपरान्त ही निविदाओं का द्वितीय भाग खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र सम्बन्धी सभी सूचनायें ई-टेण्डरिंग के माध्यम से उ.प्र. शासन के ई-प्रोक्यारमेंट पोर्टल की वेबसाइट पर (http://etender.up.nic.in) प्राप्त की जा सकती है। निविदा में भाग लेने हेतु दिशा निर्देश उक्त ई-निविदा के वेबसाइट पर उपलब्ध है। क्र.सं. **1. निविदा संख्या :** 51/EDCP-I/2023-24, **कार्य/सामग्री का विवरण-** विद्युत परीक्षण खण्ड - प्रथम, प्रयागराज क्षेत्रान्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेजा/प्रयागराज के अधीन कुल 43 अद्द 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों पर स्थित पावर परिवर्तक 33 के0वी0 वी0सी0बी0, 11 के0वी0 वी0सी0बी0 समस्त प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे रिले, ओ0टी0आई0 डब्लू0टी0आई0, 33 एवं 11 के0वी0 सी0टी0/पी0टी0 इत्यादि की टेस्टिंग, मरम्मत एवं उन्हें क्रियाशील करने का कार्य। **निविदा प्रपत्र मूल्य (कर सहित) :** 7670.00 (6500+1170), **धरोहर धनराशि (रू.) :** 130000.00, **वेबसाइट पर अपलोड करने की अन्तिम तिथि :** दिनांक - 28.03.2024 11.00 बजे तक, **निविदा का प्रथम भाग खोलने की तिथि एवं समय :** दिनांक - 28.03.2024 14.00 बजे तक। कृपया विस्तृत जानकारी, डाउनलोड अन्य संशोधन, निविदा प्रस्तुत करने की तिथि, विस्तारीकरण/शुद्धीकरण /पुनर्निविदा आदि सम्बन्धी सूचनाएं हेतु ई-टेण्डरिंग पोर्टल (http://etender.up.nic.in) की वेबसाइट पर प्राप्त करें। **शर्तें : 1.** अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए किसी निविदा को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। **2.** सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। **3.** निविदा की तिथि पर सार्वजनिक अवकाश या अन्य कारणों से कार्यालय बन्द होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस जिसमें कार्यालय खुला होगा में, खोली जाएगी।

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण, निगम लि0, 57, जार्ज टाउन-प्रयागराज

पत्रांक : 1886/वि.वि.मं.प्र.प्रया./ टेण्डर, दिनांक : 11.03.2024

'राष्ट्रहित में बिजली बचाएं'

SA NEWS
स्पष्ट आवाज़
लखनऊ, मंगलवार, 12 मार्च, 2024
विक्रम संवत 2080, फाल्गुन मास, द्वितीया (कृष्ण पक्ष)

आलोचना से बचने का एक ही तरीका है : कुछ मत करो, कुछ मत कहो और कुछ मत बनो।
अरस्तु

विपक्षियों की पूरी साख दांव पर

गत वर्ष नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में तीन राज्यों में जीत हासिल करने के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि केंद्र की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं को बख्शेगी नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमीन घोटाले में हुई गिरफ्तारी से यह बात साबित हो गई। आश्चर्य यह है कि विपक्षी दल सोरेन की गिरफ्तारी पर भाजपा पर राजनीतिक विद्वेषता से कार्रवाई करने का आरोप तो लगा रहे हैं किन्तु यह एक बार भी नहीं बताया कि देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उनके पास क्या रोड मैप है। जिन राज्यों में विपक्षी दलों का शासन है, उनमें भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। इसके विपरीत केंद्र की भाजपा सरकार को समझ में आ गया है कि देश के मतदाता भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी मुहिम के समर्थन में हैं।कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र की भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरने की काफी कोशिश की, किन्तु कामयाबी नहीं मिल सकी। फ्रांस से खरीदे युद्धक विमान राफेल, अडानी और अंबानी को लेकर विपक्षी ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। इन आरोपों को लेकर विपक्षी दलों सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सारहीन मान कर खारिज कर दिया। इससे भाजपा का नैतिक बल बढ़ गया। भाजपा ने भ्रष्टाचार की मुहिम को तेज करने के साथ ही सोरेने जैसे नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की। विपक्ष भ्रष्टाचार पर बदले की नीयत का आरोप लगा रहा है किन्तु प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा नेताओं की गिरफ्तारी के ज्यादातर मामलों में अदालतों से जमानत तक नहीं मिल सकी। इससे जाहिर होता है कि ईडी और सीबीआई ने ठोस सबूतों के आधार पर कार्रवाई की है। तृणमूल कांग्रेस और आप सहित कई पार्टियों के नेता जमानत नहीं मिलने के कारण महीनों-सालों से जेल में बंद हैं।अदालतों ने यह माना है कि इन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त होने के पर्याप्त सबूत मिले हैं। यही वजह है इनको जमानत नहीं मिल सकी, ताकि सबूतों और गवाहों को प्रभावित नहीं किया जा सके। गौरतलब है कि कांग्रेस सहित 14 दलों ने ईडी और सीबीआई पर दुर्भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में जांच एजेंसियों को लेकर भविष्य के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी।

> झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमीन घोटाले में हुई गिरफ्तारी से यह बात साबित हो गई। आश्चर्य यह है कि विपक्षी दल सोरेन की गिरफ्तारी पर भाजपा पर राजनीतिक विद्वेषता से कार्रवाई करने का आरोप तो लगा रहे हैं किन्तु यह एक बार भी नहीं बताया कि देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उनके पास क्या रोड मैप है। जिन राज्यों में विपक्षी दलों का शासन है, उनमें भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। इसके विपरीत केंद्र की भाजपा सरकार को समझ में आ गया है कि देश के मतदाता भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी मुहिम के समर्थन में हैं।

आज का इतिहास

1356 - ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में विश्वविद्यालय की स्थापना।
1609 - अटलांटिक महासागर में स्थित बरमुडा द्वीप अंग्रेजों का उपनिवेश बना।
1612 - बंगाल के अंतिम स्वतंत्र अफगान शासक उस्मान खान लोहानी की मौत।
1872 - भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड मेयो को मारने वाले शेर अली को फांसी।
1881 - एंड्रयू वॉटसन का स्कॉटलैंड की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में पदार्पण, दुनिया के पहले अश्वेत अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी बने।
1904 - ब्रिटेन में मुख्य लाईन पर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली।
1913 - महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण का जन्म।
1930 - महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू की।
1948 - कोस्टा रिका में गृहयुद्ध शुरू हुआ।
1954 - भारत सरकार ने साहित्य अकादमी की शुरुआत की।
1967 - इंदिरा गांधी दूसरी बार देश की प्रधानमंत्री बनीं।
1968 - मॉरीशस को ब्रिटिश से आजादी मिली।
1970 - अमेरिका में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष हुई।
1984 - बॉलीवुड गायिका श्रेया घोषाल का जन्म।
1993 - मुंबई में हुए अनेक बम विस्फोट से 257 लोगों की मौत और सैकड़ों घायल।
2003 - सर्बिया के प्रधानमंत्री जोरान जिनजिब की बेलग्रेड में हत्या।

उत्तर प्रदेश में भाजपा के जातीय समीकरण के सामने पस्त विपक्ष

आशीष वशिष्ठ

एक पुरानी राजनीतिक कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। कहते हैं यहां पर जिसने जितनी सीटें जीतीं, उसके लिए नई दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता उतना ही आसान हुआ। उत्तर प्रदेश में विजय का परचम लहराने के लिए जातियों की समझ ही सब कुछ है। यहां विकास के नाम पर वोट भी तभी मिलता है, जब जातियों को सही तरह से साधा जाए। बात चाहे ओबीसी की हो, मुस्लिम की हो या सवर्ण समाज को साधने की, सभी का उत्तर प्रदेश की सियासत में अहम योगदान रहता है। यहां के बारे में एक कहावत चर्चित है कि यहां वोटर नेता को वोट नहीं देते बल्कि जाति को देते हैं। जाहिर है कि सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश पर हर पार्टी की नजर है। यहां भारतीय जनता पार्टी से लेकर सपा, कांग्रेस और बसपा भी अपना जनाधार मजबूत करने में पूरी ताकत के साथ जुट गई है। जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर अपने-अपने वोट बैंक को दुरुस्त करने के लिए खास रणनीति बनाई जा रही है। इस मद्देनजर जो एक कम्युनिटी प्रदेश की हर राजनीतिक पार्टी की नजर में है, वो ओबीसी समुदाय है। प्रदेश में मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा ओबीसी से आता है और जिसकी ओर उनका झुकाव होता है, वही पार्टी यहां सबसे मजबूत स्थिति में मानी जाती है। ऐसे में इन्हें लुभाने के लिए हर पार्टी अपने-अपने स्तर पर अपनी-अपनी रणनीति के अनुसार कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट का प्रतिशत 52 फीसदी है। ये ओबीसी वोट, यादव और गैर यादव में बंटा हुआ है। यादव वोट 11 फीसदी है तो गैर यादव 43 फीसदी है। ओबीसी वोट में यादव जाति के बाद सबसे ज्यादा संख्या कुर्मी मतदाताओं की है। इसके बाद मौर्य और कुशवाहा और चौथे नंबर पर लोध जाति है। पिछड़ा वर्ग में पांचवीं सबसे बड़ी जाति के रूप में मल्लाह (निषाद) हैं। ओबीसी वोट बैंक में राजभर बिरादरी की आबादी दो फीसदी से कम है। राज्य में दलित वोट बैंक, जाटव और गैर जाटव में बंटा हुआ है। दलितों में जाटव जाति की संख्या कुल वोट का 54 फीसदी है। दलितों में 16 फीसदी पासी और 15 फीसदी वाल्मीकि जाति है। राज्य में सवर्ण मतदाता की आबादी 23 फीसदी है। इसमें सबसे ज्यादा 11 फीसदी ब्राह्मण, आठ फीसदी राजपूत और दो फीसदी कायस्थ है। देश में उत्तर प्रदेश मुस्लिम जनसंख्या के हिसाब लिहाज से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यहां पर लगभग 20 प्रतिशत मुस्लिम रहते हैं। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-अपना दल गठबंधन को 50.76 फीसदी वोट मिले थे। भाजपा ने 62 और अपना दल ने दो सीट जीती थीं। सपा-बसपा और आरएलडी गठबंधन को 38.89 फीसदी वोट मिले थे। सपा ने पांच और बसपा ने 10 सीटें जीती थीं। 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे शर्मनाक रहा। उसे 6.31 प्रतिशत वोट शेयर के साथ सिर्फ एक सीट पर जीत मिली। अगर साल 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ 71 सीट मिलीं और पार्टी के खाते में 42.3 फीसदी वोट गए। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी का खाता भी नहीं खुला। बसपा को 19.6 फीसदी वोट मिले। सपा ने पांच ही लोकसभा सीट जीती। उसे कुल 22.2 फीसदी वोट मिले। कांग्रेस ने दो सीटें जीती और उसका वोट फीसदी 7.5 रहा।

थिंक टैंक सीएसडीएस और लोकनीति के एक सर्वे के मुताबिक 2019 के चुनाव में 82 फीसदी ब्राह्मणों ने भाजपा और उसके सहयोगियों के लिए वोट किया। 89 फीसदी राजपूतों ने भाजपा को वोट दिया। वैश्यों का 70 फीसदी वोट भाजपा के खाते में गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निर्णायक माने जाने वाले जाटों का 91 फीसदी वोट भाजपा को मिला। वर्ण व्यवस्था की अन्य जातियों में से 5 फीसदी ने कांग्रेस, 84 फीसदी ने भाजपा गठबंधन और 10 फीसदी ने सपा-बसपा गठबंधन को वोट किया। ओबीसी की दूसरी बड़ी जाति कोइरी-कुर्मी का 80 फीसदी वोट भाजपा, 14 फीसदी वोट सपा-बसपा, कांग्रेस को 5 फीसद और अन्य दलों को 1 फीसदी वोट मिला। यादव-कोइरी-कुर्मी के अलावा ओबीसी की अन्य जातियों में से 72 फीसदी ने भाजपा, 18 फीसदी ने सपा-बसपा, 5 फीसदी ने कांग्रेस और 5 फीसदी ने अन्य दलों को वोट किया। अनुसूचित जाति की बड़ी जातियों में से एक जाटव है। इस जाति का 75 फीसद वोट सपा-बसपा, 17 फीसद भाजपा, 1 फीसद कांग्रेस और अन्य दलों को 7 फीसद वोट मिल। एससी की अन्य जातियों के वोटों में से भाजपा गठबंधन को 48 फीसद, सपा-बसपा गठबंधन को 42 फीसद, कांग्रेस को 7 फीसद और 3 फीसद ने अन्य दलों को वोट किया। उत्तर प्रदेश के 73 फीसद मुसलमानों ने सपा-बसपा गठबंधन, 14 फीसद ने कांग्रेस, 8 फीसद ने भाजपा गठबंधन और पांच फीसद ने अन्य दलों को वोट किया। अन्य जातियों में से 50 फीसद ने भाजपा गठबंधन, 35 फीसद ने सपा-बसपा, 1 फीसद ने कांग्रेस और 14 फीसद ने अन्य दलों को वोट किया। वास्तव में, सामान्य, गैर यादव ओबीसी, अन्य अति पिछड़े, और गैर जाटव दलित पर भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ है। भारतीय जनता पार्टी को साल 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव में और साल 2017 तथा 2022 के विधानसभा में अच्छी-खासी संख्या में ओबीसी वोटर्स का साथ मिला। सपा की नीतियों से असंतुष्ट ओबीसी समुदाय ने भाजपा का दामन थामा। भाजपा अपने इस समर्थन को आने वाली लोकसभा चुनाव में बरकरार रखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वोटर्स में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए तमाम तरह के जतन कर रही है। इसका मकसद गैर-यादव पिछड़ी जाति के लोगों को लामबंद करना है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में लाना भाजपा की ओबीसी नीति का ही नतीजा है। संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल पहले से ही भाजपा के साथ हैं। आरएलडी के एनडीए का हिस्सा बनने से यह वोट बैंक और मजबूत होगा। ओबीसी को समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। इनमें भी यादव वोटर्स सपा के समर्पित समर्थक हैं। सत्ता पर काबिज भाजपा ने अपनी योजनाओं और राजनीतिक रणनीति की मदद से सपा के इस वोट बैंक में सेंधमारी की है।

उत्तर प्रदेश में विजय का परचम लहराने के लिए जातियों की समझ ही सब कुछ है। यहां विकास के नाम पर वोट भी तभी मिलता है, जब जातियों को सही तरह से साधा जाए। बात चाहे ओबीसी की हो, मुस्लिम की हो या सवर्ण समाज को साधने की, सभी का उत्तर प्रदेश की सियासत में अहम योगदान रहता है। यहां के बारे में एक कहावत चर्चित है कि यहां वोटर नेता को वोट नहीं देते बल्कि जाति को देते हैं। जाहिर है कि सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश पर हर पार्टी की नजर है।

भाजपा ने माधवी लता को उतार कर ओवैसी को उनके गढ़ में बुरी तरह घेरा

नीरज कुमार दुबे

देश भर में घूम-घूमकर मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस बार खुद अपने गढ़ हैदराबाद में घिर गये हैं क्योंकि भाजपा ने आरएसएस कार्यकर्ता माधवी लता को उनके खिलाफ उतार दिया है। माधवी लता जिस तरह से अपनी उम्मीदवारी घोषित होने के बाद से ओवैसी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं उससे हैदराबाद के सांसद की राजनीतिक जमीन हिल गयी है। इसीलिए आजकल ओवैसी जिम में पसीना बहा रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बार मजबूत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ना है और समय निकाल कर अन्य प्रदेशों में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का प्रचार भी करना है। हम आपको बता दें कि हाल में संपन्न तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जिस तरह एआईएमआईएम को अपने गढ़ हैदराबाद में झटका लगा था उसके चलते लोकसभा चुनाव के लिए ओवैसी काफी सतर्कता बरत रहे हैं।जहां तक माधवी लता की बात है तो आपको बता दें कि वह आरएसएस कार्यकर्ता, पारंपरिक भारतीय महिला, उद्यमी, अस्पताल प्रशासक और एक प्रशिक्षित

भरतनाट्यम नर्तक हैं। हाल के समय तक राजनीतिक क्षेत्रों में उनका नाम कभी चर्चा में नहीं रहा था लेकिन जब भाजपा ने हैदराबाद से उन्हें लोकसभा सीट का उम्मीदवार घोषित किया तो वह रातोंरात सुर्खियों में आ गयीं। 49 वर्षीय कोम्पेला माधवी लता तीन बच्चों की मां हैं। जब उन्हें भाजपा उम्मीदवार बनाया गया तो वह खुद भी आश्चर्यचकित रह गयी थीं क्योंकि उन्होंने अपने लिए कभी कोई पैरवी नहीं की थी। ओजस्वी वक्ता और उस्मानिया विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर माधवी लता कहती हैं कि मेरी उम्मीदवारी से यह बात साबित हो जाती है कि भाजपा लोगों की क्षमताओं और उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों पर नजर रखती है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती है।हम आपको बता दें कि माधवी लता को उम्मीदवार बनाये जाने का कारण यह भी है कि एक तो वह महिला हैं और दूसरा मुस्लिम महिलाओं के बीच उन्होंने काफी काम किया है जिसके चलते वह उनके बीच काफी लोकप्रिय हैं। इसके अलावा एक प्रखर वक्ता होना भी उनके पक्ष में गया है क्योंकि ओवैसी जिस तरह अपने भाषणों के जरिये लोगों को अपने पक्ष में करते हैं उसी तरह अपने भाषणों के जरिये उन्हें जवाब देने वाला प्रतिद्वंद्वी उनके खिलाफ चाहिए था। हम आपको बता दें कि एआईएमआईएम ने चार दशकों से हैदराबाद लोकसभा सीट पर कब्जा बनाए रखा है। सलाहुद्दीन ओवैसी ने 1984 से 1999 तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया और उसके बाद से उनके बेटे असदुद्दीन हैदरबाद से सांसद हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट के तहत गोशामहल को छोड़कर सभी विधानसभा क्षेत्रों पर एआईएमआईएम का कब्जा है। गोशामहल से भाजपा के फायर ब्रांड नेता टी. राजा विधायक हैं।भाजपा ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भगवंत राव पवार को अपना उम्मीदवार बनाया था जोकि ओवैसी से भारी अंतर से चुनाव हार गये थे। इस बार हैदराबाद से भाजपा प्रत्याशी तय करने में आरएसएस से जुड़े संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रमुख और संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने इस क्षेत्र में मुस्लिम महिलाओं के बीच काम कर रहीं माधवी लता का नाम सुझाया जिस पर पार्टी में सहमति बन गयी और उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हो गयी। खुद माधवी लता भी इस बात को मानती हैं कि उन्हें चुनाव में मुस्लिम महिलाओं का सहयोग मिलेगा। उनका कहना है कि अगर हिंदू-मुस्लिम मुद्दे को देखा गया होता तो भाजपा मुझे उम्मीदवार नहीं बनाती। उनका कहना है कि मैं मुस्लिमों के बीच काम करती हूँ और उन्हें अपना मानती हूँ। माधवी लता का कहना है कि मैं तीन तलाक की विरोधी रही हूँ और हिंदुओं से जुड़े विषयों को लेकर भी सक्रिय रही हूँ।

सूची घोषित करती कांग्रेस और सेंध लगाती भाजपा

अरुण पटेल

लोकसभा चुनाव में 400 पार की जुगत करने के लिए जहां भाजपा अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ाती जा रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं का पलायन भी भाजपा की ओर उसी तेजी से हो रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की न्याय यात्रा जहां-जहां से गुजर रही है वहां भी कोई न कोई बड़ा कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हो रहा है। मध्यप्रदेश में भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का अभियान छेड़े हुए हैं ताकि कांग्रेस को मैदान के साथ ही मनोवैज्ञानिक शिकस्त भी दें तथा कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं में जो हार की हताशा से उबरने की कोशिश कर रहे हैं फिर नैराश्य की वादियों में खो जायें। फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में कोई दलबदल अभी तक नहीं हुआ है लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते इसकी संभावना को नकारा भी नहीं जा सकता क्योंकि भाजपा ऐन केन प्रकारेण कांग्रेस को राजनीतिक फलक पर अप्रासंगिक करने की मुहिम छेड़े हुए है। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं व नेताओं में उम्मीद भी जाग रही है कि अब उन्हें अपनी पार्टी में कुछ मौका मिल जाये जिन्हें नेताओं की गणेश परिक्रमा न करने के कारण कोई मौका नहीं मिल पाता था। कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की है उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल और अभी तक सबको चुनाव लड़ाने वाले और राज्यसभा के माध्यम से सांसदी का लाभ लेने वाले के. सी.वेणुगोपाल को भी अब लोकसभा चुनाव लडना होगा। इस प्रकार कुछ और कांग्रेस नेताओं की अग्नि परीक्षा अब चुनाव में हो सकती है जो अभी तक चुनाव से बचते रहते थे। मध्यप्रदेश में कांग्रेस के एक बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी ने आज अपने अधिकांश समर्थकों के साथ भाजपा में प्रवेश कर लिया है। जो लोग भाजपा में शामिल हुए हैं उनमें इंदौर के पूर्व कांग्रेसी विधायक विशाल पटेल, संजय शुक्ला और पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और अब कांग्रेस नेता बने अर्जुन पलिया, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष रहे आलोक चंसोरिया, भोपाल नगर पालिक निगम के सभापति रहे कैलाश मिश्रा तथा योगेश शर्मा, अतुल शर्मा, सुभाष यादव, दिनेश ढिमोले, जसपाल सिंह अरोरा शामिल हैं। इस अवसर पर सुरेश पचौरी ने कहा कि भगवान श्रीराम जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा था जिसके निमंत्रण पत्र को अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर जब ठुकरा दिया गया तब मुझे आघात पहुंचा, मैं अयोध्या में राम मंदिर का पक्षधर आरंभ से रहा हूं, निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं स्वामी शंकराचार्य स्वरुपानंद का दीक्षित शिष्य हूं मुझे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भेजा कि जाओ शंकराचार्य जी से पूछ कर आओ कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में शिलान्यास हो और मंदिर बने। सितम्बर 1999 में राजीव जी ने जवाब दिया कि तदानुसार काम हो फिर हम तत्कालीन गृहमंत्री बूटासिंह के साथ गये और वहां शिलान्यास किया। वहां अशोक सिंघल जी भी थे, फिर अब निमंत्रण पत्र अस्वीकार करने की आवश्यकता कहां से पड़ गयी। राम मंदिर का ताला खुलना, शिलान्यास होना किसके कार्यकाल में हुआ यह बोला जा सकता था।

भाजपा में उपरोक्त नेताओ को शामिल करने के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन वास्तव में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। वैसे तो सबको आहट थी कि जहां-जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां कांग्रेस के काम करने के तरीके का असर आता है। अच्छे स्थापित स्वच्छता के साथ राजनीति करने वाले, मन की भावनाओं के आधार पर काम करने वाले नेता हर दल के अंदर होते हैं लेकिन साफ-सुथरी राजनीति करने वालों को काम करने की अनुकूलता देना, मौका देना, यह नेतृत्व पर निर्भर करता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे स्वच्छता व साफ सोच के साथ राजनीति करने वाले नेता जो देश के विकास के लिए राजनीति करते हैं ।

प्रश्नों की उमड़-घुमड़ का अंतरव्यूह

पंकज शर्मा

पिछले हफ्ते मैंने टीवी बहसों में भाजपा के हर प्रवक्ता से पूछा कि 12 लाख मतदान केंद्रों में से हर एक पर 370 अतिरिक्त वोट का मतलब क्या होता है, इसका हिसाब जानते है? क़रीब 44 करोड़ अतिरिक्त वोट। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कुल मिला कर तक़रीबन 23 करोड़ वोट मिले थे। उन में 44 करोड़ अतिरिक्त वोट जुडने का मतलब है कि 2024 में भाजपा के 67 करोड़ वोट। इसका अर्थ है कुल मतदान के 70 फ़ीसदी वोट भाजपा पाए। पिछले चुनाव में भाजपा को 37.7 प्रतिशत वोट मिले थे। तो क्या 2024 में उस के मतों में 32 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा हो जाएगा?

यह तो तय है कि 2024 में नरेंद्र भाई मोदी अपनी भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटों के आंकड़े पर नहीं पहुंचा पाएंगे। मगर इस से भी बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी अपनी कांग्रेस को किस आंकड़े तक पहुंचा पाएंगे? ज़मीनी हालात ऐसे लग रहे हैं कि इन गर्मियों में स्पष्ट बहुमत के 272 अंक तक पहुंचने में भाजपा के पसीने छूट जाएंगे। मगर क्या धरती पर वे अंकुर फूट रहे हैं, जो इंडिया समूह को स्पष्ट बहुमत के अंक तक पहुंचा दें?

मतदाताओं का बहुमत भले ही %मोशा-भाजपा' के चंगुल से आज़ाद होने को छटपटा रहा हो, मगर क्या समूचे विपक्ष और ख़ासकर कांग्रेस की सांगठनिक तैयारियों में चुनाव-आरोहण की कोई ताब दिखाई दे रही है?

यह तो साफ़ है कि नरेंद्र भाई भीतर-ही-भीतर घबराए हुए हैं। पिछले दो-तीन महीनों से उन की देह-भाषा में विचलन है और वे छद्म साहस ओढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उन के शब्द-प्रवाह में बिखराव है और इसलिए वे मोदी की गारंटी' की तलैया फांद कर गारंटी-की-गारंटी' जैसे बेमतलब के समंदरी-आख्यान गढने में लगे हुए हैं। चाहे जिस को अपने नाम पर चुनाव जिता लाने का क़रिश्मा गल कर बह जाने का अहसास उन्हें हो गया है, इसलिए कई मौजूदा सांसदों को इस बार उम्मीदवार बनाने की उन की हिम्मत नहीं पड़ रही है और कइयों को उम्मीदवार नहीं बनाने का हौसला भी वे नहीं जुटा पा रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की घनघोर हसरत ने उन की वैचारिक प्रतिबद्धता को ऐसा स्खलित कर दिया है कि वे सब कुछ भूल कर चाहे जिस का आलिंगन करने को अधीर हो गए हैं।

चुनाव जीतने की व्याकुलता ने नरेंद्र भाई को इतना अस्थिर-चित्त कर दिया है कि वे अपनी पैदल-सेना पर बिना सोचे-समझे अजीबोगरीब लक्ष्य लाद रहे हैं। देश भर के हर मतदान केंद्र पर इस बार भाजपा को 370 अतिरिक्त वोट दिलाने का उन का प्रयोजन कितना अव्यावहारिक है, या तो हड़बड़ाहट के दौर ने उन्हें यह सोचने ही नहीं दिया या फिर वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ-साथ देश की जनता को भी इतना मूढ़ समझ बैठे कि उन्हें लगा कि सब उन के इस उद्देश्य-आसव का पान आंख मूंद कर लेंगे।

हर बूथ पर 370 अतिरिक्त वोट का जुमला नरेंद्र भाई के लिए रायसीना पर्वत के रेतीले हो जाने का सब से बड़ा सबूत है।

ट्रैफिकिंग के क्षेत्र में अब हो रहा है आधुनिक तकनीक का प्रयोग

डॉ0 मुमताज खान

जैसे-जैसे आधुनिक संचार माध्यमों के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है उसी प्रकार ट्रैफिकिंग के तौर-तरीकों में भी तेजी परिवर्तन हैकर्स द्वारा किये जा रहे है। बदलते परिवेश, बदलते समय में ट्रैफिकिंग का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। वर्तमान समय में पारम्परिक ट्रैफिकिंग के स्वरूप में अब तेजी से जो बदलाव आयें है उसके कारण शिक्षित तकनीकी ज्ञान से युक्त लोगों का ट्रैफिक होना एक आम बात हो गयी है। पहले बाल श्रम, बाउण्डेड लेबर, सेक्स वर्कर आदि के लिए ट्रैफिकर्स द्वारा ट्रैफिकिंग की जाती रही है लेकिन अब जो बच्चे या व्यकित एमबीए, एमसीए, बी-टेम, एम-टेक जैसे तकनीकी स्नातक या परास्नातक लोगों को जॉब का अथवा नौकरी का आफ र देकर उन्हें आकर्षित किया जा रहा है और अलग-अलग वेबसाइट के माध्यम से उन्हें अच्छा पैकेज देने के लिए प्रेरित करते हुए अपने-अपने देशों में उन्हें आमंत्रित भी किया जा रहा है। जब शिक्षित तकनीकी ज्ञानयुक्त व्यक्ति ऐसे विज्ञापनों को वेडसाइट के माध्यम से हासिल करता है तो वह उस नौकरी के आकर्षण में उलझकर विदेश जाने की लालसा पाल लेता है। बड़े-बड़े हैकर्स इस इस योजना में बेरोजगारों को उलझाकर फ्लाईट का टिकट प्रदान करते हुए अपने देश में उन्हें अपने देश में आमंत्रित कर लेते है और ऐसा प्रायः देखने और सुनने में आ रहा है। इस प्रकार विदेश में नौकरी की चाहत रखने वाला व्यक्ति उनके मकड़ जाल में फँसकर

तरह-तरह के असंवैधानिक कार्यों में लिप्त हो जाता है जिसकी जटिलता इतनी मजबूत होती है कि वह चाहकर भी इसके मकड़ जाल से बाहर निकल पाने में अपने आपको आसमर्थ हो जाता है।

साईबर क्राइम का यह एक नया स्वरूप है जिसमें धोखा देकर नौजवानों को उलझाकर उनकी दक्षता का नाजायज फायदा उठाते हुए साईबर क्राइम के कार्यों में फँसा लेता है। हर वर्ष बड़ी संख्या में दूर देशों में बैठा साईबर क्राइम करने वाला व्यक्ति इन नौजवानों का अपने कार्य कराने के लिए विवश कर देता है। अपने देश की माटी से दूर देश समुन्द्र पार के देश में बेरोजगार भोला-भाला युवक जब तक यह समझ पाता कि वह इतने बड़े क्राइम का एक मजबूत स्तम्भ है तब तक समय हाथ से फिसल जाता है। यह ट्रैफिकिंग विशेष तौर से वयस्क लोगों के लिए ही किया जाता है जहाँ चाइल्ड लेबर जैसा प्रकरण लगभग शून्य हो जाता है और एक प्रकार से वह व्यक्ति बाण्डेड लेबर की श्रेणी में आकर उसी देश में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए समय की स्थितियों से जूझता रहता है। हालांकि भारत में बाण्डेड लेबर के कठोर विधिक कानून है लेकिन बेरोजगार युवा वहाँ अनेक विसंगतियों में उलझकर साईबर क्राइम को अन्जाम देने में विवश होकर कार्य करता रहता है। इस तरह प्रकार की वेबसाइट जिनके माध्यम से ऐसे होनहार युवकों छला जा रहा हो तब आवश्यकता इस बात की है कि इन सबके विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के लिए संबंधित विभाग को सक्रिय होना होगा। एक अनुमान के अनुसार विदेशों में बैठा हैकर्स इतना शक्तिशाली रहता है कि पल भर में अपनी वेबसाइट को बदल देता है और ऐसे साजिशकर्ता पर कोई त्वरित कार्यवाही हो पाने में संबंधित विभागों को जूझना पड़ता है। भारत में लागू साईबर क्राइम टेक्नालॉजी एक्ट लगभग 23-24 वर्ष पुराना है जिसमें बहुत कुछ किये जाने की महती आवश्यकता है। हर रोज इन क्रिमिनल्स के कार्य स्वरूप में हो रहे तेजी से बदलाव से भारत का साईबर क्राइम ब्रॉच सम्भवतः सक्रिय और प्रभावी कार्य करने की दिशा में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पा रहा है अभी भारत की साईबर क्राइम टेक्नॉलाजी और इसके विधिक तौर-तरीकों में एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है जिसमें ट्रैफिकिंग जैसे प्रमुख अंग को भी सम्मिलित किये जाना आवश्यक है। ट्रैफिकिंग चाइल्ड जॉब के लिए की जाये, भारत में हो अथवा विदेशों में हो तो भी इसे एक मजबूत और प्रभावी कानून के माध्यम से इस पर अंकुश लगाये जाने की जरूरत है अन्यथा आम नागरिक साईबर क्राइम के माध्यम से ठगा जाता रहेगा और बेरोजगार युवा नौकरी और अच्छे पैकेज के लालच में भारत से बाहर जाकर उन देशों में भी ऐसा ही ठगा जाता रहेगा जैसे एक मासूम व्यक्ति जानकारी के अभाव में साईबर क्राइम के शिकंजों में फँसता जा रहा है।

आस्था और अध्यात्म के रंग में डूबी तीर्थ नगरी नैमिष

■तपोभूमि पर गूँजा दे तड़ा-तड़ सीताराम का उद्घोष
■घण्टा-घड़ियाल और शंख-ध्वनि के जयघोष के बीच परिक्रमा शुरू
■हाथी, घोड़ा, पालकी व लग्जरी वाहनों से परिक्रमा कर रहे संत-महंत

सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। आदि गंगा गोमती के पावन तट पर स्थित तीर्थ नगरी नैमिषारण्य की विश्वविख्यात चौरासी कोसीय परिक्रमा का सोमवार को भव्य शुभारम्भ हुआ। पहला महंत के डंका बजाते ही देश-विदेश से आये लाखों श्रद्धालु और संत-महंत हाथी, घोड़ा, पालकी, लग्जरी वाहनों और अखाड़ों के साथ परिक्रमा की डगर पर निकल पड़े। परिक्रमा के दौरान साधु-संत घण्टा-घड़ियाल और शंख-ध्वनि के बीच 'दे तड़ा-तड़ सीताराम' का उद्घोष करते चल रहे थे। इस दौरान तीर्थ नगरी नैमिषारण्य आस्था और अध्यात्म के रंग में डूबी नजर आयी। परिक्रमा के शुभारम्भ पर देश-विदेश से आये साधु-संतों, पीठाधीश्वरों पर पुष्पवर्षा की गयी। चौरासी कोसीय परिक्रमा का मुख्य आकर्षण प्रशासन की ओर से तैयार किया गया रथ और नागा साधु रहे। परिक्रमा शुरू होने से पहले संतों और श्रद्धालुओं ने नैमिष के चक्रकुण्ड तीर्थ पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाया, तत्पश्चात परिक्रमा समिति अध्यक्ष और पहला महंत नारायण दास ने डंका बजा कर लाखों श्रद्धालुओं को परिक्रमा के पहले पड़ाव कोरौना के लिये रवाना किया। परिक्रमा में करीब पाँच लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। शाम तक लाखों परिक्रमार्थी कोरौना पहुँच कर विश्राम कर रहे हैं। परिक्रमा में देश भर के विभिन्न अखाड़ों से लेकर साधु-संत, साध्वियाँ तथा श्रद्धालु आये हुए हैं। पड़ोसी देश नेपाल से करीब पाँच हजार श्रद्धालुओं का जत्था साधु-संतों के नेतृत्व में कल रात को ही नैमिषारण्य आ चुका था। मध्य प्रदेश के जबलपुर, भोपाल, सतना, टीकमगढ़, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल से भी बड़ी तादात में श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ जय श्रीराम का उद्घोष करते हुए परिक्रमा में चल रहे हैं। इन परिक्रमार्थियों का कहना है कि चौरासी कोसीय परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस परिक्रमा को पूरा करने से जहाँ मन को शांति मिलती है, वहीं सभी मनोकामनायें भी पूरी होती हैं। सीतापुर जनपद के अलावा पड़ोसी जिला लखीमपुर खीरी, हरदोई, शाहजहाँपुर, बाराबंकी, कानपुर, कन्नौज, उरई जालौन, पीलीभीत, बरेली, झांसी, बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल, ब्रज क्षेत्र के भी हजारों श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ नंगे पांव परिक्रमा कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के हजारों लोग सिर पर पोटली रख कर तो तमाम लोग साइकिलों पर सामान लाद कर परिक्रमा में चल रहे हैं। समिति के अध्यक्ष महंत नारायण दास ने बताया कि इस चौरासी कोसीय परिक्रमा का पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्व है। परिक्रमार्थियों को रामादल भी कहा जाता है। चौरासी कोसीय परिक्रमा सदियों पुरानी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम सहित अन्य देवी देवताओं ने भी चौरासी कोसीय परिक्रमा की थी। इस परिक्रमा में देश भर के अलावा विदेशों से भी बड़ी तादात में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। महंत नारायण दास ने यह भी बताया कि रामादल चौरासी कोसीय परिक्रमा पूरी करने के बाद नवमी के दिन नैमिषारण्य पहुँचेगा, जहाँ साधु-संतों व श्रद्धालुओं के लिये पहला आश्रम सहित नैमिष के अन्य आश्रमों में विशाल भण्डारे का भी आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि इस बार शासन के निर्देश पर प्रशासन ने परिक्रमार्थियों की सुविधा के लिये हर सम्भव प्रयास किये हैं।

मुस्लिम समाज के लोगों ने साधु संतों पर बरसाए फूल

मिश्रिख-सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। 84 कोसी परिक्रमा मेले में शामिल साधु संतों का औरंगाबाद के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल बरसा कर जोरदार स्वागत किया। सर पर जालीदार टोपी और गले में गमछा डाले मुस्लिम समाज के लोगों ने साधु संतों का स्वागत कर रामादल का दिल जीत लिया। औरंगाबाद गांव में परिक्रमार्थियों के स्वागत के लिए एक दिन पहले से ही कमाईपुर स्थित पंचायत भवन पर पंडाल लगाकर खाने-पीने की व्यवस्था की गई थी। चाय नाश्ता व फल के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। औरंगाबाद गांव के समाजसेवी आकिफ रब्बानी के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने परिक्रमा पथ पर चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह व्यवस्था की, परिक्रमार्थियों पर पुष्प वर्षा की गई। गैर समुदाय द्वारा अपना स्वागत और सम्मान देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए, जिस तरह मुस्लिम समाज ने भाईचारे का संदेश दिया है, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता। बनगंड़ महंत संतोष दास खाकी रथ से उतरकर पंडाल के भीतर पहुंचे जहां पर आकिफ रब्बानी ने उन्हें अंग वस्त्र भेंट कर व माला पहनाकर स्वागत किया। इसके अलावा पहला आश्रम के महंत नारायण दास का माला पहनाकर व अंग वस्त्र भेट कर सम्मान किया गया। राह से निकलने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रधान नफीस अहमद, वसीर अहमद, मोहर्रम अली, आजाद खां, मुमताज शाह, शहनवाज बेग इदरीश सहित अन्य लोग शामिल हुए।

सीतापुर में पुलिस प्रशासन चुस्त, आवाम दुरूस्त

■सीएए लागू होने के बाद सतर्क हुए एसपी चक्रेश
■मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पुलिस ने की परेड

सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। सोमवार की शाम पुलिस प्रशासन बेहद चुस्त रहा। शहर के लोग हर दिन की तरह अपने कामों में व्यस्त रहे। पुराने सीतापुर के विभिन्न मोहल्ले में शाम के वक्त का माहौल उसी तरह बना रहा जैसे हर दिन का रहता है। सड़कों पर भीड़ इसी लिए अधिक रही क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग रमजान की खरीददारी के लिए बाजार निकले। पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में परेड कर शांति व्यवस्था बनाये रखने की अपील लोगों से की। हालांकि सीतापुर में आवाम पूरी तरह दुरूस्त रही। किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था कि सीएए कानून लागू हो गया है। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने की सुगबुगाहट को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस सोमवार की दोपहर से अलर्ट मोड पर आ गई। जिम्मेदार अफ्सर संवेदनशील स्थलों पर पहुंचे और पुलिस की टीमों ने मिश्रित आबादी में फ्लैग मार्च निकाला। शाम को नागरिक संशोधन कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद जिले की पुलिस ने संवेदनशील स्थलों पर बारीकी से नजर रखना शुरू कर दिया है। कानून को लेकर कोई अराजकता न फैले इसको लेकर खुफिया तंत्र भी अलर्ट मोड पर है। शहर में फ्लैग मार्च के दौरान सीओ सिटी अमन सिंह व शहर कोतवाल अनूप शुक्ला ने लोगों से भ्रम से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भीड़ को भड़काने का प्रयास कर रहा है तो पुलिस को उसकी जानकारी दे। शहर में सीओ सिटी अमन सिंह के नेतृत्व में शहर कोतवाल व सभी चौकी प्रभारियों ने पुराने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। महोली और पिसावां में क्षेत्राधिकारी अरूण कुमार सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने कदम ताल की। बिसवां में सीओ उदयराज सिंह व इंस्पेक्टर सिंह ने संवेदनशील स्थलों का जायजा लेकर पुलिस बल के साथ रूट मार्च निकाला। इसके अतिरिक्त लहरपुर में सीओ सुशील यादव व इंस्पेक्टर मुकुल प्रकाश वर्मा पुलिस बल के साथ सड़कों पर निकले। इसके अतिरिक्त नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद जिले भर में पुलिस ने चौकसी बढ़ाई है। संवेदनशील स्थलों पर पुलिस के जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई है।

जाति धर्म पूछ कर मुस्लिम युवक पर बरसाये हॉकी डंडे

■कनपटी पर देशी तमंचा लगा कर बीच सड़क किया बेइज्जत
■घर घुस कर औरतों को किया अपमानित, हवाई फायरिंग का भी आरोप

सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। महोली कोतवाली इलाके में दबंगों ने मुस्लिम युवक को रास्ते में घेर लिया और जाति धर्म पूछ कर उस पर हॉकी डंडे बरसाने शुरू कर दिये। युवक की कनपटी पर देशी तमंचा लगा कर उसे बीच सड़क बेइज्जत किया। युवक जैसे ही अपने घर पहुंचा दबंग भी वहां आ धमके और घर में घुस कर परिवार की महिलाओं को बेइज्जत करना शुरू कर दिया। बाद में हवाई फायरिंग कर दबंग मौके से भाग गये। इस संबंध में पीड़ित ने चार नामजद व दस अज्ञात के खिलाफ महोली कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। महोली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बेरिहया निवासी मुसाफिर पुत्र मुस्ताक का कहना है कि वह कल शाम चार बजे बाजार से घर जा रहा था। तभी रास्ते में ललहुआ गांव में क्षेत्रीय दबंग मुन्ना सिंह, सचिंदर सिंह पुत्रगण रजिंदर सिंह, बड़कऊ सिंह पुत्र सुरेश तथा कल्लू पुत्र धीर सिंह ने उसे रोक लिया और जाति धर्म पूछने लगे जब उसने बताया कि वह मुस्लिम है तो चारों दबंगों ने उस पर हॉकी डंडों से हमला बोल दिया। कल्लू व सचिंदर ने उसकी कनपटी पर देशी तमंचा लगा कर बीच सड़क बेइज्जत करना शुरू कर दिया। पिटाई के बाद जब वह अपने घर पहुंचा तो पीछे से आठ-दस अन्य लोग देशी तमंचों से लैश होकर आ गये और परिवार की महिलाओं के साथ अभद्रता व गाली गलौज शुरू कर दी। धमकाने के बाद दबंग हवाई फायरिंग करते हुए मौके से भाग गये और यह धमकी भी दे गये कि यदि गांव छोड़ कर नहीं गये तो उसे जान से मार देंगे। पीड़ित मुसाफिर ने महोली कोतवाली में आरोपियों के विरूद्ध तहरीर दे दी है। पुलिस ने मुसाफिर की तहरीर पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 294, 323, 504, 506, 336 के तहत केस दर्ज कर लिया है।

सरकारी मुलाजिम पर भारी पड़ी प्रधान की दबंगई

■मना करती रही प्रधानाध्यापिका नहीं माने प्रधान हरिनाम
■सरकारी स्कूल में प्रधान ने बार बालाओं का कराया फूहड़ डांस

अटरिया-सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। सरकारी स्कूल में टेंट लगा कर बार बालाओं का फूहड़ डांस कराने वाले प्रधान की दबंगाई सरकारी मुलाजिम पर भारी पड़ती दिख रही है। खंड शिक्षाधिकारी सिधौली ने इस मामले में प्राथमिक विद्यालय उनई की प्रधानाध्यापिका से जवाब तलब कर लिया है। हकीकत यह है कि प्रधानाध्यापिका स्कूल में टेंट आदि लगाये जाने का विरोध करती रही पर दबंग प्रधान हरिनाम ने उसकी एक न सुनी। प्रधानाध्यापिका की नादानी यह रही कि उसने प्रधान की बेजा हरकत को लेकर विभागीय उच्चाधिकारियों को पत्राचार नहीं किया। मामले ने तूल पकड़ा तो शिक्षा महकमा प्रधानाध्यापिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। फिलहाल कार्रवाई से कोसो दूर प्रधान कार्यक्रम कराने में व्यस्त है। विकास खण्ड सिधौली के प्राथमिक विद्यालय उनई के प्रांगण में तीन दिवसीय मेले के तहत पंडाल लगा कर आठ मार्च से सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर पुलिस की अनुमति लिए बिना बार बालाओं से अश्लील गानों पर फूहड़ नृत्य कराया गया।

शनिवार रात नशेबाजी में विवाद भी हुआ। रविवार शाम कुछ लोगों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस संबंध में खण्ड शिक्षाधिकारी सिधौली संजय कुमार ने बताया कि मौके की जांच करने पर स्कूल के अंदर मेला होना पाया गया। इस संबंध में प्रधानाध्यापिका शैल बाला व ग्राम प्रधान ज्ञानवती से दो दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अटरिया थाना प्रभारी रोहित दुबे ने बताया जांच-पड़ताल की जा रही है, शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा।

होली और रमजान पर जगमगायेंगी लहरपुर की सड़के

■नगर पालिका परिषद लहरपुर की बोर्ड बैठक में आय व्यय बजट पारित
■बोर्ड के समक्ष ईओ ने रखा गत वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा

लहरपुर-सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। होली और रमजान पर्व पर नगर की विधिवत सफाई व्यवस्था को लेकर निकाय की बोर्ड बैठक में अहम फैसला लिया गया। नगर की सभी सड़कों के अलावा छोटी-बड़ी गलियों को स्वच्छ बनाये रखने के लिए पालिका अभियान चलायेगी और पर्याप्त सफाई उपकरण खरीदे जायेंगे। ईओ की देख-रेख में सभी मार्गों पर पालिका सफाई कर्मियों की टीम स्वच्छता अभियान को सफल बनायेगी। बोर्ड बैठक में 39 करोड़ 82 लाख 61 हजार 358 रुपये की अनुमानित आय का बजट पेश हुआ। जबकि गत वर्ष हुई वास्तविक आय व व्यय को अधिशासी अधिकारी अनुरूद्ध पटेल ने बोर्ड के समक्ष रखा। नगर पालिका परिषद लहरपुर की बोर्ड बैठक अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद की अध्यक्षता में हुई। बोर्ड बैठक में मनीष शुक्ला, हकनवाज, मो. मोईन खां ने प्रस्ताव रखा कि सफाई कर्मचारी बढ़ाये जाये। ठेलिया, ई-रिक्शा आदि सफाई उपकरण क्रय किये जाये। जिसका सभी सदस्यों ने समर्थन किया। सभासद रहमत अली, लल्लन खां, मो. सुएब, मोहसिना खातून ने रमजान व होली पर प्रकाश व्यवस्था के लिए एलईडी स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिक, बल्ब डिवाइडर हेतु 120 वाट की एलईडी, तार, केबिल, होल्डर मंगवाये जाने पर जोर दिया। नाजरीन बानो व मो. शोएब ने प्रस्ताव रखा कि पालिका के तालाबों का सौंदर्यीकरण कराया जाये। जिस पर बोर्ड ने अपनी सहमति की मुहर लगाई।

रोजगार सेवकों का परिवार करेगा मतदान का बहिष्कार

सकरन-सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। सकरन विकास क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के धरातल पर सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रोजगार सेवकों को बीते 9 माह से मानदेय न मिल पाने के कारण अब उन्हें परिवार का भरण पोषण करने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सकरन ब्लॉक रोजगार सेवक संगठन के अध्यक्ष रामचंद्र वर्मा के साथ बड़ी संख्या में रोजगार सेवकों ने बताया कि वह मनरेगा के साथ ही सरकार की तमाम अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में सतत कार्य करते हैं। उन्हें प्रतिमाह 7800 रुपये मानदेय मिलता है, लेकिन शासन तंत्र की उनके प्रति अनदेखी के चलते बीते 9 माह से उन्हें जीवन यापन के लिए मिलने वाला अल्प मानदेय भी उन्हें नहीं मिल पाया है। ऐसे में अब उनके परिवार को अपनी तमाम जरूरतों को पूरा करने में अत्यंत कठिनाई हो रही है। रोजगार सेवकों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि आगामी होली के त्यौहार तक उनका पूरा बकाया मानदेय उन्हें नहीं दिया गया तो उनके परिवार मजबूर होकर मतदान का बहिष्कार करेंगे।

जनता को मोदी-योगी सरकार पर पूरा भरोसाः राजेश वर्मा

■सांसद निधि से महमूदाबाद में हुए सबसे ज्यादा विकास कार्य
■अगले कार्यकाल में बाईपास तक ओवरब्रिज निर्माण का किया वादा

महमूदाबाद-सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। सांसद निधि से सबसे ज्यादा कार्य महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र में कराए गए। अगले कार्यकाल में लखनऊ मार्ग से फतेहपुर मार्ग को जोड़ने वाले बाईपास तक ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। यह बात सांसद राजेश वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अपने दो कार्यकाल पूर्ण होने पर मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट में लोगों को सम्बोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि तीस वर्षो तक महमूदाबाद उपेक्षित रहा। सभी मुख्य मार्ग जर्जर थे, सड़कों की हालत खस्ता थी। हमने संकल्प लिया था कि महमूदाबाद में शपथ ग्रहण होते ही विकास कार्य होने लगेगा। एनएच 727, महमूदाबाद-सिधौली मार्ग पर उपरिगामी सेतु, दो विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना, सोलर लाइटें, जरूरतमंद मरीजों को प्रधानमंत्री कोष से सहायता राशि, बाढ़ से बचाव के लिए स्टड निर्माण, महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र में 128 सड़कों का नवनिर्माण व उच्चीकरण किया गया। जाम की समस्या को देखते हुए सिधौली-महमूदाबाद मुख्य मार्ग पर ओवरब्रिज का निर्माण, महमूदाबाद-फतेहपुर मार्ग पर बाईपास का निर्माण, नूरपुर शारदा सहायक नहर पर 40 करोड़ की लागत से पुल निर्माण की स्वीकृति कराई गई है। अगले कार्यकाल में लखनऊ मार्ग स्थित रेलवे क्रासिंग से फतेहपुर बाइपास मार्ग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण प्राथमिकता पर कराया जाएगा। जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश शुक्ल ने कहा कि भाजपा ने जाति, संप्रदाय और परिवारवाद को खत्म कर राष्ट्रवाद व विकासवाद की भावना लोगों के दिलों में पैदा की। जनता भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र व प्रदेश सरकारों पर पूरा भरोसा कर रही है। आयोजक व कॉलेज के सचिव डॉ. अम्मार रिजवी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय केंद्र व प्रदेश सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ चुस्त-दुरुस्त कानून व्यवस्था से काफी प्रभावित है और उन सबका समर्थन भाजपा को मिल रहा है। कार्यक्रम में मां संकटा देवी धाम समिति अध्यक्ष आरके बाजपेयी, रामकुमार वर्मा, संतोष सिंह, मोहन प्रसाद बारी, चक्र सुदर्शन पांडेय, अनिल यादव, उदित बाजपेयी, संजय वर्मा, रमाशंकर सिंह, सर्वेंद्र विक्रम सिंह, राम प्रवेश प्रजापति, राजेश सिंह, राहुल सिंह सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। संचालन विद्यालय की प्रवक्ता डा. शशिप्रभा ने आभार प्रदर्शन प्राचार्या डा. विभा मिश्रा ने किया।

मंडी में लाये उपज, पाये योजनाओं का लाभः शिखा शुक्ला

■चार उत्कृष्ट किसानों को एसडीएम ने उपहार से नवाजा

महमूदाबाद-सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। किसान अपने उत्पाद और उपज को अधिक से अधिक मंडी समिति तक लाकर बिक्री करें और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें। उपज की बिक्री के संदर्भ में यदि कोई दिक्कत आती है तो मुझे या मंडी सचिव को तत्काल अवगत कराएं उनका त्वरित निस्तारण किया जाएगा। यह बात स्थानीय कृषि उत्पादन मंडी समिति में मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत क्षेत्र के चार उत्कृष्ट किसानों को उपहार वितरित करते हुए उपजिलाधिकारी शिखा शुक्ला ने कही। उपहार वितरण कार्यक्रम के संदर्भ में मंडी सचिव ऋषभ जैन ने बताया कि किसानों की उपज की बिक्री पर कटे सिक्स आर के बाद मिले कूपन के आधार पर मण्डल स्तर से तय हुए मुख्यमंत्री कृषक उपहारों में खेंदौरा निवासी शत्रोहन लाल को मिक्सर ग्राइंडर, अरुण शंकर अवस्थी बिसवां को पम्पिंग सेट, न्यामतपुर लबराह निवासी जुगुल किशोर व मीरानगर निवासी राजेश कुमार को सोलर संयंत्र चयनित होने पर उपहार के रूप में दिए गए। इस मौके पर मंडी निरीक्षक नरेश चन्द्र पांडेय, फूल सिंह, प्रेम प्रकाश मौर्य, बनवारी लाल, प्रधान लिपिक सहित दर्जनों किसान व व्यापारी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त आवाज़

बाइकों की भिड़ंत में एक की मौत, दो घायल

सकरन-सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। सकरन थाना क्षेत्र के बिसवां-मतुवा रोड पर बलबलपुरवा के पास आमने-सामने दो बाइकों की भिड़ंत से जहां एक की मौत हो गई वहीं दो गम्भीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे बबलू उम्र 46 वर्ष पुत्र बछरू निवासी मातुवा सौरैया थाना लहरपुर अपनी बाइक से आशुरुन निशा के साथ मतुआ से बिसवां को दवा लेने जा रहे थे तभी उनकी बाइक सामने से आ रहे लवकुश पुत्र रामप्रसाद निवासी गोड़ियनपुरवा की बाइक से भिड़ गई। इस हादसे में तीनों गम्भीर रूप से घायल हो गए। जिन्हे एंबुलेंस 108 से सीएचसी सांडा लाया गया। जहां डाक्टर दीपांशू शुक्ला व पीसी यादव ने बबलू को मृत घोषित कर दिया और लवकुश व आशुरुन निशा को प्राथमिक उपचार के बाद गम्भीर हालत देखते हुए जिला मुख्यालय रेफर कर दिया गया। इस संबंध में एसएचओ दिग्विजय पांडेय ने बताया कि दोनों मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली गई हैं। मृतक का पंचनामा भरकर पीएम के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया है।

तीन दिन बाद भी हिस्ट्रीशीटर तक नहीं पहुँचे खाकी के हाथ

■आधी रात घर घुस कर किया था युवती से दुष्कर्म का प्रयास

सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। नैमिषारण्य थाना इलाके में शुक्रवार की आधी रात घर घुसे हिस्ट्रीशीटर ने युवती से दुष्कर्म का प्रयास किया। रात एक बजे दीवार कूद कर घर में घुसे हिस्ट्रीशीटर की बेजा हिमाकत पर जब युवती ने शोर मचाया तो उसने जान से मारने की धमकी भी दी। आरोप है कि इस दौरान जगे युवती के भाई की हिस्ट्रीशीटर ने पिटाई भी की थी। प्रकरण में शनिवार को थाने पहुंची पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया है। तीन दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ हिस्ट्रीशीटर के गिरेबान तक नहीं पहुंच सके है। बताते चले कि नैमिषारण्य थाना इलाके की रहने वाली युवती ने गांव के ही हिस्ट्रीशीटर अलाउद्दीन पुत्र जलाउद्दीन पर आरोप लगाया है कि वह शुक्रवार की रात वह दीवार कूद कर घर दाखिल हुआ और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास कर डाला। युवती ने शोर मचाया तो उसका भाई व माँ भी जाग गई। अलाउद्दीन को घर में देख जब युवती ने भाई ने विरोध किया तो उसने पिटाई कर दी। पुलिस ने युवती की शिकायत पर हिस्ट्रीशीटर अपराधी अलाउद्दीन के विरूद्ध आईपीसी की धारा 458, 354, 323, 504, 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है।

जनता तक पहुंचाएं शासकीय योजनाएंः महेंद्र

सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। भाजपा नगर-2 की बैठक सोमवार को कैंप कार्यालय तरीनपुर में हुई। मुख्य अतिथि के तौर पर विधान सभा क्षेत्र संयोजक शैलेष महेंद्र व विस्तारक राजीव सिंह मौजूद रहे। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष श्रीप्रकाश सिंह व संचालन अनीत मिश्र ने किया। बैठक को सम्बोधित करते हुए संयोजक शैलेष महेंद्र ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी कार्यकर्ता अपने-अपने बूथ पर जाकर लाभार्थियों से संपर्क करें और केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि मोदी-योगी सरकार ने जनता के हित में कार्य किया और सभी को इसका लाभ मिल रहा है। बैठक में पिछड़ा वर्ग के जिला महामंत्री अशोक राठौर, नगर उपाध्यक्ष विनोद त्रिपाठी, राकेश गुप्ता पिंकू, विजय शुक्ला, संदीप अवस्थी, संतोष शुक्ला, पंकज अवस्थी, मनीष पांडेय, संजय शुक्ला, ऋषभ त्रिवेदी, शशि सिंह, लालता शाह, श्याम लाल कनौजिया, विजय बाल्मीकि, रिजवान अहमद, श्रीकृष्ण मिश्र, आकाश राय, आशुतोष दीक्षित आदि मौजूद रहे।

महेंद्र वर्मा की द्वितीय पुण्यतिथि पर आज होगी श्रद्धांजलि सभा

महमूदाबाद-सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष स्व. महेंद्र सिंह वर्मा की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर उनके पैतृक ग्राम पोखराकलां में सुबह 10 बजे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग राम अकबाल शिवरानी महाविद्यालय में लगी उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्पार्चन कर आयोजित शांति हवन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यह जानकारी पूर्व मंत्री विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने दी।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार प्राथमिकताः सिमी निगार

महमूदाबाद-सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। ब्लॉक संसाधन केंद्र महमूदाबाद में नवागत बीईओ सिमी निगार ने कार्यभार ग्रहण किया। बीईओ उदय मणि पटेल का स्थानांतरण रामपुर मथुरा ब्लॉक में होने के कारण महमूदाबाद में बीईओ का पद रिक्त चल रहा था। नवागत बीईओ के कार्यभार ग्रहण करने पर शिक्षक संगठनों और शिक्षक-शिक्षिकाओं ने बधाई दी। विकास खण्ड महमूदाबाद में सोमवार को खण्ड शिक्षा अधिकारी सिमी निगार ने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना, शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना, ब्लॉक को निपुण ब्लॉक बनाना, अच्छा कार्य करने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं को प्रोत्साहित करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। शिक्षक-शिक्षिकाएं समय से विद्यालय पहुंचें और जिम्मेदारी से शिक्षण कार्य करें।कार्य में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पदभार ग्रहण करने पर बीईओ को प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष हंसराज वर्मा, मंत्री ज्ञानेश मिश्र, आरएसएम अध्यक्ष संदीप वर्मा, मंत्री पुनीत वर्मा, एआरपी पीयूष वर्मा, विजय प्रताप सिंह, दिनेश कुमार, अभिषेक परिहार, सिराज अहमद, टीम पहल के जिला प्रभारी उमेश वर्मा, डॉ. सुशील वर्मा, डॉ.वहीदुज्जमा, शकील अहमद, जुनैद अहमद, विजय वर्मा, अनुज वर्मा, विमल वर्मा, धीरेंद्र यादव, नवीन दुबे सहित कई अन्य शिक्षक-शिक्षिकाओं ने बधाई दी।

मनरेगा मजदूरों की खाली झोली, कैसे मनेगी होली

■गाँव से पलायन करने को मजबूर है मजदूर

बेहटा-सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना गाँजर इलाके में दम तोड़ रही है। बेहटा ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में पिछले चार माह से मनरेगा मजदूरों का भुगतान न होने से उनके परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं। मनरेगा मजदूर मजबूर होकर क्षेत्र से पलायन करने को मजबूर है। ब्लॉक के 94 गांवों के करोड़ों रुपयों से अधिक की मजदूरी का भुगतान लंबित है। बेहटा ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में संचालित योजनाओं का काम पूरा होने के बावजूद भी सामग्री का भुगतान नहीं हुआ। मनरेगा मजदूरों की भी पिछले चार माह की मजदूरी बकाया है। बकाया भुगतान न होने से रोजगार सेवक व जेई की परेशानी बढ़ गई हैं। प्रधान सोहरिया त्रिभुवन लाल ने बताया कि मनरेगा मजदूरी का पांच माह से रुपया न आने के कारण मजदूर उनके घर पहुंच कर तगादा करते हैं। प्रधान प्रतिनिधि ड्योड़ेडीह दाऊद ने बताया कि 5 महीने हो रहे हैं मजदूरी नहीं मिली है। प्रधान प्रतिनिधि सुमेर संगम कुमार ने बताया कि दीपावली में मनरेगा मजदूरी आई थी तब से अभी तक पैसा नहीं आया है। यदि मजदूरी नहीं मिली तो मजदूर होली कैसे मनायेंगे। वहीं प्रधान प्रतिनिधि देवपालपुर बालकृष्ण ने बताया कि मजदूरी का भुगतान न होने से मजदूर फाकाकशी करने को मजबूर है। मनरेगा मजदूर ब्रजकिशोर, मुन्नी देवी व रामकली निवासिनी ग्राम पंचायत सोहरिया ने कहा कि उन्हें तत्काल बकाया मजदूरी उपलब्ध कराई जाये। आलोक कुमार निवासी नरना का कहना है कि वे लोग उधार लेकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं।

छात्र-छात्राओं को भाजपा जिलाध्यक्ष ने बाँटे स्मार्ट फोन

लहरपुर-सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। नगर के प्रभात राजेंद्र कुमार पूनम देवी महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्र-छात्राओं को भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ल ने निःशुल्क स्मार्टफोन का वितरण किया। उन्होंने 226 छात्र-छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित करते हुए कहा कि वे इनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्य के लिए ही करे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय संचालक पीयूष श्रीवास्तव ने की। उन्होंने मुख्य अतिथि राजेश शुक्ला को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। संचालन अमरेंद्र सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के संस्थापक, प्रबंधक राजेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि सभी अभिभावकों को चाहिए कि वह बेटो की तरह बेटियों को भी उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उदित बाजपेयी, रमेश बाजपेयी, राजेश्वर रस्तोगी, वीरेंद्र पुरी, मनमोहन गुप्ता, मनोज गुप्ता, भगवान दीन त्रिवेदी, अशोक वर्मा, सील कुमार, मीनाक्षी मिश्रा, नामित मिश्रा, मुस्कान पाधा सहित भारी संख्या में छात्र-छात्राएं एवं अभिभावक उपस्थित रहे।

एडीएम ने नवीन परती की जमीन पर हो रहे निर्माण पर लगाई रोक

सकरन-सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। ग्रामीण की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एडीएम ने नवीन परती की जमीन पर कब्जा कर मकान बना रहे लोगों के निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगवा दी है। बताते चले कि सकरन थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कल्ली के भेड़हिया के उत्तर में नवीन परती व केवानी नदी है। करीब छह माह पूर्व ग्राम भेड़हिया निवासी संतोष पुत्र बराती व श्रीराम पुत्र तेजी ने तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल अजय विश्वकर्मा की मिलीभगत से नवीन परती की जमीन पर कब्जा कर मकान बना लिया। मामले की शिकायत गांव निवासी कन्हैया ने एसडीएम लहरपुर से की। एसडीएम ने तत्काल निर्माण कार्य रूकवा दिया था। इसके बाद करीब एक सप्ताह पूर्व नवीन परती समेत नदी की जमीन पर भी कब्जेदारी कर अवैध निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। पीड़ित ने एडीएम वित्त एवं राजस्व से शिकायत की। जिसको संज्ञान में लेते हुए एडीएम ने निर्माण कार्य रूकवा दिया। इस संबंध में उपजिलाधिकारी लहरपुर आकांक्षा गौतम का कहना है कि दोनों पक्षों को थाने बुलाकर निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। बिना राजस्व विभाग की अनुमति के नवीन परती व नदी की जमीन पर निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता। मौके पर शांति व्यवस्था बहाल की गई है। न्यायालय के आदेश के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

पाँच दर्जन बच्चों को किया पुरस्कृत

महमूदाबाद-सीतापुर (स्पष्ट आवाज़)। विकास खंड पहला के समस्त संकुलो के निपुण हुए पांच दर्जन बच्चों को 'बच्चे हमारा आंगन' कार्यक्रम के तहत जूनियर हाईस्कूल हुसैनपुर में पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीता ग्रुप ऑफएजुकेशन के चेयरमैन आरके वाजपेयी व विशिष्ट अतिथि उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष भगवती प्रसाद गुप्त, एसआरजी करुणेश मिश्र, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद वर्मा, जूनियर शिक्षक संघ पहला अध्यक्ष डॉ. हरिनाम यादव, ब्रजेश कुमार, आरजे वर्मा, दुर्गेश सिंह, अजय वर्मा, अमित शुक्ला, गरिमा रंजन आदि ने बच्चों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी ओंकार सिंह ने की। इस मौके पर विनय सिंह, राहुल सिंह, दुर्गेश सिंह एआरपी अरुणोदय तोमर, पुर्णेद शुक्ला, योगेश द्विवेदी, कंचन रावत, पूजा गुप्ता, स्मिता सिंह, अमृता सिंह, रोमा वर्मा, मनीषा वर्मा, प्रीती यादव, सुमित बाजपेयी, मनोज वर्मा, वीर नारायण, नीरज सिंह, प्रवीण पांचाल, राहुल गुप्ता सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। संचालन पीयूष कांत मिश्र ने किया।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरी अविवाहित पुत्री शालिनी मिश्रा का चाल-चलन ठीक नहीं है, वह स्वेच्छाचारी तथा अनुसासन हीन है। मैंने उसे अपनी समस्त चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है, भविष्य में उसके किसी भी कृत्य एवं केस, कानूनी कार्रवाही के लिए प्रार्थी व उसके परिवार के अन्य सदस्यो की कोई जिम्मेदारी नहीं होंगी।

वीरेंद्र कुमार मिश्रा पुत्र संकटा प्रसाद निवासी ग्राम पानपुर पोस्ट कोड़रिया थाना अटरिया, तहसील सिधौली सीतापुर।

संक्षिप्त समाचार

वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी इटावा एक्सप्रेस का सोनागिर रेलवे स्टेशन पर ठहराव होने पर जैन समाज में खुशी की लहर

इटावा।श्री दिगंबर जैन विकास समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन जैन प्रदेश महामंत्री धर्मेंद्र जैन एडवोकेट इटावा जैन समाज अध्यक्ष संजू जैन ठेकेदार ने कहा कि जैन समाज के द्वारा कई वर्षों से यह मांग की जा रही थी कि सोनागिरी जैन तीर्थ पर पहुंचने के लिए इटावा से कोई साधन नहीं था इस मांग को गंभीरता से लेते हुए माननीय सांसद संध्या राय दतिया भिंड के प्रयास से झांसी मंडल के सोनागिर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 11903/04 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी इटावा एक्सप्रेस का 2 मिनट का ठहराव सोनागिरी रेलवे स्टेशन पर किया गया है।अब इटावा ही नहीं मैनपुरी फर्रुखाबाद वेवर सहित अन्य जिलों के व्यापारी और जैन समाज के लोग सोनागिर जैन तीर्थ क्षेत्र पर पहुंच सकेंगे।उन्होंने माननीय सांसद संध्या राय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रयास से गाड़ी का ठहराव हुआ है जैन समाज में बहुत खुशी है। बधाई देने वालों में मनोज जैन योगेंद्र जैन लाल जैन महावीर जैन जी एस टी विभाग चक्रेश जैन जिला मंत्री भाजपा नवनीत जैन वबुआ सुशील जैन नगर पालिका जिला अध्यक्ष अजीत बाबू जैन जिला महामंत्री नवनीत जैन जिला कोषाध्यक्ष श्रेयांश जैन तरुण जैन अनूप जैन वीरेंद्र जैन आनंद जैन सुमित प्रकाश जैन चंद्रप्रकाश जैन महेश चंद्र रपरिया सुभाष चन्द्र जैन मेजर पी डी जैन सुवोध जैन सहित बड़ी संख्या में जैन समाज ने बधाई दी है।

ब्रह्माकुमारी विश्वविद्यालय द्वारा महाशिवरात्रि कार्यक्रम आयोजित

लखना,इटावा।ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा महाशिवरात्रि के पुण्य पर्व पर कार्यक्रम स्थानीय तालेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में संपन्न किया गया।इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया जिसमें सतीश चंद्र वर्मा पूर्व अध्यक्ष लखनद्व के साथ-साथ बाहर से आई हुई बहनों द्वारा संपन्न किया गया।कार्यक्रम के प्रारंभ में भाई आशीष सक्सेना रूरा द्वारा ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई तथा बताया गया कि विश्व के लगभग 130 देश में 8000 केंद्र संचालित हैं जहां पर भगवान शिव की बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है।आशीष सक्सेना ने बताया कि धर्म से जुड़े तमाम सामाजिक कार्यक्रम ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जाते हैं तथा लोगों की हृदय परिवर्तन का कार्य भी ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के केन्द्रों द्वारा किया जाता है। भारत की राष्ट्रपति महा महिम द्रौपदी मुर्मू भी इसी संगठन से जुड़ी हुई है,भगवान शिव से जुड़ी हुई घटनाओं पर आधारित तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम छोटे-छोटे बच्चों व बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए। माउंट आबू से पधारी हुई उषा दीदी सहित प्रीति बहन रूरा शिखा बहन अकबरपुर प्रेम बहन अनु बहन ज्योति बहन प्रमुख रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुईं।कार्यक्रम का संचालन भाई जगत नारायण यादव द्वारा किया गया।इस कार्यक्रम में भारी संख्या में बहन और भाई उपस्थित रहे द्य

समूह की महिलाओं ने प्रधानमंत्री के लखपति दीदी से संवाद कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा

इटावा। प्रधानमंत्री द्वारा लखपति दीदी से संवाद कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जनपद के समस्त विकास खण्डों में एवं संकुल स्तरीय संघ के कार्यालय में दिखाया गया। इस कार्यक्रम को समूह की हजारों दीदियों ने लाइव प्रसारण देखा। प्रत्येक विकासखंड में पांच-पांच लखपति दीदी को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं जनपद मुख्यालय में राष्ट्रीय सूचना केंद्र पर लखपति दीदियों ने संवाद कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा।
अजय कुमार गौतम, मुख्य विकास अधिकारी ने लखपति दीदियों को सम्मान पत्र देकर हौसला बढ़ाया।उन्होंने प्रत्येक दीदी को नवाचार करते हुए लखपति बनने के सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया।इस मौके पर सुधीर कुमार उपायुक्त उद्योग/ स्वत॰ रोजगार, जिला मिशन प्रबंधक डॉ नन्दकिशोर साह, सूर्य नारायण पांडेय, संतोष कुशवाहा, जितेश श्रीवास्तव, दीपेंद्र सिंह तोमर, लाभार्थी महिलाओं में सन्नो देवी, मंत्रवती, कुमारी पूजा, गिरिजा देवी, लता कुमारी, उषा सहित सभी लखपति दीदी मौजूद रही

महंगाई राहत के तुरंत भुगतान की मांग

जौनपुर। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जनपद शाखा की मासिक वैठक कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पेंशनर्स कार्यालय मे हुई। बैठक की अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष सी बी सिंह करते हुए अपने सम्बोधन मे संगठन की मांग पर शासन स्तर की प्रगति से अवगत कराते हुए कुछ कार्याध्यक्ष स्तर पर मेडिकल प्रतिपूर्ति मे शासनादेश के विपरीत कार्यवाही पर रोश प्रकट करते हुए सभी पीड़ित पेंशनर्स से लिख कर संगठन को देने की अपेक्षा की गयी। बक्ताओ ने कोविड काल के 18 माह के मंहगाई राहत के तुरंत भुगतान की मांग के साथ रेलयात्रा मे पहले की तरह बरिष्ठ नागरिको को मिलने वाली छूट देने की मांग की गयी बैठक को मुख्य रूप से केकेतिवारी, ओमप्रकाश सिंह राजेन्द्र प्रसाद सिंह दिनेश कुमार सिंह रमेश मिठाई लाल मंजूरानी वीवी सिंह हरिश्चंद्र श्रीवास्तव , प्रमोद कुमार सिंह दसरथराम नन्दलाल रावत आदि ने सम्बोधित किया। संचालन जिला मन्त्री राजबली यादव ने किया ।

देयको 25 मार्च तक अवश्य प्रस्तुत करें: डीएम

जौनपुर । जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड ने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार में समस्त देयक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 25 मार्च तक अवश्य प्रस्तुत कर दे,जिससे कि बिलों की आवश्यक चेकिंग के बाद कोषागार द्वारा बिलों की पासिंग तथा ई-पेमेण्ट के माध्यम से 31 मार्च 2024 तक भुगतान हेतु एथराईजेशन किया जा सके। क्योंकि 31 मार्च तक पारित बिलों का भुगतान ई-पेमेंट द्वारा 31 मार्च को ही निर्धारित समय अवधि में किया जाएगा। 25 मार्च के उपरान्त केवल उक्त तिथि के बाद शासन स्तर से निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष देयक स्वीकार किये जायेगें अथवा ततसमय शासन स्तर से निर्गत अद्यावधिक निर्देश के अनरूप कार्यवाही की जायेगी। उक्त निर्देशों का अनुपालन न करने तथा सामयिक आहरण के अभाव में किसी धनराशि के व्यपगत हो जाने पर सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उन्होने निर्देशित किया है कि उपलब्ध बजट के मिलान व बिलों के प्रस्तुतीकरण का कार्य अनिवार्य रूप से समय से पूर्व करा ले जिससे किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पडे।

कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए प्रस्तुत

जौनपुर । जौनपुर महोत्सव के प्रथम दिन सायं काल में स्थानीय कलाकारों द्वारा शाही किला के प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण गिरीश चंद्र यादव द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। संस्कृति विभाग के पंजीकृत गायकों राहुल पाठक, आशीष पाठक सपना शर्मा आदि द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। साथ ही परिषदीय विद्यालयों के बच्चो ने भी नृत्य के माध्यम से दर्शकों का मन मोहा। माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को अंगवस्त्रम तथा मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। विधायक शाहगंज रमेश सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह, अन्य जनप्रतिनिधि गण, पर्यटन सूचना अधिकारी सुश्री मनोकामना राय, डी.सी.एन.आर.एल.एम. ओपी यादव, बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ0 गोरखनाथ पटेल सहित स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

पीयू गुणात्मक विकास, शैक्षणिक उत्कृष्टता में अग्रणी

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज अब शिक्षा के क्षेत्र में मिलकर कार्य करेंगे। दोनों विश्वविद्यालयों के मध्य सोमवार को परस्पर समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग देने पर दोनों कुलपतियों के बीच सहमति बनीं। साक्षी के तौर पर दोनों विश्वविद्यालय के कुलसचिवगण महेंद्र कुमार, कर्नल विनय कुमार के साथ नोडल अधिकारी डॉ मनोज कुमार पाण्डेय और राजेंद्र प्रताप सिंह उपस्थित रहे।
कुलपति प्रो. वन्दना सिंह ने कहा कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने निरंतर गुणात्मक और मात्रात्मक विकास, शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों में उत्कृष्टता, पारदर्शी और कुशल शैक्षणिक प्रशासन जैसी विशेषताओं के आधार पर देश के अग्रणी विश्वविद्यालयों में अपना स्थान बनाया है। उप्र. राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज की कुलपति प्रो. सीमा सिंह ने कहा कि मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्वांचल विश्वविद्यालय की उत्कृष्टता का लाभ मिलेगा। विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों से जुड़कर छात्र अपने कैरियर को संवार सकेंगे।

माहे रमजान में सुविधाओं के लिए सौंपा ज्ञापन

जौनपुर। माहे रमजान में साफसफाई व अन्य सुविधाओं को दिए जाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा ।
मरकजी सीरत कमेटी ने एक ज्ञापन, जिलाधिकारी की कार्यालय पर पूर्व अध्यक्ष अरशद कुरैशी व उनकी टीम नेएक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मस्जिदों के अगल-बगल साफसफाई, मस्जिदों की तरफ खोद कर छोड़ी गई सड़कों का समतलीकरण ,सुबह-शाम नियमित रूप से जलापूर्ति एवं बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा धीमी गति से मानक के अनुरूप स्पीकर बजाने की अनुमति। बिस्मिल्लाह वारसी शकील मंसूरी ,मौलाना ताज, फिरोज अहमद पप्पू ,शमशेर कुरैशी, मो शाबिर राजा ,सलमान मलिक ,साहिल कुरैशी, दानिश अंसारी ,रहीमुल्ला, अशियम आदि लोग उपस्थित रहे।

स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त, चार विद्यार्थी घायल

जौनपुर। जिलें के चन्दवक थाना क्षेत्र के आजमगढ़ - वाराणसी मार्ग पर मुर्खा नहर पुलिया के पास सोमवार की सुबह एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार पिकप ने स्कूल बस को जोरदार टक्कर मार दी। इससे सगे भाई बहन समेत चार छात्र - छात्राएं घायल हो गए। सूचना पर तत्काल पहुंचे प्रबंधक व पुलिस ने सभी का इलाज निजी चिकित्सालय में कराया गया। भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज बजरंगनगर की बस मचहटी से 20 बच्चों को लेकर विद्यालय आ रही थी। बस मुर्खा नहर पुलिया के पास पहुंची ही थी कि वाराणसी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार पिकप ने साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बस को टक्कर मार दी और पलट गई। बस में टक्कर लगते ही चीख पुकार मच गई। बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुन आसपास के लोग दौड़े सभी बच्चों को बाहर निकाला। चार बच्चे जिसमें कक्षा 6 के प्रियांशु, प्रिया यादव व अंश तथा कक्षा 4 की रोशनी घायल हो गए।

अन्तर्जनपदीय तीन वाहन चोर गिरफ्तार

मिर्जापुर। जिले की मड़िहान व एसओजी व सर्विलासं पुलिस की संयुक्त टीम ने अन्तर्जनपदीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश कर तीन शातिर वाहन चोरो के साथ चोरी की 16 मोटरसाइकिल बरामद कर कार्यवाही की है। पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन ने संयुक्त टीम को 25 हजार रूप्या से पुरस्कृत किया है। पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन ने पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन थाना मड़िहान, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थानाध्यक्ष मड़िहान मय पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि इस दौरान थाना क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा चोरी के मोटरसाइकिलों की बिक्री करने की सूचना जरिए मुखबिर जानकारी हुई सूचना परथाना मड़िहान, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर लालपुर मोड़ के पास से दो व्यक्तियों को चोरी की दोमोटरसाइकिल के साथ पकड़ा

गया।जिन्होने पूछताछ में अपना नाम पता रोहित यादव पुत्र राजेश यादव निवासी गधिना थाना सोरांव जनपद प्रयागराज, गुड्डू नट पुत्र उमाशंकर नट निवासी लालपुर थाना मड़िहान जनपद मिर्जापुर बताया। निशानदेही पर ढेकवाह जंगल से गैंग के तीसरे सदस्य डब्लू नट पुत्र उमाशंकर नट निवासी लालपुर थाना मड़िहान जनपद मिर्जापुर को चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया तथा मौके से झाड़ियों में छुपाकर बिक्री हेतु इकट्ठा करके रखी हुई अन्य 13 चोरी की मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया।गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मड़िहान पर मुकदमा पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई हैं। बरामद 7 मोटरसाइकिलें जनपद मिर्जापुर के थाना अहरौरा व को0कटरा पर, जनपद प्रयागराज के थाना जार्जटाउन, कर्नलगंज व मुट्ठीगंज पर तथा जनपद चित्रकूट के थाना कर्वी पर चोरी हो जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों से सम्बन्धित हैं। सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन द्वारा 25 हजार रूपया पुलिस टीम को पुरस्कार से पुरस्कृत किया।

जायण्ट्स वैलफेयर फाउंडेशन फेडरेशन के पदाधिकारियों को दिलाई शपथ

इटावा। सौहार्द संस्कार सेवा आत्मिक सुखानुभूति को मूल मंत्र मानते हुए समाज सेवार्थ समर्पित भारतीय मूल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था जायण्ट्स वैलफेयर फाउंडेशन फेडरेशन 5 की यूनिट 01 में संचालित जायण्ट्स ग्रुप आफ दतावली की अध्यक्ष श्रीमती संगीता तिवारी,पिलुआ महावीर के अध्यक्ष शमशुद्दीन शम्स,, सैफई के अध्यक्ष राज कुमार कुशवाह, नवोदिता की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना सिंह, पिलुआ महावीर स्टार के अध्यक्ष तिलक सिंह कुशवाहा एवं सिलसिला समूह की अध्यक्ष श्रीमती सीमा यादव एवं उनके नव निर्वाचित निदेशक मंडल को यूनिट निदेशक श्रीमती आशा अवस्थी ने शपथ ग्रहण करायी। फेडरेशन कोआर्डिनेटर राम सजीवन सिंह ने वित्त निदेशकों को दायित्व बोध कराया।आर के अग्रवाल ने उपाध्यक्षों का दायित्व बोध कराया।
निवर्तमान फेडरेशन अध्यक्ष श्रीमती ऊषा यादव ने नवीन जायण्टस सदस्यों को शपथ ग्रहण कराते हुए समूह अध्यक्ष के पद दायित्व बोध कराया।
अति विशिष्ट अतिथि डॉ.शिवराज सिंह यादव सदस्य केन्द्रीय समिति ने नव अधिष्ठापित अध्यक्ष गण निदेशक मंडल एवं नवीन जायण्टस सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए,भव्य आयोजन के लिए समर्पित आयोजन मंडल की हार्दिक शुभकामनाएं दी। भव्य समारोह में चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान हेतु इटावा के प्रख्यात ओर्थोपैडिक सर्जन डॉ राजीव यादव एवं न्याय के क्षेत्र में अद्वितीय एवं अनुकरणीय योगदान करने वाले एडवोकेट अजीत सिंह को मुख्य अतिथि एस पी चतुर्वेदी विश्व उपाध्यक्ष द्वारा इटावा रत्न से अलंकृत करते हुए कहा कि सौहार्द संस्कार सेवा आत्मिक सुखानुभूति ही जायण्ट्स का मूल मंत्र है। कार्य ऋम का मनोहारी सन्चालन फेडरेशन आफीसर श्रीमती साधना शर्मा एवं पूर्व फेडरेशन आफीसर ललित सक्सैना ने किया।

बालक को बचाने में दंपती घायल

हलिया (मिर्जापुर)। ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के हलिया ड्रमंडगंज मार्ग रतेह चौराहा पर रविवार की देर शाम घर के सामने सड़क पर साइकिल चला रहे बालक को बचाने के चक्कर में बाइक सवार दंपती अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरकर घायल हो गए मौके पर पंहुची पुलिस ने घायल दंपती को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर उपचार के बाद हालत सामान्य होने में चिकित्सक ने दंपती को डिस्चार्ज कर दिया है।
ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के बबुरा कला गांव निवासी बाइक सवार बुध्दिराम अपनी पत्नी सुशीला के साथ प्रयागराज जनपद के कोरांव गये हुए थे देर शाम वापस लौट रहे थे कि जैसे ही हलिया ड्रमंडगंज मार्ग पर पंहुचा कि घर के सामने साइकिल चला रहे बालक को बचाने के चक्कर में बाइक सहित अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरकर घायल हो गए
मौके पर पहुंचे एसआई अवधेश सिंह व प्रभाकर राय ने बाइक सवार घायल दंपती को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर उपचार के बाद हालत सामान्य बताई जा रही है।

नव नियुक्त जिलाध्यक्ष राहुल पाल का हुआ भव्य स्वागत

इटावा। केन्द्रीय मंत्री/राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल एस ÷अनुप्रिया पटेल÷ ने राहुल पाल को जनपद इटावा का अपना दल एस , इटावा का जिलाध्यक्ष बनाने पर जनपद - इटावा में भव्य स्वागत हुआ।अपना दाल एस की बैठक कार्यवाहक जिला अध्यक्ष एवं महिला मंच जिला अध्यक्ष श्रीमती कविता वर्मा के निवास पर सम्पन्न हुई जिसमें अपना दल एस के महिला मंच की जिला अध्यक्ष श्रीमती कविता वर्मा ने सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी से संगठन को सहयोग करने को कहा और बहन अनुप्रिया पटेल के निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया।बैठक में नव नियुक्त जिलाध्यक्ष राहुल पाल ने अपना दल एस के सम्मानित पदाधिकारियो एवं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि अपना दल एस की नीतियों को बढ़ाते हुए अपने सम्मानित कर्यकत्ताओं के कार्यो को प्रथम वरीयतानुसार समाजिक कार्यो को करेंगे। राजेश पटेल जिला महासचिव , जिला सचिव- डा0 सुधीर

सविता , अरुण दुबे , सविता जिला कोषाध्यक्ष ,अवधेश पटेल - जिलाध्यक्ष व्यापार मंच , रबिन्द्र जाटव जिलाध्यक्ष- एससीएसटी मंच , सन्दीप पाल जिलाध्यक्ष युवा मंच , जिला कार्यकारणी सदस्य राहुल श्रीवास्ताव अनुपम पटेल बृजेश दिवाकर , रन्जीत आदि अनेकों कार्यकर्ताओं ने भी भव्य स्वागत किया।

जिला बदर आरोपी गिरफ्तार

हलिया (मिर्जापुर)। स्थानीय थाना क्षेत्र के देवरी बाजार से सोमवार की सुबह पुलिस ने जिला बदर आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है।
थानाध्यक्ष हलिया विष्णु प्रभा सिंह व एसआई अजय कुमार मिश्र,हेड कांस्टेबल अटल सिंह के साथ जिला बदर आरोपित देवरी बाजार निवासी शिव नारायण अग्रहरि को उसके घर से गिरफ्तार कर आरोपित को न्यायलय में हाजिर कर दिया जंहा से न्यायालय ने जिला बदर आरोपित को जेल भेज दिया है।

लोस चुनाव के मद्देनजर अंतराज्यीय बार्डर यूपी व एमपी पुलिस ने की संयुक्त बैठक

हलिया (मिर्जापुर)। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंतराज्यीय बार्डर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सीमा हनुमना स्थित एक रिसार्ट में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों ने बैठक कर लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न कराने के लिए रणनीति बनाई है। बैठक में मध्य प्रदेश की ओर से मऊगंज जनपद के पुलिस क्षेत्राधिकारी इंद्रराज कि अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक कर आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए आपस में रणनीति बनाई है।यूपी एमपी सीमा पर दोनों राज्यों की पुलिस बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को चिंहित कर कार्रवाई करने पर रणनीति तैयार किया गया।

जितेंद्र को लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव बनाये जाने पर खुशी का माहौल

अदलहाट (मिर्जापुर)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव जी के द्वारा ग्राम मठना जमालपुर चुनार निवासी युवा समाजसेवी और अपने तैलिक समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा पार्टी के फ्रंटल में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके श्री गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव बनाये जाने पर लोगो ने हर्ष जताया हैं
अपने समाज में श्री गुप्ता ने अलग पहचान बनाया है व पूर्व में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ चुके है!
इससे पार्टी को मजबुती मिलेगी वही पर श्री गुप्ता ने बताया कि मुझे व मेरे समाज को जो सम्मान पार्टी द्वारा

सदैव मिला है उसका हम सभी ऋणी रहेंगे और हम अपने नेता के बताये हुए! मार्ग पर चल कर पार्टी को मजबूत करने का काम करुंगा!
और सभी के आशीर्वाद के अपेक्षा रखता हूँ! व साथ में पूरी ईमानदारी कर्मठता से पार्टी हित व लाभ में कार्य करने का काम करुंगा वही मनोनीत होने की खबर लगते ही क्षेत्र में खुशी की माहौल है।
श्री गुप्ता के मनोयन पर बधाई देने वालों में सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी, रवि प्रकाश त्रिपाठी, राणा प्रताप सिंह, सुनिल सिंह पटेल, लालता वियार, दिलिप गुप्ता, विरेंद्र यादव, दिनेश यादव, सुभाष गुप्ता, राजन पटवा, सुरेश यादव एड, विकास गुप्ता, शोले वियार, सदानंद यादव, सोनु गुप्ता, गुप्तनाथ पाल, रणजीत जैसवाल, सुशील यादव, लोकनाथ सिंह पटेल, काशीनाथ यादव,अशोक गोड़, छेदी खरवार, विजय पटेल, रतन गुप्ता आदि शामिल है।

मानको की सूची के लिए ग्राम प्रधान व सचिव पंचायत सहायक को प्रशिक्षण

हलिया (मिर्जापुर)। स्थानीय विकास खंड सभागार में सोमवार को भारतीय मानक ब्यूरो लखनऊ के डायरेक्टर सुधीर विश्नोई के निर्देश पर ग्राम पंचायत के लिए महत्वपूर्ण मानकों की सूची के लिए ग्राम प्रधान व सचिव पंचायत सहायक को प्रशिक्षण दिया। कोई भी सामान लेने से पहले हमेशा होल मार्क लगी वस्तुएं ही खरीदें। प्रशिक्षक अतुल तिवारी ने प्रशिक्षण में उपस्थित ग्राम प्रधान व सचिव पंचायत सहायक को प्रशिक्षण देते हुए बताया कि कोई भी सामग्री लेने से पहले आईएसआई मार्क,आर मार्का एचयू आईडी सोने की शुद्धता परखने के लिए हाल मार्क है तो सोना है ध्यान रखें हाल मार्क चिंहित आभूषणों पर तीन निशान अनिवार्य है इन्हें आभूषण विक्रेता के पास उपलब्ध

मैगनीफाइन ग्लास की सहायता से देखा जा सकता है।केवल ब्यूरो द्वारा पंजीकृत आभूषण विक्रेता ही हाल मार्क चिंहित आभूषण बेच सकते हैं कोई भी सामान जैसे गैस सिलेंडर,चुल्हा,पंखा,कुकर , हेलमेट, आदि सामान लेने से पहले उस पर होल मार्क जरूर देखें।इस दौरान सचिव कौशलेंद्र राय चंद्रप्रकाश श्रीवास्तव बालकृष्ण आलोक भारती, ग्राम प्रधान इंद्रबहादुर, बिंद आदि मौजूद रहे।

संस्कृति संरक्षण के लिए जागरूकता जरूरी: सीमा

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के कल्चरल क्लब एवं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग की ओर से पांच दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन सोमवार को किया गया। मुख्य अतिथि उप्र. राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सीमा सिंह ने कहा कि युवा पीढ़ी को संस्कृति के संरक्षण के लिए जागरूक करने की जरूरत है। इसके महत्व को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम कई पुरातन संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। बतौर मुख्य वक्ता मदन मोहन मालवीय पत्रकारिता संस्थान के पूर्व निदेशक प्रो. राम मोहन पाठक ने कहा कि संस्कार संस्कृति पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विज्ञान और संस्कृति का समन्वय जरूरी है, इसे संवाद के माध्यम से समाज से जोड़ने में मीडिया की

महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में सुगमता संस्कृति के माध्यम से ही लाया जा सकता है।अध्यक्षीय उद्बोधन में कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने कहा कि हमारी संस्कृति को वैश्विक स्तर पर लोग अपना रहे हैं। इसमें तन-मन को भी स्वस्थ रखने की व्यवस्था योग के माध्यम से है। नई दिल्ली की साहित्यकार डॉ. सोनी पांडेय ने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को उच्च स्थान दिया गया है। स्वागत भाषण कार्यशाला के समन्वयक एवं विभागाध्यक्ष प्रो. मनोज मिश्र, संचालन कार्यक्रम संयोजक डॉ. दिग्विजय सिंह राठौर और धन्यवाद ज्ञापन डॉ. सुनील कुमार ने किया। नार्थ इंडिया के हिंदी समाचार पत्र के स्वामी डॉ. नथमल टी. बडेवाला को सम्मानित किया गया।

मोटिवेशनल स्पीकर ने दिये कैरियर चयन की टिप्स

जौनपुर। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में करियर एंड प्लेसमेंट सेल एवम ज्ञानस्थली फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर महाराणा प्रताप शासकीय महाविद्यालय हरदोई के बीएड विभाग के द्वारा भी शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत प्रतिभाग किया गया। उक्त यूथ कॉन्क्लेव में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की और से डॉ0 उमेश सिंह द्वारा सभी का स्वागत किया गया। इसमें काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री को भी दिखाया गया जिसके माध्यम से सभी को स्थापना से लेकर आज तक हुए सफरनामा से भी सभी को रूबरू कराया गया । कार्यक्रम में जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर एवं ब्यूरोक्रेट डॉ0 ज्ञान प्रकाश द्वारा उपस्थित छात्रों को कैरियर चयन के संबंध में जानकारी एवम टिप्स दिए गए। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर अपने व्याख्यान पर उनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए तनाव कम किया जा सकता है । परीक्षा में उत्तर देते समय किन बातों का खयाल रखना चाइए। उत्तर पुस्तिका में उत्तर किस प्रकार लिखे । उत्तर देते समय चित्र , फ्लो चार्ट एवम इंप्रेसिव स्टाइल मै लिखे। विजुअल का एक अलग महत्व होता है। ज्ञानस्थली फाउंडेशन की ट्रस्टी एवम ज्ञानस्थली क्लासेज की सीईओ अलका प्रकाश द्वारा कैरियर चुनौती एवम संभानाओं के अंतर्गत सीटीईटी टीईटी एवम नेट जेआरएफ की तैयारी हेतु

मारदर्शन दिया । महाराणा प्रताप शासकीय महाविद्यालय हरदोई के विभागाध्यक्षडॉ तारकेश्वर गुप्ता द्वारा शैक्षिक भ्रमण एवम अंतर विश्वविद्यालय इंटरेक्शन पर बल दिया और बताया इस प्रकार की गति विधि शैक्षिक उन्नयन में विशेष भूमिका निभाती है। शैक्षिक भ्रमण के कोऑर्डिनेटर डॉ0 सुधीर कुमार द्वारा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवम ज्ञानस्थली फाउंडेशन का इस प्रकार के आयोजन हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही ज्ञानस्थली फाउंडेशन के द्वारा यूथ कॉन्क्लेव के अंतर्गत आयोजित इस मुहिम को सराहा । सह प्रभारी डॉ0 बलराम सिंह, डॉ अभिसेख सेंगर , डॉ0 अजीत आनंदमणि, डॉ0 नितिन बाजपाई, डॉ0 प्रवीण कुमार, डॉ0 शैलजा शर्मा , डॉ0 नमिता त्रिपाठी, डॉ0 स्नेह लता शिवहरे आदि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

खंड शिक्षा संगोष्ठी में समन्वय पर जोर

राजगढ़ (मिर्जापुर)। विकास खंड राजगढ़ कार्यालय में एकदिवसीय ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी एव उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंडविकास अधिकारी रमाकांत ने किया। कार्यक्रम में उन्होंने विद्यालयों के विकास विकास हेतु सतत प्रयास करने के लिए ग्राम प्रधान विद्यालय एसएमसी अध्यक्ष प्रधानाध्यापकों के समन्वय की बात कह कर के लोगों को प्रेरित किया तथा शासन की तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग में गरीब असहाय और वंचित वर्ग के बच्चों के पठन-पाठन पर विशेष ध्यान रखते हुए विद्यालय की ओर आकर्षित किया जाए। तथा स्वच्छता के पैमाने पर शौचालयों को

स्वच्छ किया जाए। जिसमें किसी भी तरह का कोताही शासन स्तर से बर्दाश्त नहीं हो। उसके साफ सफाई इसी क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी संजय यादव ने विद्यालयों के 19 पैरामीटर निपुण बनाने पर प्रयास विद्यालय क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के समाधान हो। डायरेक्ट बच्चों के अभिभावक के खाते मे 12 सौ रुपये की धनराशि भेजी जा रही है। खोराडीह, धनसीरिया, नदिहार के विद्यालयों की सराहना भी की गई।कुछ निपुण विद्यालय सोनबरसा आदि को प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया। इस अवसर पर खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कुछ शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। संतोष कुमार सिंह खटखरिया संकुल सतीश कुमार सिंह, महिमा सिंह सुशीला देवी ,राजेश कुमार, बृजेश कुमार, आदि को भी सम्मानित किया गया। सोनबरसा के विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष को भी सम्मानित किया गया। इस उन्मुखीकरण का आश्रय बच्चों को सही दिशा में प्रेषित करके अच्छी से अच्छी शिक्षा को दिया जाए शैक्षिक वातावरण बनाया जाए कटी पर कोई समस्या ना हो जिससे बच्चों को विकास कार्य में कोई बाधा उत्पन्न हो कार्यक्रम का संचालन सतीश कुमार सिंह नोडल संकुल खटखारिया द्वारा किया गया अंत में कार्यक्रम का समापन खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया ।इस अवसर पर बटेश्वर सिंह, धनंजय सिंह, आलोक सिंह, सुशील सिंह, चंद्रशेखर सिंह, बृजेश पटेल, अशोक कुमार सिंह, ओम, राहुल, आलोक, जौहरी उपस्थित रहे।जिसमें विविध प्रकार के रंगोलिया को सजाने में साधना सिंह पूनम सिंह सत्यदीप और मुकेश प्रसाद आर्य शिक्षकों ने बढ़-चढ़कर के भाग लिया।

1500 करोड़ से हलिया ड्रमंडगंज वाया कोरांव टू लेन का होगा उच्चीकरण

हलिया (मिर्जापुर)। स्थानीय विकास खंड के हलिया से वया कोरांव मार्ग 50 किलोमीटर टू लेन का उच्चीकरण होने से लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी अभी तक यह सड़क टू लेन है लेकिन इस मार्ग को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मिर्जापुर सांसद केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के अनुरोध पर 1500 करोड़ की लगात से उच्चीकरण करने की घोषणा किया है।हलिया ड्रमंडगंज मार्ग टू लेन से प्रयागराज व मध्य प्रदेश आने जाने के लिए वाहन चलते हैं।इस राष्ट्रीय राजमार्ग से हलिया के लोगों को मध्यप्रदेश व प्रयागराज के लिए जोड़ता है। केंद्र सरकार ने हलिया ड्रमंडगंज वया कोरांव टू लेन मार्ग को उच्चीकरण करने कि घोषणा कर दिया है।इस टू लेन संपर्क मार्ग को उच्चीकरण करने में करीब पंद्रह सौ करोड़ रुपए का खर्च आयेगा। इसके लिए एनएचएआई की ओर से टू लेन मार्ग के उच्चीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है।हलिया ड्रमंडगंज वया कोरांव टू लेन मार्ग के उच्चीकरण होने से आवागमन करने वाले लोगों के समय की बचत होगी।इस संबंध में सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रयागराज नुसरत खान ने बताया कि टू लेन मार्ग के उच्चीकरण के लिए प्रस्ताव जल्द ही तैयार किया जायेगा इसके बाद उच्चीकरण में आने वाली भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा।

गड़बड़ा शीतला धाम में भक्तों ने की मां शीतला की आराधना

हलिया (मिर्जापुर)। हलिया क्षेत्र के अन्तर्गत गड़बड़ा स्थित प्रसिद्ध शीतला धाम में फल्गुन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा एवं पर्व चंद्र दर्शन होने के कारण सोमवार को बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन पुण्य की कामना की। मां शीतला का दर्शन पूजन करने के लिए चार बजे भोर से ही मंदिर परिसर में लाइन लग गई । मंगला आरती के बाद मंदिर का कपाट खुलते ही भक्त दर्शन पूजन करने में जुट गए। मां की एक झलक पाते ही श्रद्धालु धन्य हो गए। मंदिर के चारों ओर गंदगी का अंबार लगा रहा । धाम मे शुद्ध पेयजल व समुचित शौचालय न होने के कारण श्रद्धालुओं को इधर उधर भटकना पड़ा । मंदिर प्रबंधक ज्ञानचंद शुक्ला ने सीसीटीवी कैमरे में निगरानी करते हुए बताया कि लगभग 35 हजार भक्तों ने मां के दरबार में मत्था टेका।

राजगढ़ का बकहर पुल बिना सूचना के हुआ बंद, आवागमन बाधित

राजगढ़ (मिर्जापुर)। राजगढ़ थाना क्षेत्र के अंग्रेजों के जमाने का जर्जर पुल आज बिना सूचना के बंद कर दिया गया। जिससे छोटे-बड़े वाहनों के साथ-साथ सभी वर्ग को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी दिखाई नहीं दिए। ठेकेदार का भी पता नहीं चला। मौके पर राजगढ़ थाने के पुलिस दिखाई दिए पर वो ना काफी रहे। टेंपरेरी साइड से पुल के बगल से रास्ता निकाल दिया गया। आने जाने वाले संजय सिंह, धीरेंद्र, अजीत, रोशन, मनोज कुमार, अजय, राकेश सिंह ने बताया कि पुल बंद होने की सूचना नहीं मिली। और नाही अखबार में प्रकाशित किया। और ना

ही सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। जिससे आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता बताने वाला भी कोई दिखाई नहीं दिया लगभग 1 घंटे तक आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बड़ी से छोटी गाड़ियां ट्रक सरकारी बसें प्राइवेट बस दो चक्का चार चक्का वाहन सभी जाम में फंसे रहे लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ही रास्ता बताते रहे और किसी तरह लोग आगे बढ़े। अगर पुल को बंद करके सूचना दी जाती तो यह नौबत नहीं आती।
जिला प्रशासन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और ठेकेदार ने इसकी सूचना पहले बता दी होती तो ऐसी नौबत नहीं आती और साथ ही डायवर्जन रूट बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी होती तो काफी हद तक समस्या समाप्त हो जाती लेकिन ऐसा नहीं हुआ जानकारी के भाव में सभी गाड़ियां इधर से उधर फंसी रही और निकलने में घंटे का वक्त लग रहा है।

मनाया जन्मजात विकृति जागरूकता दिवस

जौनपुर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम ने जन्मजात विकृति जागरूकता दिवस मनाया। टीम ने लोगों को जन्मजात विकृति के बारे में जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ लक्ष्मी सिंह ने बताया कि बच्चों में जन्म के समय दोष संरचनात्मक परिवर्तन हृदय, मस्तिष्क, पैर सहित शरीर के लगभग हर हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं। यह शरीर के दिखने, काम करने के तरीके या दोनों को प्रभावित कर सकते है। ऐसी ही कलब फूट एक जन्मजात विकृति है। हर 800 नवजात में से एक इससे प्रभावित मिलता है। देश में हर साल 33,000 बच्चे इस विकृति के साथ पैदा होते हैं। आरबीएसके के नोडल अधिकारी डॉ राजीव कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य मिशन की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कलब फूट जैसी 42 जन्मजात बीमारियों एवं दोषों की स्क्रीनिंग की जाती है।

संक्षिप्त समाचार

डीएम व एसपी ने अमेठी कस्बे में किया फ्लैग मार्च

अमेठी। सोमवार को जिलाधिकारी निशा अनंत व पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने संयुक्त रूप से आगामी त्यौहारों व लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ कस्बा अमेठी में भीड़-भाड़, बाजार व संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च कर सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था का जायजा लिया तथा जन सामान्य से आगामी त्योहारों व लोकसभा चुनाव को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील किया। इस दौरान उपजिलाधिकारी अमेठी प्रीति तिवारी, सीओ अमेठी लक्ष्मन कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

अधिवक्ता के चुनाव में मतदाता सूची का सत्यापन

लालगंज,प्रतापगढ़। संयुक्त अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर सोमवार को हुई बैठक में रणनीतिक मंथन हुआ। समिति ने चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं के मतदाता सूची का सत्यापन किया है। इसके तहत पांच दर्जन से अधिक अधिवक्ताओं के मतदाता सूची में पुनरीक्षण कराये जाने पर सहमति बनी। समिति के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी तेरह मार्च को पुनरीक्षण के दायरे में आने वाले मतदाताओं को समिति की बैठक में बुलाया गया है। वही पन्द्रह मार्च को नये मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किये जाने की भी सहमति बनी है। बैठक का संचालन महामंत्री देवी प्रसाद मिश्र ने किया। प्रवक्ता विकास मिश्र ने बताया कि पन्द्रह मार्च के बाद सदस्यता के लिए कोई आवेदन समिति स्वीकार नही करेगी। बैठक में शिवाकांत उपाध्याय, वीरेन्द्र सिंह आर्य, अजय शुक्ल गुड्डू, राधारमण शुक्ल, कालिका प्रसाद पाण्डेय, रामलगन यादव, टीपी यादव ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर अपने अपने सुझाव रखे।

मारपीट का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

लालगंज,प्रतापगढ़। पारिवारिक रंजिश में हुई मारपीट की घटना को लेकर पीड़िता ने परिवार के दो लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। लीलापुर थाना क्षेत्र के बासुपुर गांव की नीलम पत्नी जसवंत ने पुलिस को दी गयी तहरीर में कहा है कि बीते रविवार की शाम पारिवारिक रंजिश को लेकर परिवार के दो लोगों ने उसे मारापीटा। शोर गुल सुनकर बीच बचाव को पहुंचे उसके पति को भी मारपीट कर चुटहिल कर दिया। एसओ नरेन्द्र सिंह का कहना है कि तहरीर मिली जांच के बाद उचित कार्यवाई की जायेगी।

काव्यांजलि में केसरी नन्दन के व्यक्तित्व को नमन

लालगंज,प्रतापगढ़। वरिष्ठ साहित्यकार स्व केसरी नंदन शुक्ल की स्मृति में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। सांगीपुर क्षेत्र के पुरैनी गांव में काव्यांजलि में साहित्यकारों ने स्व केसरीनन्दन के साहित्य के क्षेत्र में योगदान पर व्यापक प्रकाश डाला। कार्यक्रम के संयोजक साहित्यकार यज्ञ नारायण सिंह ने कहा कि स्व केसरी नन्दन ने साहित्य लेखन के क्षेत्र में नवोदित लेखकों व कवियों को भरपूर प्रेरणा दी है। ओज कवि अंजनी अमोघ ने अपने पिता की स्मृतियों को लेकर पढ़ा- मेरी कविता के बुलंद आवाज है पिता। वही अध्यक्षीय कवि अर्जुन सिंह ने भी स्व शुक्ल की रचनाधर्मी के रूप में याद किया। संचालन अजीत शुक्ल ने किया। कार्यक्रम में गुरुवचनसिंह बाघ ,बाबूलाल सरल,कृष्ण लाल श्रीवास्तव, राम जी मौर्य, रघुनाथ यादव, अरविंद सत्यार्थी, कलीम अहमद, राजकुमार सिंह, सुनील शर्मा आदि ने भी काव्यपाठ किया।

दुकान में आग से हड़कम्प

लालगंज,प्रतापगढ़। दुकान में अचानक आग लगने से हड़कम्प मच गया। लालगंज कोतवाली के रानीगंज कैथौला बाजार में पुरानी चौकी के बगल पंजाब बीज भण्डार की दुकान है। रविवार की देर शाम दुकान संचालक राममिलन दुकान बंद करके अपने खैरपुर छेमी चला गया। देर शाम अचानक दुकान के अंदर से धुआ देखा गया तो आस-पास के व्यापारी चीखने चिल्लाने लगे। सूचना पाकर राम मिलन भी मौके पर पहुंचा। फायर ब्रिगेड और बाजार वासियों की मदद से आगजनी पर काबू पाया गया। आगजनी में दुकान में रखे सामान नष्ट हो गये।

जनपदीय सिंचाई बन्धु की बैठक आज

प्रतापगढ़। जनपदीय सिंचाई बन्धु की बैठक दिनांक 12 मार्च को पूर्वान्ह 11 बजे सिंचाई कालोनी स्थित पिम हाल शारदा सहायक खण्ड-51 प्रतापगढ़ में होनी प्रस्तावित है। बैठक की अध्यक्षता अधिशासी अभियन्ता/सचिव सिंचाई बन्धु अरविन्द वर्मा द्वारा की जायेगी। बैठक में जनपद के जनप्रतिनिधिगण, जनपदीय अधिकारी एवं कृषकगण समय से प्रतिभाग करें।

66 से 85 वर्ष की आयु वाले मतदाताओं के लिये बैलेट की सुविधा

प्रतापगढ़। अपर जिलाधिकारी (वि/रा)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी त्रिभुवन विश्वकर्मा ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशानुसार जनपद के समस्त 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को मतदान करने के लिये पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। उन्होंने जनपद के 85 वर्ष की आयु वर्ग के ऊपर मतदाताओं को सूचित किया है कि वे स्वेच्छा से पोस्टल बैलेट के माध्यम से निवास स्थान पर मतदान करने हेतु निर्धारित फार्म-12डी में आवेदन कर अपने निवास स्थान पर मताधिकार का उपयोग कर सकते है। फार्म-12डी निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 05 दिवसों के अन्दर सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भरा हुआ फार्म-12डी प्राप्त किया जायेगा। फार्म-12डी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर मेनू के अन्तर्गत 'कैन्डीडेट नामिनेशन एण्ड अदर फार्मस' के लिंक पर उपलब्ध है, जहां से इसे डाउनलोड करके भरकर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में जमा कराया जायेगा।

दुष्कर्म का आरोपी गया जेल

लालगंज,प्रतापगढ़। दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने घर दबोचा। लालगंज कोतवाली के दरोगा राजेश कुमार यादव सोमवार को फोर्स के साथ गश्त पर निकले थे। इस बीच भदारी कला के शिव बक्स का पुरवा के हनुमान मंदिर के पास पुलिया पर दुष्कर्म का आरोपी जेठवारा थाना के रायपुर खुर्द निवासी अजय सिंह पुत्र राम सिंह पुलिस को दिख गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जेल भेजा दिया।

कैंप का आयोजन कर खाद्य व्यापारियों को किया गया जागरूक

पलियाकलां-खीरी, (स्पष्ट आवाज)। नगर व्यापार मंडल कंछल गुट द्वारा कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में लखीमपुर से मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम आशीष मौर्य व खाद्य सुरक्षा अधिकारी आदित्य वर्मा शामिल हुए। कैंप में मौजूद खाद्य व्यापारियों को विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए जागरूक किया गया।
आयोजित कैंप में अधिकारियों ने खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के संबंधित प्रावधान व नियम विनियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान व्यापारियों से स्वच्छता व अन्य नियमों के बारे में बताया और कहा कि जिन खाद्य विक्रेताओं ने इस ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग ली उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी हो जाने के बाद आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट निःशुल्क रहेगा। नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष गौरव गुप्ता व महामंत्री राजीव शुक्ला द्वारा सभी व्यापारी को शुद्ध एवं स्वच्छ खाद्य सामग्री का विक्रय करने की अपील की और आए हुए सभी अधिकारी व व्यापारी साथियों का आभार व्यक्त किया। कैंप का संचालन तहसील महामंत्री राजेश गुप्ता ने किया। इस दौरान पलिया के खाद्य व्यापारी नीरज गुप्ता, विशाल अग्रवाल, मोहित आनंद, रोहित सिंघल, मनोज खन्ना, विनोद कुमार गुप्ता, पप्पू गुप्ता, शिव मंगल, मोहम्मद अरशद, बलदेव सिंह, सुनील अरोड़ा व राजेंद्र प्रसाद आदि मौजूद रहे।

एच बी कॉन्वेंट स्कूल के वार्षिकोत्सव में बच्चों ने भरे सांस्कृतिक रंग

मोहम्मदी- खीरी, (स्पष्ट आवाज)। क्षेत्र अमीननगर के एच बी कान्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी शिवम राठौर अध्यक्ष प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन ने की।कार्यक्रम का संचालन सीनम खान व सचिव कुमार शर्मा ने किया। विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय शिक्षा और संस्कृति की अनिवार्यता,आपसी सौहार्द,देश की एकता और अखंडता के प्रति गीत,एकांकी व लघु नाटिकाओं के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। एकांकी सोशल मीडिया का दुरुपयोग,वृक्ष हमारे जीवन साथी,इज्जाम टाइम के साथ-साथ गीत दिल है छोटा सा, मैं निकला गड्डी लेके, कभी मायूस मत होना,ये हिंदुस्तान हमारा है आदि गीतों पर बच्चों ने बेहतरीन प्रस्तुति देकर उपस्थित अतिथियों का मन मोह लिया।मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में विद्यालय परिवार की प्रशंसा करते हुए कहा कि छात्र-छात्राओं के द्वारा दी गई बेहतरीन प्रस्तुति को देखकर आभास हुआ की प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं हैं।मुझे आशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित इन विद्यालयों से बेहतर प्रतिभाएं निकल कर आयेंगी,जो देश के विकास में सहभागी बनेंगी।विद्यालय प्रबंधक गुल मोहम्मद रजा ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हुए अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षक, शिक्षिकाओं व सभी छात्र-छात्राओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यक्रम की सफलता आप सभी के सहयोग का ही परिणाम है।

शिक्षक के बिना देश का विकास संभव नहीं: टेनी

निघासन /सिंगाही-खीरी,(स्पष्ट आवाज)। विकसित भारत मिशन की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए प्रारंभ किए गए निपुण भारत मिशन को सफल बनाने हेतु एसएमसी के अध्यक्ष,सचिव, ग्राम प्रधान एवम स्थानीय निकाय के सदस्यों का एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी एवम उन्मुखीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ कस्बे के शिवा गेस्ट हाउस में किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
कार्यक्रम में कंपोजिट विद्यालय बंगलहा कुटी के बच्चों द्वारा सरस्वती वन्दना व कंपोजिट विद्यालय ढखेरवा खालसा के बच्चों द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि अजय मिश्र टेनी ने जनजातीय समाज के विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु बीईओ फूलचन्द के निर्देशन, नोडल एआरपी मधुरेश शुक्ल के सह निर्देशन, नोडल संकुल शिक्षक सुधांशु पंत के संयोजन, शिक्षक

गंगाराम, सुनीता कुमारी के सह संयोजन में प्रारंभ किया गया नवाचार, ट्राइबल एजुकेशनल नॉरिशमेंट इनोवेशन (टेनी) का शुभारंभ थारू समाज के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अध्ययन सामग्री वितरण कर किया । केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने संबोधित करते हुए सशक्त राष्ट्र के निर्माण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी महत्त्वपूर्ण योजनाओं को सरल भाषा में सविस्तार बताया व ब्लॉक में ऑपरेशन कायाकल्प में सराहनीय कार्य करने वाले ग्राम प्रधान व विद्यालय प्रभारियों को और ब्लॉक स्तरीय विज्ञान क्विज प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बीईओ ने ग्राम प्रधानों, एसएमसी अध्यक्ष व सदस्यों को साधुवाद दिया व उनके उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि शिक्षक, ग्राम प्रधान व एसएमसी अध्यक्ष की आपसी समन्वय के बिना विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती, निघासन क्षेत्र के शैक्षिक उन्नयन हेतु आपसे अधिकतम सहयोग अपेक्षित हैं।एआरपी मधुरेश शुक्ल ने शारदा कार्यक्रम के विषय में और विगत वर्ष के कार्यक्रम में लिए गए प्रत्येक संकल्प के पूर्ण होने उद्घोषणा की और पुष्टि स्वरूप राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों की प्रतिलिपि मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसकी मंत्री जी ने अत्यंत प्रशंसा की और प्रतिलिपियों को अपने अभिलेखीकरण में संरक्षित करने की बात कही।एआरपी मनोज कुमार ने डीबीटी कार्यक्रम, एआरपी देवेंद्र सिंह तोमर ने ऑपरेशन कायाकल्प, एआरपी नेहा उपाध्याय ने निपुण कार्यक्रम, एआरपी अनिल प्रताप सिंह ने एसएमसी के विषय में जानकारी दी।प्राथमिक विद्यालय बेलापरसुआ, कंपोजिट विद्यालय सिंधौना, उच्च प्राथमिक विद्यालय चखरा के विद्यार्थियों द्वारा मनोरम सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी । कार्यक्रम का संचालन वैभव पाण्डेय व दिलशाद अहमद के द्वारा किया गया।

उत्कृष्ट कार्यों के लिए सिद्धार्थ नगर के शिक्षक को किया गया सम्मानित

शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर स्पष्ट आवाज। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में आयोजित रामोत्सव एडुलीडर्स यूपी शैक्षिक समागम में जनपद सिद्धार्थनगर के शिक्षक अपूर्व श्रीवास्तव को उनके उत्कृष्ट कार्यो के लिए किया गया सम्मानित।
अयोध्या में आयोजित रामोत्सव एडुलीडर्स यूपी शैक्षिक समागम में उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के 102 शिक्षकों को आमंत्रित किया गया था । उत्तर प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाने के लिए विशिष्ट अतिथियों द्वारा अपने विचार रखे गये।तथा कार्यक्रम के आयोजक उत्तर प्रदेश संस्कृती विभाग एवं पर्यटन विभाग के सलाहकार आशुतोष द्विवेदी,जनपद बस्ती के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनूप कुमार तिवारी एवं एडुलियलर्स यूपी के संयोजक सर्वेष्ट मिश्र ने शिक्षक अपूर्व श्रीवास्तव की पीपीटी प्रस्तुति को बहुत सराहा तथा भगवान राम के नाम पर पटका पहनाकर एवार्ड एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया ।अपूर्व श्रीवास्तव को पूर्व में भी बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के द्वारा उत्कृष्ट एवं नवाचारी शिक्षक के रूप में सम्मानित किया जा चुका है तथा मिशन शिक्षण संवाद की तरफ से जनपद के अनमोल रत्न भी चुना जा चुका है ।वर्तमान में एसआरजी की भूमिका निभा रहे अपूर्व श्रीवास्तव के इस सम्मान से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी व शिक्षक राधे रमण त्रिपाठी, योगेन्द्र पाण्डेय, लाल जी यादव ,अवधेश कुमार सिंह ,देवेंद्र कुमार यादव ,अतिउल्लाह, अभय सिंह , राकेश राज,कल्पना ,दधीचि कुमार ,आमिर ,राम प्रसाद गुप्ता के साथ-साथ खूनियांव एवम शोहरतगढ़ के खंड शिक्षा अधिकारी ने प्रसन्नता व्यक्त की है तथा शिक्षक अपूर्व श्रीवास्तव को शुभकामनाएं दी है।

ऑनलाइन हाजिरी और डिजिटाइजेशन के विरोध में शिक्षकों ने दिया ज्ञापन

डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर स्पष्ट आवाज। ऑनलाइन हाजिरी और डिजिटाइजेशन के विरोध में शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को एसडीएम डुमरियागंज डॉ. संजीव दीक्षित के अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार महबूब आलम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने से पहले शिक्षक संगठन द्वारा सभी विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ने का भी अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला मंत्री/ब्लॉक अध्यक्ष डुमरियागंज राकेश पाण्डेय के नेतृत्व में दिया गया।
इस अवसर पर राकेश कुमार पांडेय ने कहा कि यह शिक्षको के अस्तित्व और गरिमा की लड़ाई है। अधिकारियों द्वारा विद्यालयों पर जाकर सिस्टम से व्यवस्था को ऑनलाइन किया जा रहा है। हम ऐसी व्यवस्था का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि 30

सीएल,14 ऑफ सीएल, कैशलेस चिकित्सा, शिक्षकों की पदोन्नति, स्थानांतरण आदि सभी सुविधाएं हम शिक्षकों को प्रदान किया जाए। उसके बाद ही डिजिटलाइजेशन के बारे में विचार किया जाएगा। इस अवसर पर भनवापुर ब्लाक अध्यक्ष अरुण कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि हमारा विरोध सिम और डाटा के लिए नहीं है बल्कि हमारे विरोध का कारण शिक्षक समस्याओं का निदान कराना है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला अध्यक्ष आदित्य शुक्ला के आह्वान पर सभी तहसीलों पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संगठन द्वारा प्राप्त निर्देशों में सभी विभागीय ग्रुपों से लेफ्ट होना है, उसके बाद अगले कार्य दिवस में हम सभी काली पट्टी बांधकर अध्यापन कार्य करेंगे। उसके बाद 13 मार्च को प्रदेश कार्यकारिणी प्रदेश स्तरीय अधिकारियों से मिलकर समस्या निदान के लिए प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर राम सिंह पाल, शिवम पाठक, इश्तियाक अहमद, शेषराम यादव, अंजनी कुमार, दिनेश चौधरी, राजेश, संजय शर्मा, विष्णुकांत, अली आज़म, राम नारायण दुबे, विवेक द्विवेदी, पवन कुमार, सुशील मिश्रा, फखरुद्दीन, रज़्ज़ाक अहमद, शिवानी उपाध्याय, श्वेता श्रीवास्तव, शशि लता चौधरी सहित भारी संख्या में शिक्षक उपस्थिय रहे

स्वयंसेवकों ने औषधीय पौधो का किया रोपण

शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर स्पष्ट आवाज। शिवपति स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शोहरतगढ़,सिद्धार्थनगर के राष्ट्रीय सेवा योजना (दोनों इकाई- रानी लक्ष्मीबाई तथा स्वामी विवेकानंद) सत्र 2023-24 का सात दिवसीय विशेष शिविर सोमवार के पांचवें दिन सुबह ग्रामीण वीरेंद्र सिंह स्टेडियम के पास में स्वयंसेवकों ने औषधीय पौधों का रोपण किया । तत्पश्चात वीरेंद्र सिंह स्टेडियम (विशेष शिविर स्थल) से गोंद लिए हुए बस्ती, अटल नगर एवं अंबेडकर नगर में बेटी पढ़ाओ, साफ-सफाई एवं शिक्षा के प्रति लोगों को कार्यक्रम अधिकारी डॉ0 ए0के0सिंह एवं डॉ0 आर0के0 सिंह के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने जागरूक किया द्य अपराह्न बाद बौद्धिक कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद इकाई द्वारा आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अरविंद कुमार सिंह थे । कार्यक्रम का मुख्य विषय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता एवं राष्ट्र गौरव था। प्रोफेसर सिंह ने अपने

व्याख्यान में कहा कि भारत प्राचीन काल से एक राष्ट्र रहा है और उसकी संस्कृति पूरे विश्व में अनुकरणीय है। भारतीय संस्कृति विविधता पूर्ण है और इसका राष्ट्रीय गौरव युवाओं को बना के रखना है द्य कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना एवं वंदन से शुरू हुआ । तत्पश्चात स्वयंसेवकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें स्वयंसेवकों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी द्य कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य गीत उठे समाज के लिए उठे उठे .. एवं राष्ट्रगान का गायन किया गया द्य उक्त कार्यक्रम में मेजर मुकेश कुमार, डॉ0 अजय कुमार सिंह, पंकज कुमार सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे ।

रोशनलाल के सेवा कार्यों से बढ़ रहा क्लब का गौरव: डॉ. तृप्ता

प्रतापगढ़। एलायंस क्लब इंटरनेशनल की इंटरनेशनल सम्मेलन विजय इंटरकांटिनेंटल होटल कानपुर में इंटरनेशनल प्रेसिडेंट डॉ तृप्ता कौर जुनेजा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इंटरनेशनल सम्मेलन में देश एवं विदेश से आए क्लब के पदाधिकारीयो ने सहभागिता की एवं वर्षभर किए सेवा कार्यों के लिए अवार्ड दिए गए। इसी क्रम में जिले, प्रदेश एवं देश के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले जिले के समाजसेवी व एलायंस क्लब के इंटरनेशनल डायरेक्टर रोशनलाल उमरवैश्य को अंतरराष्ट्रीय अवार्ड देकर इंटरनेशनल प्रेसिडेंट डॉ तृप्ता कौर एवं पूर्व प्रेसिडेंट भूपेन्द चाहवाला एवं केजी अग्रवाल ने सम्मानित करते हुए कहा कि रोशनलाल उमरवैश्य ने अपने सेवा कार्यो से प्रदेश, देश एंव विदेश में भी मुकाम हासिल किया है। रोशनलाल द्वारा किए जा रहे बहुआयामी सेवा कार्यों से

सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड देकर मुझे रोशनलाल उमरवैश्य पर गर्व हो रहा है मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही आगे भी क्लब का नाम इंटरनेशनल स्तर पर ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहेंगे। क्लब के पूर्व प्रेसिडेंट भूपेंद्र चाहवाला एवं केजी अग्रवाल ने रोशनलाल द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इंटरनेशनल अवार्ड से जिले का नाम रोशन करने वाले समाजसेवी रोशनलाल उमरवैश्य को इस उपलब्धि के लिए बधाइयां देने का ताता लगा रहा। बधाई देने वालों में वरिष्ठ साहित्यकार डॉ दयाराम मौर्य रत्न, राजीव कुमार आर्य, विनय श्रीवास्तव, राजेश सिंह, शाहिदा खान, संतोष कुमार, छेदीलाल, देवानंद, संजय खंडेलवाल, रवि अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल, आनंद मोहन ओझा, मानसिंह, गुलाबचंद, मदनलाल, शोभनाथ, शिवेश शुक्ला, परमानंद मिश्रा, अर्चना खंडेलवाल, पूनम गुप्ता, सुधा अग्रवाल, ज्योति खंडेलवाल, रेखा उमरवैश्य, आदर्श कुमार, विवेक कुमार आदि सैकड़ो लोगों ने बधाइयां दी।

वार्षिकोत्सव स्वरांजलि में छात्रों की प्रस्तुतियों ने मनमोहा

प्रतापगढ़। रायल इंटरनेशनल स्कूल शाहपुर नरायनपुर नौबस्ता के वार्षिकोत्सव स्वरांजलि में छात्र-छात्राओं ने प्रस्तुतियों से मनमोह लिया। शुभारंभ प्रबंधक संजय सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। बच्चों ने नुक्कड़ नाटक से मतदान के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। देशभक्ति से जुड़ा सामूहिक नृत्य एवं शिक्षा समाज की मूल आवश्यकता नाटक खूब सराहा गया। राजस्थानी नृत्य,गलती से मिस्टेक,मोनो एक्ट ने खूब वाहवाही लूटी। मुख्य अतिथि पीबीपीजी कालेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डा.शिव प्रताप सिंह ने बच्चों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ उनकी रुचि से जुड़ी प्रतिभा को भी निखारना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमो से बच्चों की प्रतिभा निखरती है। जोर देते हुए शिक्षकों से कहा कि

विद्यार्थियों को आने वाले समय की चुनौतियों से सजग रहकर लड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। देश व समाज की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने में युवाओं का विशेष योगदान रहता है। प्रिंसिपल दीपा सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आशीष सिंह ने आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। संचालन छात्र गिरेंद्र सिंह, सौरभ प्रजापति, अनुज यादव व छात्रा पलक शुक्ला,श्रेया पांडेय,अंतरा सिंह,गुनगुन ने किया। प्रधान संघ अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह,पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा स्वामीनाथ शुक्ल, आलोक सिंह, धर्मवीर शर्मा, रिंकू मिश्र, सलमान खान, हरिकेश मिश्र, अरविंद यादव आदि मौजूद रहे।

मतदाता सूची को तैयार करने में दिखेगी पारदर्शिता: एसडीएम

लालगंज,प्रतापगढ़। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर तहसील सभागार में बीएलओ तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसडीम प्रवीण द्विवेदी ने राजनैतिक दलों की प्रतिनिधियों से मतदाता सूची के वार्ड तथा गांव वार अभियान में सहयोग मांगा। वही एसडीएम ने बीएलओं तथा सुपरवाइजर से मतदान केन्द्रों में प्रबंधों को लेकर आख्या भी दिये जाने के निर्देश दिये। एसडीएम ने बताया कि अब तक रामपुर खास में परिवर्धन के प्राप्त उन्नीस हजार पांच सौ अटठान्वें में आवेदन में से अठारह हजार चार सौ छह स्वीकृत हुये है। वही विलोपन के तहत कुल ग्यारह हजार छह सौ अठारह स्वीकृत किये गये है। इसी तरह संशोधन में दो हजार चौरानवें के सपेक्ष अठारह सौ इक्सठ स्वीकृत तथा तिरसठ अस्वीकृत हुये है। बैठक में कांग्रेस के प्रतिनिधि ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने राजनैतिक दलों को बीएलओं तथा सुपरवाइजर की सूची उपलब्ध कराये जाने का सुझाव रखा। भाजपा के राजेश मिश्र ने छूटे नामों को बढ़ाये जाने पर जोर दिया। सपा के रामधन यादव तथा आम आदमी पार्टी के बृहस्पति पाण्डेय भी सुझाव रखे। बैठक मे तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कार्यवृति प्रस्तुत किया।

सीमांकन कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, ज्ञापन

पलियाकलां-खीरी,(स्पष्ट आवाज)। अपनी भूमि का सीमांकन कराने की मांग को लेकर तहसील पहुंचे पटिहन के ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया है। सोमवार को

पलिया तहसील क्षेत्र के गांव पटिहन निवासी दर्जनों ग्रामीण तहसील जा पहुंचे और समस्या के समाधान की मांग को लेकर नारेबाजी की। ग्रामीण उमाशंकर, मुन्ना, अशोक, राजेश, हरीशंकर ने कानूनगो के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी भूमि का सीमांकन होना है जिसके लिए एसडीएम द्वारा निर्देश भी दिया जा चुका है। आरोप है कि कानूनगो द्वारा भूमि का सीमांकन नहीं किया जा रहा है। कई बार चक्कर लगाने के बाद भी कानूनगो द्वारा टालमटोल किया जाता है। जिससे उनको परेशानियां हो रही हैं। भूमि सीमांकन के लिए एसडीएम के निर्देश को भी कानूनगो नहीं मान रहे हैं, जिससे उनकी भूमि का सीमांकन नहीं हो पा रहा है। मामले में भूमि सीमांकन कराने की मांग ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देकर की है।

नवनियुक्त पदाधिकारियों का सपा कार्यालय पर हुआ स्वागत

शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर स्पष्ट आवाज। समाजवादी पार्टी कार्यालय शोहरतगढ़ पर पूर्व शोहरतगढ विधानसभा प्रत्याशी उग्रसेन सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया।स्वागत समारोह में सपा प्रदेश सचिव बेचई यादव,लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष हारून खान,छात्रसभा विष्णु उमर, यूथ ब्रिगेड राम अवतार यादव,अल्पसंख्यक के शकील शाह,युवजन सभा के राम सेवक लोधी एवं राष्ट्रीय सचिव छात्रसभा अजय चौरसिया,प्रदेश सचिव विजय चौधरी,राज कुमार यादव, नियाज़ सिद्दकी,जयकरन गौतम आदि

लोगो का शोहरतगढ़ विधानसभा कार्यालय पर स्वागत किया गया।बसपा के पूर्व कोर्डिनेटर व युवा नेता राममिलन भारती ने बसपा छोड़ कर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समकक्ष सदस्यता ग्रहण की।राम मिलन भारती के शोहरतगढ़ आगमन पर सपा कार्यालय शोहरतगढ़ पर सपा नेता उग्रसेन सिंह ने स्वागत किया।इस दौरान सपा विधान सभा अध्यक्ष हरिनारायन यादव ,वीरेंद्र तिवारी विष्णु उमर,वकार खान,बलराम चौरसिया,अशफाक पटेल,उमेश यादव,रामू यादव,गुड्डू सिंह, डब्लू सिंह समेत काफी संख्या मे सपा कार्यकर्ता उपस्थित रहें।

तीन दिवसीय पावर एंजिल प्रशिक्षण का शुभारंभ

ब्लाक संसाधन केंद्र में 40-40 के दो बैचो में हो रहा प्रशिक्षण

- बच्चों के सर्वांगिण विकास पर परिषदीय शिक्षक दें जोर

डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर स्पष्ट आवाज। बीआरसी डुमरियागंज के प्रशिक्षण हाल में ब्लाक के सभी पूर्व माध्यमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों के एक-एक शिक्षकों का पावर एंजिल का प्रशिक्षण सोमवार से शुरू हो गया। उक्त प्रशिक्षण में विशेष रूप से महिला शिक्षकों की प्रतिभागिता अधिक रही। प्रशिक्षक बृज किशोर और ऋचा श्रीवास्तव ने तीन दिवसीय प्रशिक्षण के पहले दिन बच्चों के सर्वांगिन विकास पर बल दिया।
इसके पूर्व 40-40 शिक्षकों के समूह अलग-अलग कक्षों में पहुंचे। जिन्हें प्रशिक्षक ऋचा श्रीवास्तव ने कहा शिक्षक इस बात पर विशेष ध्यान दें कि बच्चे

नियमित रूप से विद्यालय आएं, इसके लिए रुचिपूर्ण गतिविधि से बच्चों को जोड़े रखें। बच्चों के शारीरिक विकास के साथ मानसिक व संवेगात्मक विकास पर जोर देना चाहिए। क्योंकि भविष्य में बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओ में प्रतिभाग करना है, ऐसे में उन्हे अभी से तैयार करें। प्रशिक्षक बृज किशोर ने स्वछता के महत्त्व के बारे में कहा कि बच्चों के शौच के बाद 20 सेकेण्ड हाथ धुलाएं, रसोईयों के व्यक्तिगत स्वछता पर भी ध्यान दें। विद्यालय परिसर के साफ सफाई व घर पर भी बच्चों को और स्वजनों को सफाई के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चे जब किसी योजना प्रचार करते हैं तो आसानी और तीव्रता से लोगों में पहुंचती है।
इस अवसर पर शिवांगी जौहरी, संगीता, दिलकश जहाँ, कमलेश चौधरी, शशिलता चौधरी, अनुराग वर्मा, चूल्होई प्रसाद, पूजा सिंह, दिलीप यादव, राम नरायन दुबे, मंजू शाक्य, अंकिता शाह, फरजाना खातून, आबिदा, साइना फारुकी, शहनाज, कासिम खान, राहुल मिश्रा, दिलीप शर्मा, मनीष चौरसिया, राहुल, अनुराग आदि शिक्षक उपस्थित रहे।

धूमधाम से निकली खाटू श्याम की निशान यात्रा

मोहम्मदी- खीरी,(स्पष्ट आवाज)। नगर में खाटू वाले श्याम तेरा ही सहारा,तेरे सिवा दुनिया में कोई न हमारा।जिस घर में खाटू वाले की तस्वीर लगाई जाती है,जिस घर का छोटा बच्चा भी श्री श्याम की माला जपता है,वहां श्याम का पहरा रहता है... कुछ इसी तरह के खाटू श्याम के भजनों पर सोमवार को भक्ति में सराबोर श्रद्धालुओं ने नाचते गाते निशान यात्रा निकालकर पूरे शहर में फूलों की होली खेली।श्री श्याम परिवार मोहम्मदी की तरफ से सोमवार को खाटू श्याम बाबा की निशान यात्रा बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ निकाली गई।यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। महिलाओं ने इस दौरान फूलों व गुलाल की जमकर होली खेली। खाटू श्याम बाबा के जयकारे लगाकर पूरा माहौल को भक्तिमय कर दिया। प्रातः 9 बजे ब्रह्मदेव आश्रम बर्बर रोड से खाटू श्याम बाबा की निशान यात्रा पूरे नगर में धूमधाम के साथ निकाली गई।यह यात्रा बर्बर चौराहा से सब्जी मंडी,कन्या पाठशाला,शुक्लपुर होते हुए पीडी भारतीय इंटर कॉलेज से अशोक चौराहा होते हुए रामलीला चौराहा सहित विभिन्न मार्गो से होकर गुजरी।यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने जमकर फूलों व गुलाल की होली खेली।वह भगवान के भजनों पर झूमते रहे। एक-दूसरे को गुलाल लगाकर पुष्पों की वर्षा की।जिस भी मार्ग से होकर यह यात्रा निकली वहां पर खड़े लोग यात्रा को देखते रहे।पुष्प वर्षा, रंग-गुलाल उड़ाते आगे बढ़ रही निशान यात्रा को देखकर हर कोई रोमांचित हो उठा।निशान यात्रा में नगर पालिका अध्यक्ष संदीप मेहरोत्रा कन्हैया,आनंद बाजपेई,नेता श्याम किशोर अवस्थी,अतुल बाजपेई,बाबा राम भजन दास,मनोज गुप्ता,संजीव मल्होत्रा,आदित्य श्री श्याम परिवार टीम में विवेक गुप्ता अक्षत गुप्ता यीशु गुप्ता स्पर्श मल्होत्रा अमन रस्तोगी कुशल रस्तोगी अंकुर गुप्ता सौरभ गुप्ता संजय चतुर्वेदी रंजन गुप्ता डॉ धर्मेंद्र करन राठौर अंकित राठौर सहित सैकड़ो भक्तों मौजूद रहे।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत कार्यशाला के पास चिलबिला, प्रतापगढ़

ई-निविदा सूचना

अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा दो भागों में आन-लाईन आमंत्रित की जाती है, आनलाइन निविदा http://etender.up.nic.in पर दिनांक 15.04.2024 को अपरान्ह 16.00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है एवं जिसके खुलने की तिथि 16.04.2024 को अपरान्ह 13.00 बजे निर्धारित है। निविदा के प्रथम भाग में निविदा प्रपत्र मूल्य एवं धरोहर धनराशि, जो कि आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा (निविदा प्रकाशित होने की तिथि के बाद का ही आर0टी0जी0एस0/एन0ई0 एफ0टी0 की गयी धरोहर धनराशि एवं निविदा शुल्क मान्य होगी) अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, प्रतापगढ़ के बैंक खाता संख्या 1869005500020112 (IFSC Code - PUNB0186900, Punjab National Bank, 77/2, Station Road, Pratapgarh) में दिनांक 13.04.2024 को अपरान्ह 16:00 बजे तक ही जमा की जायेगी तथा बैंक जमा की साक्ष्य यथायोज्य यू0टी0आर0 संख्या पे-इन-स्लिप की मूलप्रति (इश्यू बैंक के कन्फर्मेशन मेल की प्रति) ई-निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाइन अपलोड की जायेगी, एवं सम्बन्धित बैंक से पुष्टि तथा निविदा के प्रथम भाग की शर्तों के पूर्ण होने के उपरान्त ही निविदा का द्वितीय भाग खोला जायेगा। निविदा खुलने की तिथि को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस में निविदा खोली जायेगी। **कार्य का विवरण :-** ई-निविदा संख्या 64/वि0वि0मं0प्रता0/2023-24 बिजनेस प्लान योजना वर्ष 2024-25 फेज-1 के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, प्रतापगढ़ के अधीन समस्त 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों के अनुरक्षण एवं प्रोटेक्शन का कार्य। निविदा शुल्क : रू0 3540.00 (3000+540 जी0एस0टी0) मात्र। धरोहर धनराशि : रू0 33000.00 (रू0 तैंतीस हजार) मात्र। ई-निविदा संख्या 65/वि0वि0मं0 प्रता0/2023-24 बिजनेस प्लान योजना वर्ष 2024-25 फेज-1 के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय कुण्डा, प्रतापगढ़ के अधीन समस्त 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों के अनुरक्षण एवं प्रोटेक्शन का कार्य। निविदा शुल्क : रू0 3540.00 (3000 + 540 जी0एस0टी0) मात्र। धरोहर धनराशि : रू0 24000.00 (रू0 चौबीस हजार) मात्र। ई-निविदा संख्या 66/वि0वि0मं0प्रता0/2023-24 बिजनेस प्लान योजना वर्ष 2024-25 फेज-1 के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड-लालगंज, प्रतापगढ़ के अधीन समस्त 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों के अनुरक्षण एवं प्रोटेक्शन का कार्य । निविदा शुल्क : रू0 3540.00 (3000 + 540 जी0एस0टी0) मात्र। धरोहर धनराशि : रू0 23000.00 (रू0 तेईस हजार) मात्र। ई-निविदा संख्या 67/वि0वि0मं0प्रता0/2023-24 बिजनेस प्लान योजना वर्ष 2024-25 फेज-1 के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड-रानीगंज, प्रतापगढ़ के अन्तर्गत अधीन 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों के अनुरक्षण एवं प्रोटेक्शन का कार्य। निविदा शुल्क : रू0 3540.00 (3000 + 540 जी0एस0टी0) मात्र। धरोहर धनराशि : रू0 17000.00 (रू0 सत्रह हजार) मात्र। **नोट :** निविदा में प्रतिभाग करने हेतु नियम एवं शर्तों, विस्तृत जानकारी, डाउनलोड अन्य संशोधनों एवं निविदा प्रस्तुत करने के तिथि तक विस्तार आदि के सम्बन्ध में कृपया http://etender.up.nic.in पर लाग आन करें। **नियम व शर्ते :** 1. कार्य एक या कई फर्मों को आवंटित किया जा सकता है। 2. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। 3. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। 4. निविदा खुलने की तिथि पर सार्वजनिक अवकाश या अन्य कारणों से कार्यालय बन्द होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस जिसमें कार्यालय खुला होगा, खोली जाएगी। 5. निविदादाताओं द्वारा निविदा के प्रथम भाग में संलग्न समस्त प्रपत्रों पर निविदादाता द्वारा स्वः हस्ताक्षरित (मोहर सहित) करना अनिवार्य होगा।

अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत वितरण मण्डल, प्रतापगढ़
पत्रांक : 948/वि.वि.मं.प्रता./सा.अनु./टी.-3, दिनांक : 11.03.2024
'राष्ट्र हित में ऊर्जा बचायें, बल्व की जगह एल.ई.डी. लगायें'

माह रमजान व होली को सौहार्द पूर्ण ढंग से मनायें: एसडीएम

पूरनपुर-पीलीभीत (स्पष्ट आवाज)। पाक माह रमजान एवं होली उत्सव को शान्ती पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने को प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्वारा तहसील सभागार में पीस कमेटी का आयोजन किया गया पीस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी राजेश कुमार शुक्ला ने सीओ आलोक कुमार सिंह व प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार की मौजूदी में सम्पन्न हुयी पीस कमेटी बैठक का सफल संचालन सीओ आलोक कुमार सिंह द्वारा किया गया। पाक माह रमजान व होली के पर्वो को शान्ती पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने को आयोजित बैठक में सीओ आलोक कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्र में 116 स्थानों पर होली दहन की जाती है शान्तीपूर्ण ढंग से होली सम्पन्न कराने व असमाजिक तत्वों से निपटने को हर गांव में प्रधान सहित पांच सदस्यीय कमेटी का गठन कर व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी तथा गांव का चौकीदार व पांच सदस्यीय कमेटी असमाजिक तत्वों पर नजर रखेगी तथा समय पड़ने पर प्रशासन व पुलिस को तत्काल सूचना करेगी सीओ श्री सिंह ने बताया कि क्षेत्र होलनी दहन व रंग खेलने के बाद दो बजे के बाद समस्त डीजे बन्द करा दिये जायेंगे तथा दो बजे बाद बाइकों से हुड़दंग मचाने वाले युवकों पर पुलिस व प्रशासन की तेज नजर रहेगी तथा अपने उच्च अधिकारियों से बात कर शराब की दुकाने बन्द रखी जायेगी। एसडीएम राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि रमजान व होली के अवसर पर पानी बिजली एवं नगर में विशेष सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ को निर्देशित कर ग्रामों में साफ सफाई बिजली पानी व्यवस्था दुरुस्त करायी जायेगी एसडीएम ने कहा कि रमजान व होली के पर्व को हम सभी आपस में मिलजुलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाये और एक सच्चा देशवासी होने का परिचय दे कोतवाल प्रवीण कुमार ने पीस कमेटी में उपस्थित सभी से रमजान एवं होली पर्वो को सौहार्द पूर्ण वातावरण में मनाने की अपील करते हुये कहा कि यदि किसी भी स्थान में कोई समस्या हो तो तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस को तत्काल सूचना दे समस्या का तुरन्त निस्तारण किया जायेगा पीस कमेटी में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अमिताभ मिश्रा महामंत्री संजय पांडे उपाध्यक्ष शिवराम सनाढ्य जैगम खां युनुस खां नईम खां संजय विश्वास दामोदर प्रसाद यादव त्रिभुवन शर्मा आदि ने रमजान व होली पर्वो के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करायी गयी पीस कमेटी बैठक में कुलवन्त सिंह बाजवा नरेश पाल सिंह राज कुमार सिंह विकास सागर सत्यपाल वर्मा प्रदीप सक्सेना रूम सिंह यादव सहित भारी संख्या में अधिवक्ता व नागरिक मौजूद रहे।

हिंदू कॉलेज में दो दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ

मुरादाबाद। कोतवाली क्षेत्र के बुध बाजार स्थित हिंदू कॉलेज में दो दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्रबंधक अमित कोठीवाल द्वारा दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का दीप जलाकर शुभारंभ किया और सभी खिलाड़ियों को बधाई भी दी। बताते चले कि सोमवार की सुबह हिन्दू कालेज में दो दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज किया गया इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अमित कोठीवाल द्वारा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियो से उनका परिचय लिया गया उसके बाद प्रतियोगिता शुरू की गयी। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ एस एस रावत ने बताया महाविद्यालय की खेलकूद प्रतियोगिता में छात्र-छात्राएं बढ़-चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं अनेक प्रतियोगिताओं में खेलों के क्षेत्र में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के साथ समापन पर पुरस्कार दिए जाएंगे।

रमजान को लेकर नगर निगम प्रशासन अलर्ट

मुरादाबाद। मंगलवार से पूरे देश के साथ ही महानगर में रमजान उल मुबारक का बरकती महीना शुरू होने जा रहा है जिसको लेकर नगर निगम प्रशासन की ओर रमजान को लेकर शहर की सभी मस्जिदों के आसपास सफाई व्यवस्था और लाईटिंग की व्यवस्था की जा रही है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बताते चले कि रमजान उल मुकद्दस का महीना शुरू होने से पहले ही नगर निगम की ओर से मस्जिदों के बाहर साफ सफाई व्यवस्था को दुरूस्त करना शुरू कर दिया है। सोमवार को नगर निगम कर्मी महानगर की मस्जिदों के बाहर पहुंचे और उनके द्वारा साफ सफाई व्यवस्था के साथ ही मस्जिदो के बाहर चूने का छिड़काव किया और नालियो की भी सफाई की। वहीं अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार ने बताया कि रमजान को लेकर सभी कर्मचारियों को निर्देश दे दिए गए हैं शहर में सफाई व्यवस्था और लाईटिंग की व्यवस्था की जा रही है।

एसएसपी ने किया पुलिस कार्यालय में निर्माणाधीन कार्यो का निरीक्षण

मुरादाबाद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा द्वारा पुलिस कार्यालय में प्रचलित मरम्मत/निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। बताते चले कि सोमवार की सुबह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अचानक पुलिस कार्यालय में पहुंचे और वहां उनके द्वारा कार्यालय में मरम्मत/निर्माणाधीन कार्यों को बारीकी से देखा और सभी कक्षो में पहुंचकर डयूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से वार्ता की इसके अलावा पुलिस कप्तान द्वारा कार्यालय में चल रहे मरम्मत कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के कड़े दिशा निर्देष दिये। अचानक एसएसपी को कार्यालय में देखकर डयूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों में हड़कम्प मच गया। जब एसएसपी हेमराज मीणा निरीक्षण करके वापस लौटे तब जाकर पुलिस कर्मियों ने राहत की सांस ली।

संक्षिप्त आवाज़

मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर आज पहुंचेगी वंदे भारत ट्रेन पहुंचेगी

मुरादाबाद। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर 12 मार्च को वंदे भारत ट्रेन पहुंचेगी रेल प्रशासन ने तैयारियां की शुरू , मुरादाबाद के नागरिक वंदे भारत ट्रेन में निशुल्क सफर कर सकते है। जिसको लेकर रेलवे अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई। बताते चले कि मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के मनन सभागार में मण्डल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने मण्डल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 12 मार्च को आयोजित होने वाले मुरादाबाद मण्डल के स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल के उद्घाटन एवम देहरादून से लखनऊ के लिए हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चयुल उद्घाटन कार्यक्रम की विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर उन्होने कई विषेश मुद्दो पर चर्चा की।

बंगाली परिवारों को पट्टा दिलाए जाने को मुख्यमंत्री को भेजा पत्र

पूरनपुर-पीलीभीत (स्पष्ट आवाज)। तहसील क्षेत्र के वार्ड नंबर एक की जिला पंचायत सदस्य रूपेंद्र कौर ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर बताया है कि जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में पडने वाले ग्राम चंदिया हजारा में भारत बांग्लादेश विभाजन के दौरान सांप्रदायिक अहिंसा पीड़ित बंगाली भाषा हिंदू स्थापित 415 परिवारों को वर्ष 1970 में तत्कालीन सरकार ने कृषि भूमि पर पुनर्वासित कर बसाया गया था। भूमि वन विभाग से हस्तांतरित कर वहां से आए हुए लोगों को बस दिया गया था। भूमिका का अमल दरामद राजस्व विभाग में नहीं दर्ज कराया गया। जिससे 50 वर्ष गुजर जाने के बाद भी विस्थापित किसानों की भूमिका मालिकाना अधिकार न मिलने से तमाम सरकारी योजनाओं से यहां के लोग वंचित रहते हैं। चंदिया हजारा में पुनर्वासित कर बसाए गए विस्थापितों में से 13 विस्थापित परिवारों को अभी तक पुनर्वास योजना का लाभ नहीं दिया गया है। जिससे परिवार भुखमरी गरीबी की जिंदगी जीने पर मजबूर है। पत्र में बताया गया है कि राजस्व अभिलेखों में ग्राम समाज में दर्द 1976 में 63 परिवारों को पट्टे दिए गए। वन विभाग के धारा 6 हटाकर अधिसूचित बता रही है। जवकि राजस्व बिभाग के अभिलेख में ग्राम समाज दर्ज 1976 में 63 गरीब परिवारों को पट्टा दिया गया। उन्होने धारा 6 को हटाकर काविज गरीबों को पट्टा दिलाए जाने की मांग की है।

आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर डीएम ने प्रिंटिंग प्रेसस्वामियों के साथ की बैठक

बदायूँ(स्पष्ट आवाज़)।आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी मनोज कुमार द्वारा प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों के साथ एक बैठक की गई।बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद के प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि कोई भी प्रिंटिंग प्रेस स्वामी,प्रकाशक के घोषणा पत्र के बिना कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री प्रकाशित न करें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं में उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी,जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी सामग्री जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो मुद्रित या प्रकाशित नहीं की जाएगी।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार,एडीएम एफआर डॉ वैभव शर्मा,एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद? रहे।

भाकियू ने पंचायत कर जिलाधिकारी को सौंपा ग्यारह सूत्रीय ज्ञापन

बदायूँ(स्पष्ट आवाज़)भाकियू चढ़ूनी द्वारा मालवीय आवास गृह पर सोमवार को आयोजित मासिक पंचायत में किसाने की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। पंचायत के दौरान यूनियन द्वारा किसाने की समस्याओं से संबंधित ग्यारह सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया।पंचायत को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सतीश साहू में कहा कि प्रशासन किसानों के प्रति लापरवाही कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे मौसम बरसात ओलावृष्टि से किसाने की फसल चौपट हो गई है जिससे उसका बहुत नुकसान हुआ है, किसान इस समय कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार को चाहिए की कर्जदार किसानों की कर्ज अदायगी की समय सीमा में इजाफा किया जाए और उनकी आरसी ना काटी जाए। उन्होंने कहा कि मिडडे मील में घोटाले हो रहे हैं इसकी जांच की अति आवश्यकता है।

डीएम ने स्ट्रांग रूम सहित मतगणना स्थल का किया निरीक्षण

अम्बेडकरनगर(स्पष्ट आवाज)। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल संपन्न कराने हेतु आज जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अविनाश सिंह द्वारा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अकबरपुर में चुनाव के उपरांत ईवीएम सहित अन्य सामग्रियों को जमा करने व स्ट्रांग रूम सहित मतगणना स्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, उप जिलाधिकारी सदर, सहित निर्वाचन विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यहां की सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त कर लिया जाए। जिससे निर्वाचन 2024 को सकुशल संपन्न कराया जाए, साथ ही साथ निर्वाचन के दौरान लगे हुए कर्मचारियों की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाए, जिससे कर्मचारी पूरे मनोयोग से दिए हुए दायित्व का निर्वहन करें।

जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट के विभिन्न पटलों तथा कार्यालयों का किया निरीक्षण

अम्बेडकरनगर(स्पष्ट आवाज)। जिलाधिकारी अविनाश सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट के विभिन्न पटलो तथा कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा पंच स्थानीय चुनाव कार्यालय, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, सूचना विभाग, संयुक्त कार्यालय, स्थानीय निकाय, अनुभाग कार्यालय, चकबंदी कार्यलय, नजारत कार्यालय तथा आपदा कार्यालय का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा कार्यालय की साफ सफाई, फाइलों की रख रखाव तथा अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा कार्यालय अध्यक्ष को निर्देशित किया कि कार्यालय की नियमित साफ सफाई कराए। साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया गया कि समस्त अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय में समय से उपस्थित रहे तथा अपने पदीय दायित्वो का निर्वहन करे। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी डॉ सदानंद गुप्ता, अपर उपजिलाधिकारी सौरभ शुक्ला, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारी मौके पर उपस्थित है।

कलेक्ट्रेट परिसर में दिव्यांगजनों को वितरित किए गए ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर

अम्बेडकरनगर(स्पष्ट आवाज)। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में 35 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, 06 व्हीलचेयर का वितरण डॉ हरिओम पाण्डेय सदस्य विधान परिषद, श्याम सुन्दर उर्फ साधू वर्मा अध्यक्ष जिला पंचायत, अविनाश सिंह जिलाधिकारी, अनुराज जैन, मुख्य विकास अधिकारी, डॉ सदानन्द गुप्ता अपर जिलाधिकारी की उपस्थिति में किया गया। वितरण के समय नरेन्द्र प्रताप सिंह मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, विकम कौशल जिला समाज कल्याण अधिकारी, राकेश कुमार जिला प्रोवेशन अधिकारी, छोटेलाल जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, विकास पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, उपस्थिति रहे। सभी दिव्यांगजनों को माला और लंचपैकेट देकर विदा किया गया। जनप्रतिनिधियों एवं जिलाधिकारी के हाथो से सहायक उपकरण पाकर दिव्यांगजनों के चेहरे खिल उठे।

साहब से सेटिंग कर सड़क पर दौड़ रहीं डग्गामार बसें

अम्बेडकरनगर(स्पष्ट आवाज)। डग्गामार बसों का जाल परिवहन निगम को कंगाल कर रहा है। आजमगढ़ से गाजियाबाद नोएडा आनन्द विहार के लिए सैकड़ों डग्गामार बसें दौड़ रहीं हैं। इन बसों के खिलाफ अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। चौकी और थानों के सामने से यह बसें खूब फर्राटे भर रहीं हैं। चल रहीं डग्गेमार बसें महीने में करोड़ों रुपये का नुकसान कर रही हैं। इन बसों को बड़ी चालाकी के साथ चलाया जा रहा है। शहर के अंदर यह बसें प्रवेश नहीं करती हैं। बाईपास से सवारियों को ढोते हुए निकल जाती हैं, जिससे कोई विरोध भी नहीं करता। बसों में नंबर का भी खेल हो रहा है। परिवहन विभाग के अधिकारियों की साठगांठ से जिले में डग्गामार बसें सैकड़ों की संख्या में घूम रहीं हैं। सुबह से रात तक यह बसें सवारियां ढो रहीं हैं, लेकिन अधिकारियों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। यही कारण है कि अवैध एवं डग्गामार बसों का जाल कई जिलों में फैला हुआ है।सूत्रों का कहना है कि प्रतिदिन तीनों मार्गों पर यह बसें परिवहन निगम को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचा रही हैं। महीने में कई करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। आनन्द विहार की सीमा तक मार्ग पर चौकी और थाने पड़ते हैं। यह भी क्षतिग्रस्त और डग्गामार बसों को नहीं रोकते हैं। इससे इनके हौसले और ज्यादा बुलंद रहते हैं। दिनभर यह बसें सवारी ढोती हुई मिल जाएंगी। जबकि हाईवे पर यह बसें सवारी नहीं ढो सकती हैं। यही नहीं इन बसों पर लगेज कच्चे बिल पर लड़े जाते हैं और यह दिल्ली से लाकर सीधे आजमगढ़ तक बिना मालिक के पहुंचाते हैं जिससे आयकर विभाग को भी चूना लगाया जा रहा है परंतु आयकर विभाग भी आंख बंद किए हुए पड़ा है। लेकिन सबसे अहम बात प्रश्न यह होता है उठना है की आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक यह एआरटीओ और पुलिस की निगाह से कैसे बचकर निकलते हैं इसका भी पोल आज जनपद में एआरटीओ द्वारा की गई कार्यवाही के पश्चात गाड़ी पर कार्यरत परिचालक द्वारा खुलासा हो गया कि उनके द्वारा रास्ते में पढ़ने वाले सभी एआरटीओ,आरटीओ तथा थाने पर बधी रकम दी जाती है जिससे इनको संचालन करने की छूट मिल जाती है। यात्रियों का क्या कहना मार्ग पर कहीं भी दुर्घटना हो तो उसकी भरपाई यात्री स्वयं करेगा या तो सरकार द्वारा क्षति पहुंचने पर या मृत्यु हो जाने पर उनको राहत पहुंचाने के लिए धनराशि भी दी जाएगी।

अहिप ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

पूरनपुर-पीलीभीत (स्पष्ट आवाज)। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने सोमवार को तहसील पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी राजेश शुक्ला को सौपा। जिसमें कहा गया है कि तहसील पूरनपुर में दिन रात ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जिसके चलते लोग बीमार हो रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बैच के अनुसार आवासीय क्षेत्र में 45 से 55 डेसिमल ही आवाज होनी चाहिए। लेकिन आज यह आवाज 300 डेसिमल को पार कर गई। सुबह चार बजे से प्रत्येक धार्मिक संस्थान में चार-चार लाउडस्पीकरों को तेज आवाज में बजाया जाता है।जिससे बुजुर्ग एवं बीमार लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बच्चों की स्कूल एवं बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। तेज आवाज के चलते उनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रही है।बारात घर,बैंकट हाल,होटल बैंड बाजा, पटाखे और डीजे रात में 12 से दो दो बजे तक तेज आवाज में बजाए जाते हैं।कई बार शिकायत की गई लेकिन समस्या का कोई ध्यान नहीं दिया गया। इन दिनों बाइक और तेज मिस फायरिंग का कोई समय नहीं है। अचानक से रात और दिन में बुलेट बाइक द्वारा तेज आवाज में चलते हुए साइलेंसर से पटाखा छोड़ते है। जिसके चलते लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय व शासन का स्पष्ट आदेश है कि समय अनुसार एवं मानक के अनुरूप ध्वनि प्रदूषण कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट के आदेशों की अवेहलना की जा रही है। नियमों को ताक पर रख कर प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उन्होंने इस पर पाबंदी लगाई जाने की मांग की है। ज्ञापन देने के दौरान धनंजय मिश्रा, शिवम भदोरिया,राम शंकर गुप्ता,शिवा पांडे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे।

पुलिस को स्थानीय लोगों ने लूटकांड का त्वरित खुलासा करने पर किया सम्मानित

अम्बेडकरनगर(स्पष्ट आवाज)। औद्योगिक बुनकर नगरी टाण्डा में गत शुक्रवार की रात्रि में असलहा के बल पर हुई कपड़ा व्यापारी से लूट का शीघ्रता से पर्दाफाश करने पर स्थानीय लोगों ने सीओ टाण्डा, कोतवाली निरीक्षक टाण्डा, अलीगंज थानाध्यक्ष व चौकी इंचार्ज को भव्य कार्यक्रम में सम्मानित किया। बताते चलेंकि अलीगंज थानाक्षेत्र के टाण्डा नगर में स्थित सालार गढ़ मस्जिद के पास कपड़ा व्यापारी मो.फहद पुत्र शाहिद उर्फ गुड्डू का बैग बदमाशों द्वारा असलहा के बल पर लूट लिया गया था, जिसके बाद एसपी डॉ कौस्तुभ ने एडिशनल एसपी पश्चिमी विशाल पांडेय व सीओ टाण्डा शुभम कुमार के नेतृत्व में चार टीम गठित किया था। उक्त टीम द्वारा मात्र 24 घंटा में घटना का वास्तविक पर्दाफाश किया गया। घटना में शामिल अंतरप्रांतीय बदमाश से टाण्डा कोतवाली निरीक्षक संतोष कुमार सिंह व अलीगंज थानाध्यक्ष गजेंद्र विक्रम सिंह की मुठभेड़ भी हुई जिसमें दो बदमाश घायल हो गए। लूटकांड की घटना का त्वरित खुलासा करने पर बुनकर नगरी टाण्डा में खुशी की लहर दौड़ गई।

पूर्व मंत्री डा0 विनोद तिवारी हो सकते है लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी

पूरनपुर-पीलीभीत (स्पष्ट आवाज)। पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा सीट से कौन होगा भाजपा प्रत्याशी अटकलों का बाजार गर्म है जनचर्चा है कि पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा सीट से उ0प्र0 के पूर्व स्वास्थ्य राज्यमंत्री डा0 विनोद तिवारी ने भी भाजपा का टिकट पाने को भाजपा के उच्च नेताओं से सम्पर्क बना रखा है और वह पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी बनकर भाजपा का टिकट पाने को दिल्ली में डेरा डाले हुये है सूत्रों की माने तो डा0 विनोद तिवारी का पीलीभीत बहेड़ी लोक सभा क्षेत्र की टिकथार्थियों की लिस्ट में दूसरे नम्बर पर नाम होने की चर्चाए चल रही है डा0 विनोद तिवारी स्वच्छ दवि व रोहेलखण्ड मंडल के एक मात्र ब्राहम्ण कदवार नेता के रूप में जाने पहचाने जाते है तथा यदि उनको भाजपा लोकसभा का प्रत्याशी घोषित करती है तो लोकसभा क्षेत्र का लगभग चार लाख मुस्लिम मतदाताओं में से 70 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं एवं क्षेत्र के समस्त ब्राहम्णों सहित अन्य वर्गो का पूर्ण सहयोग मिलने की चर्चाए हो रही है।

अवैध शराब के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

चित्रकूटः पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देश पर अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम के लिए चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस द्वारा दो आरोपियों को 62 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। चौकी प्रभारी शिवरामपुर सत्यमपति त्रिपाठी तथा आरक्षी नरेन्द्र, श्यामू द्वारा राम सिंह निवासी बड़ी मैडयन को 42 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

त्यौहारों को देखते हुए डीएम ने ली धर्माचार्यों की मिटिंग

बिजनौर(स्पष्ट आवाज) जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने सभी धर्मगुरूओं एवं संभ्रांत लोगों का आहवान किया कि यदि उनके संज्ञान में कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने अथवा संप्रदायिक भावना को भड़काने आदि संबंधी कोई सूचना प्राप्त होती है तो स्वयं हस्तक्षेप न करते हुए तत्काल प्रशासन को सूचित करें ताकि तत्काल सक्षम अधिकारियों को मौके पर भेजकर समस्या का समाधान किया जा सके। उन्होंने प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन होली, रमजान, ईद उल फितर सहित सभी त्योहारों को पूर्ण सौहार्द, परम्परागत और शांतिपूर्वक रूप से सम्पन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने जन सामान्य का आवाहन किया कि किसी भी अवस्था में ऐसा कोई कार्य न करें जो अपरम्परागत हो या जिससे साम्प्रदायिक वातावरण अथवा शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित हो।

जिलाधिकारी श्री अग्रवाल आज दोपहर कलेक्ट्रेट सभागार में होली, रमजान तथा ईद उल फितर आदि त्यौहारों को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत बैठक व त्यौहार पर आवश्यक व्यवस्थायें किये जाने एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की तैयारी के संबंध में आयोजित बैठक में सभी धर्मो के धर्म गुरूओं, संभ्रांत नागरिकों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को होली एवं ईदुल फितर के पावन पर्व को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए निर्देश दे रहे थे। इस अवसर पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने जिले के विभिन्न धर्मो के धर्म गुरुओं के साथ आगामी त्यौहार होली, रमजान ईद उल फितर को सौहार्दपूर्ण एवं शान्तिपूर्वक एवं भाईचारे के साथ मनाने के लिए विस्तार से थानावार चर्चा की तथा होली त्यौहार में जिले के विभिन्न स्थानों पर होने वाले जूलूस के बारे में जानकारी की गयी तथा रमजान, ईद उल फितर के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की और निर्देश दिए कि सभी लोग अपने धार्मिक रीति-रिवाज से एक-दूसरे का सम्मान करते हुए अपने त्यौहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं।

जिलाधिकारी अग्रवाल ने आश्वस्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण में होली एवं ईदुल फितर त्यौहार को सम्पन्न कराने के लिए पूर्व की तरह सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने अपेक्षा करते हुए कहा कि ये पावन त्यौहार पूर्ण संयम, समन्वय एवं आम नागरिकों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए मनाया जाएंगे और ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा, जिससे दुसरे सम्प्रदायों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों को विशेष सफाई, प्रकाश एवं पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए हैं। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि जिले में साम्प्रदायिक सौहार्द के वातावरण को कायम रखने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक रूप से कोई अपशब्द, भड़काऊ भाषण अथवा धार्मिक उन्माद फैलाने जैसे किसी भी कार्य का दुस्साहस न करे और न ही सोशल मीडिया आदि पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी या पोस्ट की जाए, जिससे शांति एंव कानून व्यवस्था की स्थिति पर कोई आंच आए। उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि जिले में शांति एंव कानून व्यवस्था की स्थिति से खिलवाड़ करने वाले शरारती एवं असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने सभी क्षेत्राधिकारी पुलिस एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दिए कि त्यौहार रजिस्टर का गहनता के साथ अध्यन करलें और किसी भी नई परम्परा को न होने दें तथा जिन रास्तों पर धार्मिक स्थल मौजूद हैं और उनमें ईद की नमाज अदा की जाएगी, वहां पर विशेष सतर्कता और सजगता रखी जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक तहसील एंव थाना स्तर पर अमन कमेटियों की मीटिंग आयोजित कर जन सामान्य को पूर्ण साम्प्रदायिक सौहार्द के साथ होली एवं ईदुल फितर के त्यौहार को सम्पन्न कराने में सहयोग के लिए आहवान करें।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राम अर्ज, समस्त उपजिलाधिकारी, सभी संबंधित अधिकारी सहित समस्त थाना प्रभारी व विभिन्न धर्मो के धर्मगुरु एवं संभ्रांत व्यक्ति आदि मौजूद रहे।

पूरनपुर की ओर से कराया जाए सड़क का निर्माण

पूरनपुर-पीलीभीत (स्पष्ट आवाज)। तालाब का रूप ले चुके पूरनपुर-धनारा घाट मार्ग को जंगल की ओर से बनाया जा रहा है। जिसे मौके पर पहुंच कर अखिल भारतीय प्रधान संघ के मंडल अध्यक्ष ने विरोध किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से वार्ता कर पूरनपुर की ओर से निर्माण करने की मांग की।लंबे अरसे बाद पूरनपुर भाजपा विधायक बाबूराम पासवान की मांग पर उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने पूरनपुर से लेकर धनारा घाट जंगल दस किलोमीटर करोड़ों रुपए की लागत से मार्ग निर्माण स्वीकृत किया गया है। यह मार्ग पूरनपुर विद्या मंदिर से ग्राम शेरपुर कला तक पांच किलोमीटर गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुका है। जिस पर अब दो पहिया वाहन चलाना भी मुश्किल हो रहा है। लोग आए दिन जर्जर सड़क पर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वाहन गढ़ों में फंस जाते हैं। जिससे जाम की स्थिति भी बनी रहती है,ठेकेदार द्वारा जंगल की ओर से मार्ग का निर्माण शुरू किया गया है। जिसका प्रधान संघ के मंडल अध्यक्ष हाजी रियाजत नूर खान ने मौके पर पहुंच कर विरोध किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता शशांक भार्गव से मोबाइल पर वार्ता कर अवगत कराया कि पूरनपुर से शेरपुर तक मार्ग का निर्माण पहले होना चाहिए था। जहां इसकी जरूरत है। बच्चों से भरे रिक्शे पलट रहे हैं। जंगल की ओर से बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जिस पर अधिशासी अभियंता ने उन्हें आश्वासन दिया।

बीडीओ को निलम्बित किये जाने की मांग को लेकर की बीडीसी महासंघ ने दिया ज्ञापन

पूरनपुर-पीलीभीत (स्पष्ट आवाज)। विकास खण्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं खण्ड विकास अधिकारी की मनमानी को लेकर वीडीसी महासंघ के प्रदेश सचिव अजय भारती जिलाध्यक्ष अतेन्दर पाल सिंह व्लाक अध्यक्ष महेश कुशवाहा संगठन मंत्री सदाकत अली के नेतृत्व में वीडीसी सदस्यों द्वारा नारेबाजी प्रदर्शन करते हुये व्लाक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुये व्लाक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन् कर खण्ड विकास अधिकारी अरूण कुमार सिंह को तत्काल निलम्बित किये जाने की मांग को लेकर उपजिलाधिकारी कार्यवाहक व्लाक प्रमुख को ज्ञापन सौंपा गया।उपजिलाधिकारी/कार्यवाहक व्लाक प्रमुख को वीडीसी महासंघ द्वारा सौंपे ज्ञापन में कहा कि निविदा निरस्तीकरण व दोषी फर्म कर्मचारियों के खिलाफ विभाग कार्यवाही की जाये वीडीसी महासंघ ने आरोप लगाते हुये कहा कि 05 फरवरी 2024 पत्रांक सं0 3486 व 18 फरवरी पत्रांक 3500 व 29 फरवरी 2024 से लेकर लेखाकार व एडीओ आईएसवी द्वारा घर घर व रेस्टोरेन्ट में जाकर टेन्डर विक्री किये जा रहे थे निविदा निरस्त करने के बाद आनन फानन में 05 मार्च को कार्यालय पत्रांक 3625/2023-24 को निविदा निकाली गयी जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्यों के क्षेत्र पंचायत की वैठक के लिए प्रस्ताव को अनदेखा कर अन्य लोगों से पैसा लेकर क्षेत्र पंचायत के रजिस्टर में दर्शाकर अपने चहेतों के लिए नई निविदा 05 मार्च को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दी गयी। वहीं माह जनवरी की क्षेत्र पंचायत की वैठक में सदस्यों के प्रस्तावों को क्षेत्र पंचायत रजिस्टर पर नहीं चढ़ाया गया वहीं मनरेगा के अन्तर्गत 60-40 के मानकों के रेशियों का पालन न कर अधि सूचना जारी के कारण प्रधानों से 10 प्रति0 कमीशन लेकर यह सब किया जा रहा है जबकि एडीओ सीबीआई व लेखाकर को टेन्डर रजिस्टर सहित विक्री करते पकड़ा गया था इस प्रक्रिया में वीडीओ अरूण कुमार सिंह व अन्य के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में नहीं लायी ज्ञापन में कहा कि यदि संबधित वीडीओ एडीओ एसबीआई एवं लेखाकार के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गयी तो वीडीसी महासंघ अनिश्चित कालीन धरना शुरू करेगी उक्त की शिकायत लोकायुक्त से भी कर कार्यवाही की मांग की गयी ज्ञापन पर अजय भारती अतेन्द्र पाल सिंह सदाकत अली सतनाम सिंह बग्गा सिंह हरीश साबा विक्रम भार्गव जयमल सिंह सगीर खां नेमतुल्ला प्रेमशंकर इरफान अरविन्द सुखपाल सुनील देवल शुभनीत मिश्र सहित भारी संख्या में वीडीसी सदस्यों के हस्ताक्षर थे।

स्वामी स्पष्ट आवाज के लिए, **मुद्रक एवं प्रकाशक** - आनन्द सिंह, द्वारा दी इण्डियन एक्सप्रेस प्राईवेट लि. प्रेस सी- 26 अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया, कानपुर रोड, लखनऊ से मुद्रित एवं 47/1, क्ले स्क्वायर होम्स, कबीर मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित। आर.एन.आई. पंजीयन संख्या: U.P. HIN/2004/13625, डाक पंजीयन संख्या - SSP/LW/NP-119/2010-12
संपादक** -डा. विजय सिंह, फोन/फैक्स : 0522-3599932,0522-4306534, मो0: 9415003504 **E-mail : spawaz2010@gmail.com, anand.singh2@gmail.com. इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचार के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट की धारा- 7 के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनमें उत्पन्न समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन होंगे।

विजय सुपर स्टार बनी मीडिया खेल महोत्सव की चैंपियन

फाइनल मुकाबले में पहलवान सुपर किंग्स को दी मात

कौशाम्बी। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित पांच दिवसीय मीडिया क्रिकेट केपीएल टी 10 का सोमवार को समापन किया गया। मीडिया खेल महोत्सव में विजय सुपर स्टार ने अपना विजय पताका फहराया है। फाइनल मुकाबले में विजय सुपर स्टार ने पहलवान सुपर किंग्स को मात दी है। केपीएल टी10 मुकाबले के आखिरी व निर्णायक दिन खेल प्रेमियों का जमावड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम में रहा। मैदान में दर्शकों के हुजूम के साथ साथ अनेक विशिष्ट अतिथि इस मौके के साक्षी बने। विजेता टीम को डेढ़ लाख नगद तथा उपविजेता टीम को 51000 का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। विजेता टीम को इनामी राशि कौशाम्बी विकास परिषद की तरफ से प्रदान किया गया।

सोमवार के दिन मीडिया खेल महोत्सव का का निर्णायक दिन था। इस दिन फाइनल मुकाबले सहित कुल तीन मैच खेले गए। पहला सेमीफाइनल मुकाबला सुल्तान सुपर इलेवन व पहलवान के बीच खेला गया। इस मुकाबले में पहलवान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रन बनाए। जवाब में सुल्तान की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर भी वो लड़ते हुए मैच हार गई। हालांकि सुल्तान सुपर इलेवन की तरफ से बिहार से आए खिलाड़ी प्रदीप यादव व रिंकू यादव आइकॉन प्लेयर की तरह खेल रहे थे।शशिवेंद्र ने सुल्तान सुपर इलेवन की तरफ से सर्वाधिक स्कोर बनाया। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला विजय सुपर स्टार और उत्तम ब्लेजर्स के बीच खेला गया। दोनो टीम देश व प्रदेश भर के सितारों से सजी हुई थी। इस मुकाबले में उत्तम ब्लेजर्स निर्धारित दस ओवर में मात्र 65 रन बना सकी। जौनपुर से आए धीरज सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी की और मैन ऑफ द मैच प्राप्त किया। फाइनल मुकाबले में विजय सुपर स्टार और पहलवान के बीच घमासान हुआ। फाइनल मुकाबला 8 ओवरों का खेला गया। पहले बल्लेबाजी पहलवान सुपर किंग्स ने किया और 58 रन बना सकी। आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी विजय सुपर स्टार की टीम एक समय लड़खड़ाती नजर आई ,लेकिन आइकॉन प्लेयर रंजीत यादव ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई। फाइनल मुकाबले में जीते सारे प्लेयर को कौशाम्बी मीडिया की तरफ से नगद पुरस्कार और आकर्षक इनाम दिए गए। फाइनल मुकाबले के ही दिन कौशाम्बी के लिए खेलों में खास मौका रहा। जनपद की सुनीता सरोज का चयन नेशनल एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में हुआ है। उसमे शामिल होने सुनीता को दुबई जाना है। फाइनल मुकाबले के दिन खिलाड़ियों के हौसले को बढ़ाने सुनीता भी मैदान पर मौजूद रहीं। मैचों के दौरान पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार, बलबीर सिंह चौहान, प्रेम चंद्र चौधरी, संजय जायसवाल, शिवेंद्र कुमार मौर्य रिंकू, पूर्व विधायक लाल बहादुर, हुबलाल दिवाकर, अनुज सिंह, अशोक कुमार, मुंसब अली उस्मानी आदि लोग मैदान पर मौजूद रहे।

चार करोड़ से चकाचक होंगे धार्मिक स्थल

वंदन योजना के तहत भरवारी व चरवा को मिला दो-दो करोड़ का बजट

कौशाम्बी। योगी की भाजपा सरकार ने धार्मिक स्थलों के कायाकल्प के लिए वंदन योजना शुरु किया है। इसके तहत भरवारी नगर पालिका व चरवा नगर पंचायत को धार्मिक स्थलों के कायाकल्प के लिए दो-दो करोड़ का अतिरिक्त बजट दिया गया है। इससे भरवारी नगर पालिका में पल्हाना व चरवा में श्रीराम विश्राम स्थल का कायाकल्प किया जाएगा। मुख्यमंत्री की अति महत्वकांक्षी वंदन योजना के तहत ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का कायाकल्प होना है। इसके तहत नगर पालिका परिषद भरवारी को दो करोड़ का बजट जारी किया गया है। इससे धर्मराज नगर में गंगा के तट पर स्थित पल्हाना घाट में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में रोड़, बैठने व विश्राम स्थल,पेयजल व्यवस्था, घाट का सौंदर्यीकरण, मार्ग प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह चरवा नगर पंचायत में श्रीराम विश्राम स्थल में भी सम्पर्क मार्ग, लाइट, बेंच, विश्राम स्थल व सौन्दर्यीकरण आदि कार्य कराया जाएगा। दोनों निकायों में इसको लेकर टेंडर भी हो चुके है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

कौशाम्बी। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार राय द्वारा उदयन सभागार में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को निष्पक्ष,पारदर्शी एवं सकुशल सम्पन्न कराने के लिए सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं कम्यूनिकेशन प्लान बना लिया जाय। इसके साथ ही उन्होंने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं आदि का सत्यापन कर आख्या सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेटों को उनके कार्यो दायित्वों यथा-पोलिंग पार्टी रवानगी के दिन एवं मतदान के दिन आदि तथा वी0टी0आर0 एप्प की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि निर्वाचन निष्पक्ष,पारदर्शी एवं सकुशल सम्पन्न करायी जाय, किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाय। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 रवि किशोर त्रिवेदी,अपर जिलाधिकारी अरूण कुमार गोंड व प्रबुद्ध सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

संक्षिप्त आवाज

बैंक से टप्पेबाजों ने व्यापारी के उडाए पचास हजार

बांदा। जनपद में आये दिन टप्पेबाजी की घटनाएं सामने आ रही है। टप्पेबाज नये-नये तरीकों से वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ज्यादातर टप्पेबाज व्यापारियों को अपना निशाना बना रहे हैं। कोतवाली शहर के अलीगंज चौकी क्षेत्र की इण्डियन बैंक में जमा करने आये एक व्यापारी के टप्पेबाज ने 50 हजार रूपये की टप्पेबाजी कर गायब हो गया। मिली जानकारी के अनुसार संतोष सेनेटरी दुकान से व्यापारी के कर्मचारी रूपये लेकर इण्डियन बैंक में जमा करने गया। लगभग साढे 11 बजे बैंक के अन्दर जाकर फार्म भरने लगा। तभी टप्पेबाज ने कर्मचारी को किसी बात में उलझा दिया और धीरे से उसके 50 हजार रूपये लेकर टप्पेबाजी का खेल कर दिया। बताते है कि जिस कागज में रूपया लपेट कर ले गया था उस कागज से 50 हजार की टप्पेबाजी कर दी और कागज उसी तरह लपटा रखा रहा। बैकों में इन दिनों टप्पेबाजों की भरमार से व्यापारी भयभीत हैं। पीडित व्यापारी संतोष गुप्ता जारी वाले ने बताया कि मामले की सूचना अलीगंज चौकी में दे दी गयी है।

इंटर स्टेट कृषक प्रशिक्षण हेतु 28 कृषकों का जत्था रवाना

महोबा (स्पष्ट आवाज)। कृषि विभाग द्वारा? जनपद के किसानों को प्रशिक्षण हेतु कृषि विश्वविद्यालय भेजा गया है। आत्मा योजनान्तर्गत दो दिवसीय इंटर स्टेट कृषक प्रशिक्षण हेतु राजमाता बिजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश के लिए ,28 कृषको को रवाना किया गया। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने वाहनों को हरी झंडी दिखाते हुए कृषकों को विश्वविद्यालय के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी चित्रसेन सिंह, एडीएम न्यायिक शिशिर कुमार, एसडीम सदर जितेंद्र कुमार, कृषि उपनिदेशक डॉक्टर अभय कुमार सिंह यादव मौजूद रहे।

संस्कृत बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य समय से पहले पूरा

चरखारी/महोबा (स्पष्ट आवाज)। उत्तर प्रदेश में संस्कृत परीक्षा 2024 का मूल्यांकन निर्धारित अवधि से पहले पूरा कर लिया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ के द्वारा विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी संस्कृत बोर्ड परीक्षा का मण्डल स्तरीय मूल्यांकन केंद्र श्री गुमान विहारी संस्कृत माध्यमिक विधालय चरखारी महोबा को बनाया गया था । जनपद चित्रकूट, बाँदा एवं महोबा के सभी संस्कृत शिक्षक परीक्षक के रूप में लगाए गए थे मूल्यांकन की तिथि बोर्ड द्वारा दिनांक 5/3/2024 से 14/3/2024 निश्चित थी लेकिन निर्धारित अवधि के पूर्व उपनियंत्रक / प्रधानाचार्य डॉ सुखनंदन मिश्र द्वारा प्रशासनिक क्षमता की वजह से मूल्यांकन कार्य उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इस वर्ष भी दिनांक 9/3/2024 को ही सम्पन्न हो गया जिसके लिए प्रधानाचार्य द्वारा मूल्यांकन में लगे सभी परीक्षकों एवं सहयोगियों को धन्यवाद दिया गया। इस कार्य हेतु विद्यालय के शिक्षक भूपेन्द्र तिवारी वीरेंद्र मिश्र, अनुज नगायच, पुष्पेंद्र शुक्ल, जीतेन्द्र द्विवेदी, प्रशांत रावत, पूनम सिंह रेणु मिश्रा आदि कार्य सराहनीय रहा।

मंडलायुक्त ने किया जिलाधिकारी कार्यालय के विभिन्न पटलों का निरीक्षण

चित्रकूटः आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा बालकृष्ण त्रिपाठी ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय के विभिन्न पटलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के पूर्व पुलिस गार्ड द्वारा आयुक्त चित्रकूट को सलामी दी गई। मंडलायुक्त ने आईजीआरएस, ईडीएम, न्याय सहायक, समग्र प्राधिकारी भूमि अध्यप्ति, रामबन गमन पथ, भूमि व्यवस्था पटल, आंग्ल अभिलेखापाल, दैवीय आपदा, आयुध सहायक, राजस्व अभिलेखागार, सदर मालखाना, स्टोर रूम, जल जीवन मिशन के अंतर्गत चांदी बांगर एवं सिलौटा मुस्तकिल के मॉडल का निरीक्षण किया। आइजीआरएस में उन्होंने रजिस्टर का अवलोकन किया एवं निर्देशित किया कि फीडबैक लेकर रजिस्टर भी अपडेट करें। उन्होंने जिलाधिकारी अभिषेक आनन्द से कहा कि जिन लेखपालों द्वारा गलत रिपोर्ट लगाई जाती है, उन पर कार्यवाही करें। जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि हर गुरुवार को संतुष्टि समाधान के रूप में मनाया जाता है। मंडलायुक्त ने कहा कि किसान दुर्घटना के पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाए। उन्होंने न्याय सहायक पटल का भी अवलोकन किया एवं अलमारी को खुलवाकर फाइलों का रखरखाव देखा। उन्होंने भूमि व्यवस्था पटल का भी निरीक्षण किया। मण्डलायुक्त ने डीएलआरसी को निर्देशित किया कि पुरानी लम्बित जो पत्रावलियां है, उसमें निर्णय लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। उन्होंने कृषक दुर्घटना के बारे में जानकारी ली। साथ ही कहा कि अगर शासन से धनराशि नहीं आयी है तो शासन से मांग कर भुगतान करें। उन्होंने कहा कि लाभार्थी को तत्काल सहायता दिया जाए बिलंब न करें। इसके बाद उन्होंने दैवीय आपदा पटल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने फसल नुकसान की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि इसमें शासन की मंशा के अनुरूप त्वरित निस्तारण कराए। उन्होंने सदर मालखाना पटल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने नजिर कलेक्टरेट को निर्देशित किया कि जो सामग्री उपयोग में नहीं है, उसे नीलाम कराएं।इस मौके पर जिलाधिकारी अभिषेक आनन्द, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व उमेश चंद्र निगम, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे वंदिता श्रीवास्तव, अपर उप जिलाधिकारी मोहम्मद जसीम अहमद, अपर जिलाधिकारी न्यायिक राजेश प्रसाद, अपर उप जिलाधिकारी सतीश चंद्र, उप जिलाधिकारी कर्वी सौरभ यादव आदि मौजूद रहे।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद विदाई समारोह आयोजित

कौशाम्बी। बाल गोविन्द विद्याश्रम भरवारी में भव्य तरीके से विदाई समारोह आयोजित हुआ। विद्यालय परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन के पश्चात विदाई समारोह संपन्न हुआ। सर्वप्रथम उपस्थित छात्र/ छात्राओं ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर वंदना स्तुति की उसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ। कार्यक्रम में पूर्व के सभी बच्चों के माता-पिता एवं छात्र छात्रा भी उपस्थित रहे।कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक प्रवेश कुमार केसरवानी ने छात्र व छात्राओं को पुरुष्कृत कर शुभकामनाएं दी। विदाई समारोह कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य मनराखन सिंह, ज्ञान प्रकाश शर्मा, पूजा, सोनी, आरती, शैलेन्द्र तिवारी, अमर सिंह सहित आदि अध्यापकगण एवं छात्र छात्रा के अभिभावकगण मौजूद रहे।

समूह की महिलाओं ने प्रधानमंत्री के सम्बोधन को सुना

कौशाम्बी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लखपति दीदीयों के साथ संवाद किया गया,इसका सजीव प्रसारण एन0आई0सी0 कौशाम्बी में किया गया तथा उपस्थित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रधानमंत्री के सम्बोधन को सुना।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 रवि किशोर त्रिवेदी एवं उपायुक्त एनआरएलएम सुखराज बन्धु उपस्थित रहें।

जनकल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाओं की लगाई गई प्रदर्शनी

महोबा (स्पष्ट आवाज)। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा मुख्यालय स्थित डाक बंगला मैदान में प्रदर्शनी लगायी गयी। प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाओं पर आधारित तीन दिवसीय विकास प्रदर्शनी का भाजपा जिलाध्यक्ष अवधेश गुप्ता ने फीता काटकर शुभारम्भ किया । जिलाध्यक्ष एवं मुख्य विकास अधिकारी चित्रसेन सिंह ने प्रदर्शनी में योजनाओं से सम्बन्धित लगाये गये किटों/स्लाइड्स का अवलोकन करते हुये उपस्थित लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पात्रता के अनुसार योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया गया।

जिलाध्यक्ष ने इस तीन दिवसीय विकास प्रदर्शनी का शुभारम्भ करते हुए कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार अपनी योजनाओं ,नीतियों, कार्यक्रमों के माध्यम से विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी विकास की मुख्य धारा में लाने का कार्य कर रही है। कहा कि सरकार गरीब किसान मजदूर मां बहन बेटियों के हितों में कार्य कर रही है तथा सभी वर्गो का समान रूप से उत्थान कर रही है। कहा कि सरकार की विकासपरक नीतियों/उपलब्धियों में कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है इसमें सभी कुछ समाहित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर आम जनमानस जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे। इस प्रदर्शनी में केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार तथा लोगों को इन योजनाओं का लाभ लेने हेतु जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं तथा उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। जिसका सीधा लाभ जन सामान्य को मिल रहा है। प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व उपलब्धियों को प्रदर्शनी में अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। यह प्रदर्शनी आम जन के लिये बहुत ही उपयोगी है। इसका अवलोकन कर आम आदमी को प्रदेश सरकार द्वारा किए गए गत वर्षो के कार्यो/उपलब्धियों की जानकारी मिल रही है, इसके अलावा गरीब लोगों के उत्थान हेतु चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी आम लोग जानकारी प्राप्त कर उसका लाभ ले सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी चित्रसेन सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी का उद्देश्य जन-जन तक प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से अब तक जो व्यक्ति प्रदेश सरकार की संचालित योजनाओं से वंचित रह गये हैं, वे योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर, उससे लाभान्वित होंगे। उन्होंने जन सामान्य से प्रदर्शनी में पहुंचकर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों एवं विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओं आदि की जानकारी प्राप्त करने तथा उसका लाभ लेने की अपील की है।

सकिपा ने प्रदर्शन व कलेक्ट्रेट का घेराव करके ऊर्जा मंत्री को भेजा ज्ञापन

कौशाम्बी।समर्थ किसान पार्टी के तत्वावधान मे सोमवार को किसान नेता अजय सोनी की अगुवाई में तमाम किसानो एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलक्ट्रेट मंझनपुर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन, नारेबाजी के बाद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के नाम संबोधित एक पांच सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी राजेश कुमार रॉय को सौपा। सौंपे गए ज्ञापन में बकायेदार किसानो के बकाया बिजली बिल माफ करने और सभी किसानो को मुफ्त बिजली योजना का लाभ दिए जाने की मांग की गई। साथ ही एक अप्रैल 2023 से अब तक जमा कराए गए बिजली बिल को ब्याज सहित किसानो को विद्युत विभाग द्वारा वापस किए जाने की मांगे शामिल थीं। ज्ञापन स्वीकार करते हुए जिलाधिकारी ने ज्ञापन ऊर्जा मंत्री तक पहुंचाने एवं अपने स्तर पर समुचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। समर्थ किसान पार्टी के तत्वावधान मे पार्टी नेता अजय सोनी की अगुवाई पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पार्टी के जिला कार्यालय मंझनपुर में एकजुट हुए। इसके बाद अजय सोनी की अध्यक्षता में कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में बोलते हुए अजय सोनी ने कहा कि बकायेदार किसान उपभोक्ताओं का बकाया बिल माफ होना चाहिए साथ ही सभी किसान उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलना चाहिए। आगे कहा कि एक अप्रैल 2023 के आगे से आज तक विद्युत विभाग द्वारा किसानों से जमा कराया गया विद्युत बिल ब्याज सहित किसानों को वापस किया जाए।

इस अवसर पर प्रेमचंद्र केसरवानी, मुन्ना लाल तिवारी, सुरजीत वर्मा, तेज बहादुर पटेल, भैरवदीन गौतम, राजकुमार साहू, परिहार लोधी, बद्री प्रसाद प्रजापति, मो सारुख, जयलता त्रिपाठी, रश्मि प्रजापति आदि मौजूद रहे।

युवाओं ने ग्रहण की सपा की सदस्यता

चित्रकूटः प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य अनुज सिंह यादव ने सोमवार को विभिन्न दलों से आये एक दर्जन युवाओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य अनुज सिंह यादव ने कहा कि देश और प्रदेश का नौजवान अखिलेश यादव की तरफ आशा भारी निगाहों से देख रहा। जब से देश और प्रदेश में भाजपा सरकार आई है तब से युवाओं में हताशा और निराशा छाई है। भाजपा सरकार ने वादा किया था की हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाइयेगी, लेकिन सरकार एक भी परीक्षा ऐसी नहीं कराई जो लीक न हुई हो, कुछ भर्तियों में सरकार ने पिछड़े वर्ग का आरक्षण डकारने का कार्य किया है। जिससे भर्तियां कोर्ट में फंसी पड़ी है। सरकार ऐसा इस लिये कर रही है की ताकि युवाओं को रोजगार न देना पड़े। इस अवसर पर रामचन्द्र रैकवार, संतोष यादव, अनिल यादव, कन्हैया वर्मा, मंजीत यादव, आलोक विश्वकर्मा, धर्मेंद्र आदि ने सपा की सदस्यता ली।

कार्यालय ग्राम पंचायत ऐंचवारा विकासखण्ड मानिकपुर-चित्रकूट

पत्रांक : मनरेगा/टेंडर नोटिस दिनांक- 20.02.2024

अल्पकालीन निविदा सूचना

मनरेगा योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत ऐंचवारा द्वारा कराए जाने वाले निम्नलिखित कार्य पर प्रयुक्त होने वाली सामग्री आपूर्ति हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा व्यापार कर/आयकर में पंजीकृत फर्मो सप्लायरों से दिनांक 25.02.2024 को अपराह्न 1:00 बजे तक निम्न विवरण के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती है, जो कि उसी दिन अपराह्न 02:00 बजे ग्राम पंचायत में तैनात निर्माण समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के साथ खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 21.02.2024 से 25.02.2024 को अपराह्न एक बजे तक ग्राम पंचासत ऐंचवारा से निविदा प्रपत्र मूल की अदायगी कर क्रय किए जा सकते है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	सामग्री की लागत	धरोहर धनराशि	निविदा मूल्य
1.	ग्रा.पं. ऐंचवारा में सुनीता पत्नी सत्यप्रकाश का कैटल शेड निर्माण कार्य	1.3 लाख	-	-
2.	ग्रा.पं. ऐंचवारा में शारदा पुत्र बैद्यनाथ का कैटल शेड निर्माण कार्य	1.3 लाख	-	-

नोट : निविदा शर्ते कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में देखी जा सकती है।

प्रधान (सुनील शुक्ला) सचिव (संगीता देवी)

सात फेरों के साथ हुआ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन

बांदा। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अन्तर्गत सोमवार को जनपद बांदा में चार स्थानों पं0 दीनदयाल पुरम आवासीय योजना में, तिन्दवारी के जसईपुर में, खण्ड विकास कार्यालय नरैनी में तथा बबेरू विकास खण्ड के लवकुश इण्टर कॉलेज में गायत्री परिवार के पुरोहितों के द्वारा पूरे रश्मों, रीति-रिवाजों के तथा मंत्रोच्चारण के साथ सम्पन्न हुआ।विकासखण्ड तिन्दवारी के ग्राम पंचायत जसईपुर के पहलवान बाबा मन्दिर में मंत्री जलशक्ति विभाग उत्तर प्रदेश रामकेश निषाद की गरिमामयी उपस्थिति में 89 जोडों का मुख्यमंत्री सामूहिक कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में ब्लाक प्रमुख तिन्दवारी दीपशिखा सिंह, ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि जसपुरा महेश निषाद, चेयरमैन सुधा साहू, अनन्त स्वरूप द्विवेदी सहित अन्य व्यक्ति उपस्थित रहे। पं0 दीनदयाल पुरम में आयोजित कार्यक्रम में विधायक सदर प्रकाश द्विवेदी, जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्रीयोगी आदित्य नाथ द्वारा वर्ष 2017 से यह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का शुभारम्भ किया गया था, जो कि निरन्तर प्रतिवर्ष चल रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए अत्यन्त लाभकारी है। उन्होंने कहा कि सरकार बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई-लिखाई एवं उनके विवाह तक की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निभा रही है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए धनाभाव होने के कारण परिवार के लोंगो को चिन्ता होती थी तथा बेटियों की शादी में विलम्ब हो जाता था। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी करने में बहुत मदद मिल रही है। इस अवसर पर उन्होंने नवदम्पत्ति के सुखद जीवन की शुभकामनायें दी। उन्होंने बताया कि गरीब परिवारों की बेटियों की शादी हेतु सरकार द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति शादी हेतु रूपये 51000/- स्वीकृत किये जाते हैं जिसमें 35000/- हजार की धनराशि कन्या के बैंक खाते में 10000/- रूपये विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री 51 बर्तन, सूटकेश, कपडे, बिछियां, पाजेब आदि देने में व्यय की जाती है तथा यथा पण्डाल/टेन्ट, वर-माला, साउण्ड सर्विस, पूजा सामाग्री मण्डप आदि हेतु 6000/- रूपये की धनराशि प्रति जोडे की दर से व्यय की जाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के सफ्लतापूर्वक आयोजन किये जाने पर जिला प्रशासन की प्रशंसा व्यक्त की। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुस्लिम परिवार की गरीब बेटियों की शादी/निकाह के लिए अलग से व्यवस्था की गयी है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह बन्धन में बंधे नव दम्पत्तियों को हार्दिक शुभकामनायें एवं उनके सुखद एवं सफ्ल जीवन की कामना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की यह महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे गरीब परिवार के लोगों को शादी हेतु आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। आज जनपद में लगभग 550 जोड़ों का वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न हो रहा है।

कार्यालय ग्राम पंचायत- डढ़हतमाफ, विकास खण्ड- कबरई (महोबा)

पत्रांक : मेमो मनरेगा/निविदा/2023-24 दिनांक : 11.03.2024

निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना

मनरेगा 2023-24 के अन्तर्गत **ग्रा0पं0 डढ़हतमाफ, महोबा** की स्वीकृत कार्य योजना 2023-24 में निम्नलिखित कार्य हेतु सामग्री सन्दर्भित कार्य स्थल पर आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं। दिनांक 12.03.2024 से 14.03.2024 को समय अपराह्न 03:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के पंचायत भवन में निविदा पेटी में डाली जायेगी। दिनांक 14.03.2024 को सायं 4:00 बजे समिति के समक्ष खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	धरोहर राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	ग्राम पंचायत डढ़हतमाफ में नहर की पुलिया से गंगा सागर तालाब की पुलिया तक नाला निर्माण कार्य।	40 एम0एम0 जी0एस0बी0, 20 एम0एम0 स्टोन ग्रिट, कोर्स सैण्ड जोन (III), सीमेन्ट, हायर चार्जेज ऑफ कन्क्रीट मिक्चर, बाइब्रेटर, खण्डा पत्थर, 10 एम0एम0 स्टोन ग्रिट, फाइन सैण्ड जोन (IV) आदि।	399729.00	4407.00	60 दिन

नियम/शर्ते :- 1- आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार को आयकर एवं व्यापार कर विभाग में अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए, जिसकी प्रति निविदा के साथ संलग्न की जायेगी। 2- आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार द्वारा उपरोक्त धरोहर राशि एनएससी/केवीपी/ डाकघर पासबुक/टीडीआर ग्राम पंचायत के पक्ष में बंधक कराकर निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। 3- आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार को कार्यस्थल पर सामग्री की पहुंचता दरें निविदा प्रपत्र पर अंकित करनी होगी। 4- आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार को निर्धारित अवधि में कार्य स्थल पर सामग्री की आपूर्ति करनी होगी, अन्यथा धरोहर राशि जब्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। 5- निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने अथवा स्वीकार करने का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होगा। स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार समिति का होगा।

ग्राम विकास अधिकारी
डढ़हतमाफ (कबरई) महोबा

कार्यालय नगर पालिका परिषद, चित्रकूटधाम कर्वी, जनपद-चित्रकूट

पत्र संख्या-3085/2023-24/ई-निविदा सूचना/ दिनांक - 11 मार्च, 2024

ई-निविदा सूचना/दर आमंत्रण सूचना

ई-टेण्डरिंग के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम में वंदन योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों की ई-निविदा दिनांक 11.03.2024 से 02.04.2024 समय 12:00 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की जायेगी जो उसी दिनांक को खोली जायेगी। निविदा प्रपत्रों में निर्धारित शुल्क व जमानत धनराशि नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी के Axis Bank Account No.-919010066046073 के IFSC Code- UTIB0004082 में जमा की जायेगी। निविदा सूचना http://etendar.up.nic.in & http://nagarpalikaparishadchitrakootdhamkarwi.com/ पर देखी जा सकती है। निविदा सम्बन्धी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित निर्माण लिपिक से प्राप्त की जा सकती है।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
चित्रकूटधाम कर्वी, चित्रकूट

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
चित्रकूटधाम कर्वी, चित्रकूट

होली विशेष रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि

रेलयात्रियों की सुविधा के लिए आगामी होली के दौरान उत्तर रेलवे द्वारा पहले से ही घोषित होली विशेष रेलगाड़ियों के अलावा निम्नलिखित होली त्यौहार विशेष रेलगाड़ियों का भी संचालन किया जायेगा, जिनका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

04066/04065 आनन्द विहार टर्मिनल – पटना जं. – आनन्द विहार टर्मिनल सुपरफास्ट ए.सी. त्यौहार स्पेशल एक्सप्रेस रेलगाड़ी (सप्ताह में दो दिन) 06 फेरे

रेलगाड़ी सं. 04066		स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 04065	
आगमन	प्रस्थान	↓ ↑	आगमन	प्रस्थान
--	23:00	आनन्द विहार टर्मिनल	11:20	--
16:00	--	पटना जं.	--	17:45

चलने की तिथि : 04066 आनन्द विहार टर्मिनल से दिनांक 21.03.2024 से 28.03.2024 तक (सोमवार एवं गुरूवार) एवं **04065 पटना जं.** से दिनांक 22.03.2024 से 29.03.2024 तक (मंगलवार एवं शुक्रवार)।
स्थान: प्रथम वाता., 2 टियर वाता. एवं 3 टियर वाता.।
ठहराव: गोविन्दपुरी, प्रयागराज जं., वाराणसी, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. एवं दानापुर स्टेशन।

04062/04061 दिल्ली जं. – बरौनी जं. – दिल्ली जं. आरक्षित त्यौहार स्पेशल एक्सप्रेस रेलगाड़ी (साप्ताहिक) 04 फेरे

रेलगाड़ी सं. 04062		स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 04061	
आगमन	प्रस्थान	↓ ↑	आगमन	प्रस्थान
--	08:50	दिल्ली जं.	07:35	--
06:30	--	बरौनी जं.	--	08:00

चलने की तिथि : 04062 दिल्ली जं. से दिनांक 24.03.2024 से 31.03.2024 तक (रविवार) एवं **04061 बरौनी जं.** से दिनांक 25.03.2024 से 01.04.2024 तक (सोमवार)।
स्थान: 3 टियर वाता., शयनयान एवं सामान्य।
ठहराव: अलीगढ़, टुंडला, इटावा, कानपुर सेन्ट्रल, लखनऊ जं., गोंडा, बस्ती, गोरखपुर जं., सीवान जं., छपरा जं. एवं हाजीपुर जं. स्टेशन।

04518/04517 चंडीगढ़ – गोरखपुर जं. – चंडीगढ़ आरक्षित त्यौहार स्पेशल एक्सप्रेस रेलगाड़ी (साप्ताहिक) 04 फेरे

रेलगाड़ी सं. 04518		स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 04517	
आगमन	प्रस्थान	↓ ↑	आगमन	प्रस्थान
--	23:15	चंडीगढ़	14:10	--
18:20	--	गोरखपुर जं.	--	22:05

चलने की तिथि : 04518 चंडीगढ़ से दिनांक 21.03.2024 से 28.03.2024 तक (गुरूवार) एवं **04517 गोरखपुर जं.** से दिनांक 22.03.2024 से 29.03.2024 तक (शुक्रवार)।
स्थान: 2 टियर वाता., 3 टियर वाता., 3 टियर इकोनॉमी, शयनयान व सामान्य।
ठहराव: अंबाला कैंट, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ जं., गोंडा एवं बस्ती स्टेशन।

04060/04059 आनन्द विहार टर्मिनल – जयनगर – आनन्द विहार टर्मिनल आरक्षित त्यौहार स्पेशल एक्सप्रेस रेलगाड़ी (सप्ताह में दो दिन) 06 फेरे

रेलगाड़ी सं. 04060		स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 04059	
आगमन	प्रस्थान	↓ ↑	आगमन	प्रस्थान
--	10:30	आनन्द विहार टर्मिनल	19:55	--
15:15	--	जयनगर	--	17:00

चलने की तिथि : 04060 आनन्द विहार टर्मिनल से दिनांक 22.03.2024 से 29.03.2024 तक (मंगलवार एवं शुक्रवार) एवं **04059 जयनगर** से दिनांक 23.03.2024 से 30.03.2024 तक (बुधवार एवं शनिवार)।
स्थान: शयनयान एवं सामान्य।
ठहराव: मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ जं., रायबरेली, अमेठी, माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जं., वाराणसी, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलीपुत्र जं., हाजीपुर जं., मुज़फ़्फ़रपुर जं., समस्तीपुर जं., दरभंगा जं. एवं मधुबनी स्टेशन।

01664/01663 आनन्द विहार टर्मिनल – सहरसा जं. – आनन्द विहार टर्मिनल त्यौहार स्पेशल एक्सप्रेस रेलगाड़ी 02 फेरे

रेलगाड़ी सं. 01664		स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 01663	
आगमन	प्रस्थान	↓ ↑	आगमन	प्रस्थान
--	11:10	आनन्द विहार टर्मिनल	13:55	--
11:20	--	सहरसा जं.	--	09:30

चलने की तिथि : 01664 आनन्द विहार टर्मिनल से दिनांक 25.03.2024 (सोमवार) को एवं **01663 सहरसा जं.** से दिनांक 27.03.2024 (बुधवार) को।
स्थान: शयनयान एवं सामान्य।
ठहराव: हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, हरदोई, लखनऊ जं., गोरखपुर जं., देवरिया सदर, सीवान जं., छपरा जं., हाजीपुर जं., मुज़फ़्फ़रपुर जं., समस्तीपुर जं., दलसिंह सराय, बरौनी जं., बेगूसराय, खगड़िया जं. एवं सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन।

04010/04009 आनन्द विहार टर्मिनल – जोगबनी – आनन्द विहार टर्मिनल त्यौहार स्पेशल एक्सप्रेस रेलगाड़ी 02 फेरे

रेलगाड़ी सं. 04010		स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 04009	
आगमन	प्रस्थान	↓ ↑	आगमन	प्रस्थान
--	23:45	आनन्द विहार टर्मिनल	16:05	--
05:20	--	जोगबनी	--	09:00

चलने की तिथि : 04010 आनन्द विहार टर्मिनल से दिनांक 26.03.2024 (मंगलवार) को एवं **04009 जोगबनी** से दिनांक 28.03.2024 (गुरूवार) को।
स्थान: शयनयान एवं सामान्य।
ठहराव: गाजियाबाद जं., मुरादाबाद, चन्दौसी जं., बरेली कैंट, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर जं., देवरिया सदर, सीवान जं., छपरा जं., सोनपुर जं., हाजीपुर जं., शाहपुर पटोरी, बरौनी जं., बेगूसराय, खगड़िया जं., नवगछिया, कटिहार जं., पूणियाँ जं., अररिया कोर्ट एवं अररिया स्टेशन।

04068/04067 दिल्ली जं. – दरभंगा जं. – दिल्ली जं. त्यौहार स्पेशल एक्सप्रेस रेलगाड़ी (सप्ताह में दो दिन) 06 फेरे

रेलगाड़ी सं. 04068		स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 04067	
आगमन	प्रस्थान	↓ ↑	आगमन	प्रस्थान
--	19:30	दिल्ली जं.	16:40	--
16:30	--	दरभंगा जं.	--	18:00

चलने की तिथि : 04068 दिल्ली जं. से दिनांक 22.03.2024 से 29.03.2024 तक (मंगलवार एवं शुक्रवार) को एवं **04067 दरभंगा जं.** से दिनांक 23.03.2024 से 30.03.2024 तक (बुधवार एवं शनिवार) को।
स्थान: 3 टियर वाता., शयनयान एवं सामान्य।
ठहराव: मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ जं., गोरखपुर जं., नरकटियागंज जं., रक्सौल, बैरगनियां, सीतामढ़ी जं. एवं जनकपुर रोड स्टेशन।

04004/04003 नई दिल्ली – सीतामढ़ी जं. – नई दिल्ली आरक्षित त्यौहार स्पेशल एक्सप्रेस रेलगाड़ी (सप्ताह में दो दिन) 06 फेरे

रेलगाड़ी सं. 04004		स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 04003	
आगमन	प्रस्थान	↓ ↑	आगमन	प्रस्थान
--	00:10	नई दिल्ली	01:30	--
22:00	--	सीतामढ़ी जं.	--	23:30

चलने की तिथि : 04004 नई दिल्ली से दिनांक 22.03.2024 से 29.03.2024 तक (मंगलवार एवं शुक्रवार) को एवं **04003 सीतामढ़ी जं.** से दिनांक 22.03.2024 से 29.03.2024 तक (मंगलवार एवं शुक्रवार) को।
स्थान: 3 टियर वाता., शयनयान एवं सामान्य।
ठहराव: मुरादाबाद, बरेली, शॉहजहाँपुर, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर जं., नरकटियागंज जं., रक्सौल, एवं बैरगनियां स्टेशन।

रेलयात्रियों से अनुरोध है कि किसी भी जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाइन सं. 139 पर संपर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in अथवा NTES ऐप देखें।

उत्तर रेलवे
सदैव आपकी सेवा में
हमें www.nr.indianrailways.gov.in पर मिलें
पर हमें फॉलो करें
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

निशांत देव पेरिस 2024 ओलंपिक कोटे से एक कदम दूर

बुस्टो। भारत के निशांत देव ने वर्ल्ड बॉक्सिंग क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के 71 किग्रा भार वर्ग में यूनान के क्रिस्टोस कैराइटिस को प्री-क्वार्टरफाइनल में सर्वसम्मति निर्णय से 5-0 से हरा दिया। इस के साथ ही निशांत पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल करने से बस एक कदम दूर हैं।

बाएं हाथ के भारतीय मुक्केबाज ने रविवार को खेले गये मुकाबले के पहले राउंड में आक्रामक रुख और रक्षात्मक खेल का शानदार मुजाहिरा किया। इसके बाद दूसरे राउंड में निशांत ने कैराइटिस को एक जोरदार पंच मारा जिससे प्रतिदंदी को स्टैंडिंग काउंट के लिए मजबूर कर दिया। एक स्टैंडिंग आठ काउंट जिसे प्रोटेक्शन काउंट के रूप में भी जाना जाता है। यह मुक्केबाज़ी के दौरान एक रेफरी द्वारा की गई एक बॉक्सिंग निर्णय कॉल है। रेफरी आठ तक गिना (काउंट) करता है। उस समय के दौरान रेफरी तय करेगा कि बॉक्सर जारी रख सकता है या नहीं।

अपनी बाउट के बाद निशांत ने कहा, मैं बहुत खुश हूं। मैंने इस मुकाबले के लिए पूरी तैयारी की थी। मुझे आशा है कि मैं पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करूंगा। उन्होंने आगे कहा, मैने अपनी टीम के साथ पूरे टूर्नामेंट के लिए तैयारी की थी। अब बस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने के लिए एक और मैच बाकी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उस मैच में मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। तेईस वर्षीय मुक्केबाज निशांत देव अगले सोमवार को विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता और अमेरिका के ओमारी जोन्स के खिलाफ क्वार्टरफाइनल मुकाबला खेलेंगे। इस बाउट में जीत के साथ निशांत ओलंपिक में पुरुषों के 71 किग्रा वर्ग में भारत के लिए कोटा अर्जित कर लेंगे। इससे पहले, निशांत ने राउंड ऑफ 32 में जॉर्जिया के टोक्यो ओलंपियन एस्करखान मैडिएव को सर्वसम्मति निर्णय के जरिए हराया था।

लखनऊ के विकास का श्रेय योगी आदित्यनाथ को : राजनाथ सिंह

●मुख्यमंत्री योगी संग रक्षा मंत्री ने किया 3666 करोड़ की 206 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

लखनऊ। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ है, वह मुख्यमंत्री योगी के सहयोग से हो रहा है। उनके सहयोग के बिना यह कार्य संभव नहीं हो पाते। यहां के विकास का श्रेय योगी आदित्यनाथ को है। यह हमारा करिश्मा नहीं है, बल्कि सांसद के कारण मैंने सहयोगी की भूमिका निभाई है। यहां के जनप्रतिनिधि जो कहते गए, वो होता गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी मंच पर भी पूछ रहे थे कि यदि कोई और काम छूटा हो तो बताइए। सीएम योगी को बधाई देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ तेजी से समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री व लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3666 करोड़ की 206 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलान्यास कार्य गिनाए। बताया कि अवध चौराहे पर अंडरपास, गोसाईगंज-बनी-मोहन मार्ग पर अनूपगंज में रेलवे क्रॉसिंग संख्या-188 स्पेशल पर 4 लेन रेल उपरिगामी सेतु, किसान पथ से भटगांव डिफेंस नोड संपर्क मार्ग, पक्का पुल से डालीगंज व गोमती नदी के ब्रिज तक 2 लेन आरओबी कम फ्लाईओवर, हनुमान सेतु से समतामूलक चौराहे तक रोड कनेक्टिविटी के लिए निशातगंज बंधे का चौड़ीकरण, सरोजनीनगर में 100 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक, एसजीपीजीआई में 500 बेड का एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर (फेज-एक), ग्रीन कॉरिडोर के अंतर्गत निशातगंज में सेतु का शिलान्यास हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज लखनऊ नगर के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। लखनऊ नगर के चारों ओर 5500 करोड़ से 104 किमी. की आठ लेन की आउटर रिंग रोड का लोकार्पण किया जा रहा है। यह कॉरिडोर प्रारंभ होने जा रहा है। रक्षा मंत्री ने अपील की कि कानपुर हाईवे से हरदोई मार्ग तक केवल 15 दिन हल्की गाड़ियां ही चलें, भारी वाहन बिल्कुल भी नहीं। आउटर रिंग रोड चालू होने के बाद अनुमानतः एक लाख वाहन प्रतिदिन बाहर ही बाहर निकल जाएंगे। नगर वासियों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। यह आउटर रिंग रोड नगर निगम की वृहद आर्थिक उन्नति की गति को तेज करेगा। इसके किनारे कई योजनाएं प्रस्तावित हैं। लखनऊ-कानपुर हाईवे के अंतर्गत छह लेन की 66 किमी. लंबे एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण हो रहा है। बनी तक कानपुर हाईवे को छह लेन चौड़ा किया जा चुका है। अगले वर्ष एक्सप्रेसवे निर्माण पूरा होने पर लखनऊ से कानपुर की दूरी 40-45 मिनट में पूरी होगी। इसी के साथ पर्यटकों के लिए होटल इंडस्ट्री व हॉस्पिटल इकाइयां होंगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि उप्र के लोगों ने कल्पना नहीं की होगी कि ब्रह्मोस मिसाइल यूपी की धरती पर बनेगी। यह काम भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा।

संक्षिप्त आवाज़

वंदे भारत का विस्तार 14 से किया जायेगा

गोरखपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा के लिये 22549/22550 गोरखपुर-लखनऊ-गोरखपुर वंदे भारत गाड़ी का मार्ग विस्तार 14 मार्च, से प्रयागराज जं. तक किया जायेगा। इस गाड़ी का उद्घाटन 12 मार्च, 2024 को प्रयागराज जं. स्टेशन से उद्घाटन विशेष गाड़ी 02418 प्रयागराज जं.-लखनऊ वंदे भारत उद्घाटन विशेष गाड़ी चलाकर किया जायेगा। मार्ग विस्तार के फलस्वरूप यात्रियों की मांग के अनुरूप 22550 प्रयागराज-गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का लखनऊ, अयोध्या धाम, बस्ती स्टेशनों पर आगमन/प्रस्थान एवं गोरखपुर जं. स्टेशन पर आगमन समय में परिवर्तन किया गया है। इसके फलस्वरूप कुछ गाड़ियों का मनकापुर, बस्ती एवं गोरखपुर स्टेशन के समय में भी संशोधन किया जायेगा।

गोमतीनगर-पटना के मध्य एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ी का संचलन किया जायेगा

गोरखपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा के लिये पटना-गोमतीनगर-पटना के मध्य एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ी का संचलन किया जायेगा। इस गाड़ी के संचलन का उद्घाटन 12 मार्च, को पटना से 02345 पटना-गोमतीनगर वंदे भारत उद्घाटन विशेष गाड़ी के रूप में कर किया जायेगा। उद्घाटन के पश्चात नियमित रूप से प्रत्येक शुक्रवार के अतिरिक्त सप्ताह में 06 दिन 18 मार्च, से 22345/22346 पटना-गोमतीनगर-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का संचलन किया जायेगा।

विशेष गाड़ी में 08 कोचों का वंदे भारत रेक लगाया जायेगा

गोरखपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा के लिये लखनऊ-देहरादून-लखनऊ के मध्य एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ी का संचलन किया जायेगा। इस गाड़ी के संचलन का उद्घाटन 12 मार्च, 2024 को देहरादून से गाड़ी सं. 02477 देहरादून-लखनऊ जं. उद्घाटन वंदे भारत विशेष गाड़ी के रूप में निम्नवत् संचलन कर किया जायेगा। 02477 देहरादून-लखनऊ जं. वंदे भारत उद्घाटन विशेष गाड़ी 12 मार्च, 2024 को देहरादून से 09.30 बजे प्रस्थान कर हरिद्वार, मुरादाबाद जं., बरेली जं. स्टेशनों पर रूकते हुए लखनऊ जं. पहुँचेगी। इस उद्घाटन विशेष गाड़ी में 08 कोचों का वंदे भारत रेक लगाया जायेगा।

30 महिला कर्मचारियों को किया सम्मानित

गोरखपुर। महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे सुश्री सौम्या माथुर ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु पूर्वोत्तर रेलवे पर सहायक लोको पायलट, गाड़ी प्रबंधक, प्वाइंटस मैन, स्टेशन मास्टर, ट्रैकमेन्टेनर आदि विभिन्न पदो कार्यरत 30 महिला कर्मचारियों को 11 मार्च, को महाप्रबंधक सभाकक्ष में पुरस्कृत कर सम्मानित किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक ने महिला कर्मचारियो का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि महिला कर्मियों को अपना सर्वोत्तम योगदान देते हुए रेल सेवा करनी चाहिए जिससे उनकी एक अलग पहचान बने और लोगो में यह संदेश जाए कि महिलाए हर क्षेत्र में अपने कार्य का निर्वहन कर रही हैं। इस दौरान महाप्रबंधक सुश्री माथुर ने महिला कर्मचारियो की समस्यायों से अवगत हुई एवं इस सम्बंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।

प्रायोगिक ठहराव निम्नवत् प्रदान किया जायेगा

गोरखपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री जनता की सुविधा हेतु 12791/12792 सिकन्दराबाद-दानापुर-सिकन्दराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस का 13 मार्च, 2024 से दक्षिण मध्य रेलवे जम्मीकुंटा स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव निम्नवत् प्रदान किया जायेगा।

पूर्णिया कोर्ट स्टेशन तक मार्ग विस्तार किया जायेगा

गोरखपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री जनता की सुविधा हेतु 14617/14618 बनमंखी-अमृतसर-बनमंखी एक्सप्रेस का पूर्व मध्य रेलवे के पूर्णिया कोर्ट स्टेशन तक मार्ग विस्तार किया जायेगा। अमृतसर से 11 मार्च, 2024 से चलने वाली 14618 अमृतसर-बनमंखी जनसेवा एक्सप्रेस अमृतसर से 06.35 बजे प्रस्थान कर तथा दूसरे दिन बनमंखी से 17.50 बजे छूटकर पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पर 18.35 बजे पहुंचेगी।

एकतरफा मुकाबले में चैम्पियनशिप पर कब्जा किया

गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे की महिला हैंडबॉल खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी है। 07 से 11 मार्च, 2024 तक हाथरस, उत्तर प्रदेश में आयोजित 52वीं सीनियर महिला नेशनल हैंडबॉल चैम्पियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय रेलवे महिला हैंडबॉल टीम ने राजस्थान को एकतरफा मुकाबले में 22-08 से पराजित कर चैम्पियनशिप पर कब्जा किया। ज्ञातव्य है कि इस चैम्पियनशिप में पूर्वोत्तर रेलवे की 06 हैंडबॉल खिलाड़ी नीना, मोनिका, सुषमा, सृष्टि, ज्योति एवं प्रिया भारतीय रेलवे हैंडबॉल टीम का प्रतिनिधित्व कर रही थी। पूर्वोत्तर रेलवे हैंडबॉल खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ (नरसा) के अध्यक्ष श्री श्रीश चन्द्र श्रीवास्तव, महासचिव/नरसा श्री पंकज कुमार सिंह, हैंडबॉल/सचिव श्री कृष्ण चन्द्र सिंह, सहायक क्रीड़ा अधिकारी श्री चन्द्र विजय सिंह तथा हैंडबॉल/कोच श्री अरविन्द कुमार यादव ने बधाई एवं शुभकामनायें दी।

मोबाइल के साथ गिरफ्तार

गोरखपुर। रेलवे सुरक्षा बल, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा रेल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं अवैध सामानों की धर-पकड़ सहित यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने का निरन्तर प्रयास किया जाता है। 10 मार्च, 2024 को रेलवे सुरक्षा बल एवं अपराध आसूचना शाखा, देवरिया द्वारा निगरानी के दौरान प्लेटफार्म संख्या-02 से यात्रियों की मोबाइल चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को चोरी किये हुए 02 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया।

सीएए : भाजपा-विपक्ष में जुबानी जंग तेज

ममता और पिनरई बोले राज्य में लागू नहीं करेंगे

●भाजपा बोली- जो कहा कर दिखाया

नई दिल्ली। संसद से पारित होने के चार साल से अधिक समय बाद आखिरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम से जुड़े नियम लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी। इसके बाद एक बार फिर कांग्रेस, टीएमसी, माकपा समेत तमाम विपक्षी दलों का विरोध शुरू हो गया है। वहीं भाजपा ने भी इस कानून को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। भाजपा ने कहा हम जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। वहीं, कांग्रेस ने नागरिकता (संशोधन) कानून के लागू होने के बाद सोमवार को आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव से पहले इसके माध्यम से देश में खासकर पश्चिम बंगाल व असम में ध्रुवीकरण का प्रयास किया गया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि चुनावी बॉण्ड पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने हेडलाइन मैनेज करने की कोशिश भी की है। सीएए के नियम अधिसूचित करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे सांप्रदायिक आधार पर विभाजन पैदा करने वाला कानून बताया। साथ ही कहा कि वे इसे किसी भी कीमत पर केरल में लागू नहीं होने देंगे। पिनरई विजयन ने एक बयान में कहा कि सरकार ने बार-बार कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है, उसे केरल में लागू नहीं किया जाएगा। इस सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी कानून के विरोध में पूरा केरल एकजुट होगा। वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी सूरत में बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार मजबूत होती तो सीएए पहले ही लागू कर देती। लोकसभा चुनाव पहले ही इसे क्यों लागू किया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि जब चुनाव आता है तो वे कुछ न कुछ प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं।

पीएम मोदी ने 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपे

●बोले- मैंने जब भी महिला सशक्तिकरण की बात की, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मेरा मजाक उड़ाया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी आज सोमवार को दिल्ली में सशक्त नारी-विकसित भारत प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। उन्होंने एक हजार दीदियों को ड्रोन सौंपे। ये ड्रोन फसलों की निगरानी, पेस्टिसाइड्स-फर्टिलाइजर का छिड़काव और बीज बुवाई जैसे कामों में मददगार होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जब भी मैंने महिला सशक्तिकरण पर बात की, तब कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मेरा मजाक उड़ाया और अपमान किया। मोदी की स्कीम जमीनी अनुभवों के नतीजों पर आधारित हैं। आज हमने 10,000 करोड़ रुपए की राशि इन दीदीयों के खाते में जमा कराई गई हैं। पीएम ने कहा कि कोई भी देश या समाज में नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों के लिए महिलाओं की मुश्किलें और उनका जीवन कभी प्राथमिकता नहीं रही, मेरा अनुभव है कि अगर महिलाओं का थोड़ा अवसर-सहारा मिल जाए तो उन्हें सहारे की जरूरत नहीं रहती है वे लोगों का सहारा बन जाती हैं।

नमो ड्रोन दीदी स्कीम की शुरुआत 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसके तहत 1 लाख महिलाओं को अगले 5 सालों में ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना को देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए लागू किया गया। सरकार का कहना है कि इस स्कीम का मकसद महिलाओं को सशक्त बनाना है। उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना है। यह स्कीम कृषि में लगने वाली लागत में कमी ला सकती है। इससे रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे।

1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में ड्रोन दीदी स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पिछले साल के मुकाबले यह पैसा 2.5 गुना ज्यादा है। 2023 में इस स्कीम के लिए 200 करोड़ रुपए दिए गए थे।

किसान पथ साकार कर रहा पूर्व प्रधानमंत्री अटल का सपना : योगी

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास का जो मॉडल लखनऊ में देखने को मिल रहा है वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ही सपना है, जो धरातल पर उतर रहा है। लखनऊ में तीन हजार 666 करोड़ रुपये की 206 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास के अवसर पर उन्होने सोमवार को कहा कि आज किसान पथ के उद्घाटन के साथ लखनऊ की जाम की समस्या का समधान होने जा रहा है। इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से ग्रीन कॉरीडोर बनाया जा रहा है, यह गोमती नदी के कट को लेते हुए शहीद पथ को जोड़ेगा, जिससे लखनऊ सिटी को जाम की समस्या से निजात मिलेगी।

दूसरी तरफ गुरुग्राम (हरियाणा) में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे देश में विस्तारित एक लाख करोड़ रुपये की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें उत्तर प्रदेश में 5,500 करोड़ रुपये की लागत से आठ लेन की 104 किमी लखनऊ आउटर रिंग रोड (किसान पथ) के तीन पैकेज का उद्घाटन शामिल है। आउटर रिंग रोड यानी किसान पथ के लोकार्पण से इसका लाभ बाराबंकी, गोरखपुर, अयोध्या, सीतापुर, गोंडा, हरदोई, कानपुर, वाराणसी, रायबरेली, सुल्तानपुर समेत अन्य जिलों के लोग उठा सकेंगे। इस रिंग रोड के बन जाने से इन शहरों में जाने के लिए लखनऊ में प्रवेश करने की जरूरत नहीं होगी। वे बिना शहर में प्रवेश किए सीधे गंतव्य को जा सकेंगे। इससे लखनऊ वालों को भी जाम से छुटकारा मिल जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रीन कॉरीडोर के फर्स्ट फेज का कार्य आज पूरा होन जा रहा है।

यहां डीआरडीओ की मदद से रक्षा मत्रालय ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के सेंटर का भी उद्घाटन किया जा रहा है। ये हमारे युवाओं को स्टार्टअप और रोजगार के नये अवसर प्रदान करेगा।

आज लखनऊ मं फॉरेंसिक रिसर्च इंस्ट्रीट्यूट का उद्घाटन और अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के लोकार्पण का कार्य होने जा रहा है। योगी ने लखनऊ में विकास कार्यों का श्रेय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को देते हुए कहा कि लखनऊ ने जो यशस्वी नेतृत्व प्राप्त किया है, वह देश की रक्षा के साथ ही लखनऊ के विकास के लिए समर्पित हैं।

ईडी ने तृणमूल कांग्रेस का 10 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट किया जब्त

कोलकाता। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तगड़ा झटका दिया है। केंद्रीय एजेंसी ने सोमवार को जारी अपने एक आधिकारिक बयान में बताया है कि उसने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद के डी सिंह द्वारा प्रवर्तित एल्केमिस्ट समूह के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत पार्टी का 10.29 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जब्त किया है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस पार्टी द्वारा ली गई विमानन सेवाओं के लिए विभिन्न विमानन व हेलीकॉप्टर कंपनियों को भुगतान करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया था। ईडी ने कहा कि पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पार्टी विधायक एवं पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय और सांसद नुसरत जहां जैसे अन्य स्टार प्रचारकों के लिए इन विमानों का इस्तेमाल किया था।

बयान में कहा गया, जांच में पाया गया है कि जनता को धोखा देकर एकत्र किए गए धन का एक हिस्सा एल्केमिस्ट समूह द्वारा तृणमूल कांग्रेस की ओर से विमानन कंपनियों को भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

दिल्ली सरकार को बदनाम कर रही भाजपा : आप

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दिल्ली की सीवर व्यवस्था को जाम करके दिल्ली सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने सोमवार को सीवर की एक वीडियो और कुछ फोटो दिखाते हुए कहा कि दिल्ली के अधिकांश लोग सीवर के ओवरफ्लो की समस्या से पीड़ित हैं, जिससे उनकी जिंदगी दूभर हो गई है। यह समस्या दिल्ली की कई जगहों पर देखने को मिल रही है। दिल्ली जल बोर्ड के लोग वहां जा-जाकर सफाई कर रहे हैं। जब वह मलबे को निकालने की कोशिश करते हैं तो वहां से बालू और सीमेंट से भरी बोरियां निकलती हैं। इससे साफ पता लग रहा है कि बोरियों को जानबूझकर डाला गया है ताकि सीवर जाम हो जाएं और लोगों तक गंदा पानी पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन्हें यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि भाजपा जैसी घटिया पार्टी पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। आप नेता ने कहा कि इस प्रकार सीवर में जानबूझकर मालबा डालने का मकसद एक ही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया जाए। यह सब कुछ भाजपा एक षड्यंत्र के तहत कर रही है। किसी एक सीवर में बोरी मिलती तो हम इसे संयोग समझ सकते थे, लेकिन पिछले 10 दिन में बहुत सारी जगहों पर मलबे से भरी बोरियां मिल रही है। दिल्ली की कई ऐसी जगहों पर ओवरफ्लो हो रहा है जहां 25-25 सालों से ओवरफ्लो की समस्या नहीं हुई। यह सब कोई संयोग नहीं हो सकता है। श्री पाठक ने कहा कि श्री केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए। स्कूल अस्पताल शानदार हो गए, बिजली-पानी मुफ्त हो गया। कुछ काम आप भी करके दिखाओ।